

करीनरी मुललितस्तेषां नामानि वै क्रमात् । द्वौ द्वौ पुत्रौ स्मृतौ तेषां पितुस्तुल्यपराक्रमौ ॥३३
 स वै पुत्राजया शूरस्तालनो राक्षसप्रियः । यातुधानमयं देवं तुष्टाव म्लेच्छपूजनैः ॥३४
 तथा वसुमतः पुत्रौ भूपती देशवत्सजौ । शक्रं सूर्यं समाराध्य कृतकृत्यौ बभूवतुः ॥३५
 सिंहिनी नाम वडवां यातु दत्ता भयानका । आरुह्य बलावाञ्छूरो गमनाय मनो दधौ ॥३६
 पञ्चशब्दं महानागमिन्द्रदत्तं मनोरमम् । देशराजस्तमारुह्य गमनाय मनो दधे ॥३७
 ह्यं पपीहकं नाम सूर्यदत्तं नरस्वरम् । वत्सराजस्तमारुह्य गमनाय मनो दधे ॥३८
 त्रयः शूराः समागम्य नगरीं ते महावतीम् । ऊषुस्तत्र महात्मानो बहुमानेन सत्कृताः ॥३९
 सेनाषष्टिसहस्रं तत्तेषां स्वामी स तालनः । मन्त्रिणौ भ्रातरौ तौ च नृपतेश्चन्द्रवंशिनः ॥४०
 तैर्वीरै रक्षितो राजा कृतकृत्यत्वमागतः

॥४१

इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये
 कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७

अथाष्टमोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

जम्बूको नाम भूपालो महीराजो भयातुरः । कालियेन युतः प्राप्तो नर्मदायास्तटे शुभे ॥१

मुललित ये नाम बताये गये हैं । इनके प्रत्येक के दो-दो पुत्र थे, जो अपने पिता के समान पराक्रमशाली थे । राक्षसप्रिय तालन ने अपने पुत्रों के आदेश से म्लेच्छपूजन द्वारा राक्षसदेव को प्रसन्न किया ।

पार्थिवैः पूजयामास देवदेवं पिनाकिनम् । षण्मासान्ते महादेवो जम्बूकं प्राह भूपतिम् ॥२
 वरं वरय तेऽभीष्टं भूप आह कृताञ्जलिः । अजितत्वं नृपैः सर्वैर्देहि मे करुणानिधे ॥३
 तथेत्युक्त्वा महादेवस्तत्रैवान्तर्हितोऽभवत् । कालियस्तत्सुतो लब्ध्वा वीरो माहेश्वरं वरम् ॥४
 मोहनं सर्वसैन्यानां पितुरन्तिकमाययौ । पितरं प्राह नम्रात्मा देह्याज्ञां तात मत्प्रियाम् ॥५
 गमिष्यामि बलैः सार्द्धं गङ्गां शुद्धजलां शुभाम् । तथेत्युक्त्वा पिता तस्मै ययौ तु स्वं निवेशनम् ॥६
 भगिनीं प्राह बलवान्विजयैषिणि शोभने । किमिच्छसि शुभं वस्तु तदाज्ञां देहि मा चिरम् ॥७
 साह प्रैवेयकं हारं मणिमुक्ताविभूषितम् । मत्प्रियं देहि मे वीर तथेत्युक्त्वा ययौ गृहात् ॥८
 कालियो लक्षतुरगैः संयुतस्त्वरितोऽगमत् । प्राप्य गङ्गासागरगां कृत्वास्नानं विधानतः ॥९
 दत्त्वा दानानि विप्रेभ्यो जयचन्द्रपुरीं ययौ । निर्धनः समभूद्राजा बाहुशाली महाबलः ॥१०
 कान्यकुब्जे महाहारो न प्राप्तो बहुमूल्यकः । तदोर्वीयाधिपेनैव महीशेन प्रबोधितः ॥११
 ययौ महावतीं रम्यां शिवदत्तवरी बली । हरोध नगरीं सर्वां श्रुत्वा राजा भयातुरः ॥१२
 रुद्रं कपर्दिनं शम्भुं शरण्यं शरणं ययौ । शिवाज्ञया नृपो धीमान्बलैः षष्टिसहस्रकैः ॥१३
 सार्द्धं पुराद्बहिर्यातस्त्रिभिः शूरैः सुरक्षितः । तस्य नागाः सहस्रं च देशराजश्च तत्पतिः ॥१४
 हयाः षोडशसाहस्रा वत्सराजस्तु तत्पतिः । शेषाः पदातयस्तस्य तालनेनैव रक्षिताः ॥१५

लेकर नर्मदा के तट पर देवाधिदेव पिनाकपाणि शिव की आराधना पार्थिव पूजन द्वारा करना आरम्भ किया । छठें मास की समाप्ति में महादेव ने राजा जम्बूक से कहा—‘यथेच्छ वर की याचना कीजिये । राजा ने हाथ जोड़कर कहा—‘करुणानिधे ! मुझे अजेय कर दीजिये, जिससे कोई राजा मुझे जीत न सके ।’ उसे स्वीकार कर महादेव उसी स्थान पर अन्तर्हित हों गये । उसके पुत्र कालिय ने शंकर के उस वरदान मोहनास्त्र की प्राप्ति कर अपने पिता से विनम्र होकर कहा—‘तात ! मुझे आज्ञा प्रदान कीजिये,

अभवत्तुमुलं युद्धं तेषां वीरवरक्षयम् । अहोरात्रप्रमाणेन महद्दोरमवर्तत ॥१६
 ते हत्वा शात्रवीं सेनां चक्रुर्जयरवान्मुहुः । भयार्ता नार्मदेयाश्च माहिष्मति^१निवासिनः ॥१७
 बुद्बुदुः सर्वतो विप्र दृष्ट्वा तान्कालियो नृपः । आश्वस्य प्रययौ युद्धमर्द्धसैन्यसमन्वितः ॥१८
 हृदि कृत्वा महादेवं मोहनं बाणमादधत् । सिद्धमन्त्रप्रभावेण मोहितास्ते बभूविरे ॥१९
 शेषास्ते शत्रवः सर्वे रिपुघाताय संययुः । अलसांस्तान्कपालेषु जघ्नस्ते भयवर्जिताः ॥२०
 भीष्मसिंहस्तथा दृष्ट्वा बोधयामास सैनिकान् । सूर्यदत्तेन बाणेन संजाख्यानेन तत्र वै ॥२१
 भैरवाख्येन भल्लेन शत्रुदेहमताडयत् । मूर्च्छितः सोऽपतद्वीरो गजपृष्ठे शरार्दितः ॥२२
 तदा माहिष्मती सेना निर्ययौ सा दिशो दश । मुहूर्तं कश्मलं प्राप्य पुनरुत्थाय कालियः ॥२३
 भल्लेन तच्छिरः कायादपाहरत् भूमिपः । हते तस्मिन्महावीर्ये तालनाद्या महाबलाः ॥२४
 कालियं ते पराजित्य तं शत्रुं प्रत्यषेधयन् । महाकृष्टान्बितो भूपो ध्यात्वा मनसि शङ्करम् ॥२५
 मोहयित्वा रिपून्सर्वान्स ययौ स्वं निवेशनम् । अर्द्धसैन्येन सहिता हतशेषास्त्रयस्तथा ॥२६
 तदा परिमलो राजा दृष्ट्वा शत्रुपराजयम् । परिष्वज्य महावीरान्स्वगेहं पुनराययौ ॥२७
 जयचन्द्रस्तु तच्छ्रुत्वा परं विस्मयमागतः । तालनं च समाहूय सेनाधीशमकरायत् ॥२८

अधिकार में थी । दोनों राजाओं का तुमुल संग्राम आरम्भ हुआ, वीरगण भूमिशायी होने लगे, वह घोर युद्ध दिन-रात में समान रूप से हो रहा था । (परिमल के) सैनिकों ने शत्रुसेना का नाश करके 'जय-जय' की ध्वनि से अपनी विजय की सूचना बार-बार देना आरम्भ किया और नर्मदा तट के माहिष्मती नगर के निवासी (करिया) की सेना भयभीत होकर चारों ओर भागने लगी । विप्र ! राजा कालिय (करिया) ने भागते हुए उन्हें देखकर आश्वासन (धैर्य) दिया । पश्चात् शेष बची हुई अपनी आधी सेना समेत युद्ध

भीष्मसिंहे गते लोके पञ्चमासान्तरे नृपे । तत्पत्नी जनयामास पुत्ररत्नं शुभाननम् ॥२९
 सा तु गुर्जरभूपस्य तनयाख्या मदालसा । दिव्यं पुत्रं समालोक्य मुमुदे सगणा भृशम् ॥३०
 श्रुत्वा तज्जन्म नृपतिर्विततार धनं बहु । आहूय गणकान्प्राज्ञाञ्जातकर्म ह्यकारयत् ॥३१
 सहदेवांश एवासौ भुवि जातः शिवाज्ञया । देवसिंहः कृतो नाम गणकैः शास्त्रचिन्तकैः ॥३२

इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्थ्युगलण्डापरपयि

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नामाष्टमोऽध्यायः ॥८

अथ नवमोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

कालियं तौ पराजित्य भ्रातरौ नृपसेवकौ । गतौ गोपालके राष्ट्रे भूपतिर्दलवाहनः ॥१
 सहस्रचण्डिकाहोमे नानाभूपसमागमे । गृहीतौ महिषौ ताभ्यां भूपैरन्यैश्च दुर्जयौ ॥२
 पूर्वं हि नृपकन्याभ्यां प्रत्यहं बन्धनं गतौ । तौ सम्पूज्य विधानेन ददौ ताभ्यां च कन्यके ॥३
 देवकीं देशराजाय ब्राह्मीं तस्यानुजाय वै । ददौ दुर्गाज्ञया राजा रूपयौवनशालिनीम् ॥४

भीष्म सिंह के स्वर्गीय होने पर पाँच मास के भीतर ही उनकी पत्नी ने एक शुभ पुत्ररत्न उत्पन्न किया, जो गुर्जर (गुजरात) देश के राजा की पुत्री थी। मदालसा उसका नाम था। उसके दिव्य पुत्र का जन्म सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए। राजा ने उसके जातकर्म संस्कार तथा जन्म के उपलक्ष्य में अत्यन्त धन वितरण किया। ज्योतिषियों द्वारा जातकर्म सुसम्पन्न होने के उपरान्त उनके पूँछने पर उन्होंने नवमोऽध्याय — सन्देह का शिव की आज्ञा से अंश इस बालक के रूप में पृथिवी तल को सुशोभित करने के लिए

लक्षावृत्तिं तथा वेश्यां गीतनृत्यविशारदाम् । कन्ययोश्च सखीं रम्यां मेघमल्लाररागिणीम् ॥५
 शतं राजान्स्थान्यञ्च ह्यांश्चैव सहस्रकान् । चत्वारिंशच्च शिबिकाः प्रददौ दलवाहनः ॥६
 बहुद्रव्ययुतां कन्यां दासदासीसमन्विताम् । उदूह्य वेदविधिना प्रापतुश्च महावतीम् ॥७
 मलना तां वधूं दृष्ट्वा तस्यै प्रैवेयकं ददौ । ब्राह्म्यै षोडशशृङ्गारं तथा द्वादशभूषणम् ॥८
 राजा च परमानन्दी देशराजाय शूरिणे । ददौ दशपुरं रम्यं नानाजननिषेवितम् ॥९
 ऊषतुस्तत्र तौ वीरौ राजमान्यौ महाबलौ । एतस्मिन्नन्तरे जातो देवसिंहो हराज्ञया ॥१०
 जाते तस्मिन्कुमारे तु देवकी गर्भमादधौ । दासश्रुता पतेर्देवी सुषुवे पुत्रमूर्जितम् ॥११
 गौराङ्गः कमलाक्षं च दीप्यमानं स्वतेजसा । तदानन्दमयो देवः शक्रः सुरगणैः सह ॥१२
 शङ्खशब्दं चकारोच्चैर्जयशब्दं पुनःपुनः । दिशः प्रफुल्लिताश्वासनप्रहाः सर्वे तथा दिवि ॥१३
 आयाता बहवो विप्रा वेदशास्त्रपरायणाः । चक्रुस्ते जातकर्मास्य नामकर्म तथाविधम् ॥१४
 रामांशं तं शिशुं ज्ञात्वा प्रसन्नवदनं शुभम् । भाद्रकृष्णतिथौ षष्ठ्यां चन्द्रवारेऽरुणोदये ॥१५
 सञ्जातः कृत्तिकाभे च पितृवंशयशस्करः । आह्लादनाभ्राह्मभवत्प्रश्रितश्च महीतले ॥१६
 मासान्ते च सुते जाते ब्राह्मी पुत्रमजीजनत् । धर्मजांशां तथा गौरं महाबाहुं सुवक्षसम् ॥१७
 तदा च ब्राह्मणाः सर्वे दृष्ट्वा बालं शुभाननम् । प्रसन्नवदनं चारुपद्मचिह्नपदस्थितम् ॥१८

लक्षावृत्ति नामक वेश्या, जो नृत्य एवं गान में अत्यन्त निपुण थी, और मेघ मलार राग गाने वाली उसकी सुन्दरी सखियाँ भेजी गईं तथा सौ हाथी, पाँच सहस्र घोड़े और चालीस पालकी भी राजा दलवाहन ने सप्रेम प्रदान किया । अत्यन्त धनराशि और अनेक दास दासी गणों समेत उन कन्याओं को लेकर सविधान विवाह हो जाने के उपरान्त अपनी महावती पुरी में वे दोनों भाई चले आये । मलना ने उस वधू को देखकर वह अमूल्य (नौलखा) हार, ब्राह्मी को सोलह शृंगार तथा बारह आभूषण प्रदान किया । परमानन्द मग्न

तैर्द्विजैश्च कृतो नाम्ना बलखानिर्महाबलः । वर्षान्ते वत्सजे जाते मूलगण्डान्तसम्भवः ॥१९
 चामुण्डो देवकिमुतो निजवंशभयङ्करः । जनितारं ततस्त्याज्य इत्यूचुर्द्विजसत्तमाः ॥
 न तत्याज सुतं राजा बालत्वेऽपि दयापरः ॥२०
 त्रिवर्षान्ते गते तस्मिन्बलखानौ सुते शुभे । शूद्र्यां जातः शिखण्ड्यंशो रूपणो नाम विश्रुतः ॥२१
 वत्सराजो ययौ देशे गुर्जरे च मदालसाम् । स सुतां च समादाय दिने तस्मिन्समागतः ॥२२
 प्राप्ते तस्मिन्वत्सराजे जम्बुकः स्वबलैर्वृतः । सप्तलक्षैश्च सम्प्राप्तो बाहुशाली यतेन्द्रियः ॥२३
 हरोध नगरीं सर्वा राज्ञाः परिमलस्य वै । त्रिलक्षैश्च महावत्यै सार्द्धां तौ जग्मतुः पुरात् ॥२४
 माहिष्मतैः सप्तलक्षैः सार्द्धं युद्धमभून्महत् । त्रिरात्रं दारुणं घोरं यमराष्ट्रविबर्द्धनम् ॥२५
 शिवस्य वरदानेन भ्रात्रोर्जातः पराजयः । बद्ध्वा तौ जम्बुको राजा लुण्ठयित्वा महावतीम् ॥२६
 वेश्यां लक्षारतिं तस्य तं हतं तद्गजं तथा । ग्रैवेयकं तथा हारंमणिरत्नविभूषितम् ॥२७
 गृहीत्वा नगरीं सर्वा भस्मयित्वा गृहं ययौ । ये गुप्ता भूतले शूरास्ते शेषाश्च तदाऽभवन् ॥२८
 दुर्गेषु यानि रत्नानि तानि प्राप्य मुदा ययौ । लुण्ठिते नगरे तस्मिन्देवकी गर्भमुत्तमम् ॥२९
 कृष्णांशं सप्तमास्यं हि चादधाद्वैवतप्रिया^१ । ज्ञात्वा कुलाधमं पुत्रं चामुण्डं देवकी सती ॥३०

किया । प्रथम पुत्र की एक वर्ष की अवस्था होने के उपरान्त देवकी ने पुनः चामुण्ड (चौड़ा) नामक एक पुत्र को गण्डान्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न किया, जो अपने वंश के लिए घातक था । इसीलिए ब्राह्मणों ने कहा—‘इस पुत्र का त्याग करना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा’ किन्तु राजा को उसका बचपन देख अत्यन्त करुणा हुई, इसलिए ये उसका त्याग न कर सके । १८-२०। इन बच्चों की तीन वर्ष की अवस्था होने पर शूद्री के गर्भ से शिखण्डी का अंश ‘रूपन’ नाम से उत्पन्न हुआ । पुत्र समेत मदालसा को बुलाने के

कल्पक्षेत्रं समागम्य कालिन्ध्यां तमपातयत् । योजनान्ते गते तस्मिन्महीराजपुरोहितः ॥३१
सामन्तो नाम तं गृह्य श्वशुरालयमाययौ । जातस्तु दशमासान्ते रात्रौ घोरतमोवृते ॥३२
भाद्रकृष्णाष्टमीसौम्ये ब्राह्मणक्षत्रसंयुते । प्रादुरासीज्जगन्नाथो देवक्यां च महोत्तमः ॥३३
श्यामाङ्गः स च पद्माक्ष इन्द्रनीलमणिद्युतिः । विमानानां सहस्राणां प्रकाशः समजायत ॥३४
विस्मिता जननी तत्र दृष्ट्वा बालं तमद्भुतम् । नगरे च महाश्रयं जातं सर्वे समाययुः ॥३५
उदयः किमहो जातो देवानां सूर्यरूपकः । इत्याश्रय्यर्जुजां तेषां वागुवाचाशरीरिणी ॥३६
कृष्णांशो भूतले जातः सर्वानन्दप्रदायकः । स नाभ्रोदयसिंहो हि सर्वशत्रुप्रकाशहा ॥३७
इत्याकाशवचः श्रुत्वा ते परं हर्षमाययुः । यस्मिन्काले सुतो जातस्तदा च मलना सती ॥३८
श्यामाङ्गं सुन्दरं बालं सर्वलक्षणलक्षितम् । सुषुवे परमोदारं फाल्गुनांशं शिवाज्ञया ॥३९
तदा तु नगरी सर्वा हर्षभूता बभूव ह । षष्ठाहनि सुते जाते ब्रह्मानन्दगुणाकरे ॥४०
ब्राह्मी तु सुषुवे पुत्रं पार्षदांशं महाबलम् । श्यामाङ्गं कमलाक्षं च दृढस्कन्धं महाभुजम् ॥४१
ब्राह्मणश्च तदागत्य जातकर्म ह्यकारयन् । सुखखानिर्द्विजैर्नाम्ना कृतस्तु गणकोत्तमैः ॥४२
क्रमेण वर्द्धिता बालाः सर्वलोकशिवङ्कराः । तेषां काली महच्छ्रेष्ठा पितृमातृप्रियङ्करा ॥४३

यमुनातट के कल्पक्षेत्र में जाकर उसे त्याग दिया । उस जल-प्रवाह में एक योजन (चार कोस) तक उसके चले जाने पर पृथिवीराज का पुरोहित सामन्त उसे देखकर पकड़ा और अपनी ससुराल ले गया । दशवें मास की समाप्ति के समय भादों की कृष्णाष्टमी बुधवार के दिन उस घोर अन्धकारपूर्ण रात्रि में जब ब्राह्म (रोहिणी) नक्षत्र की बेला थी, देवकी के गर्भ से जगन्नाथ जी आविर्भूत (प्रकट) हुए, जो सर्वोत्तम, श्यामवर्ण, कमल के समान नेत्र और इन्द्रनीलमणि की भाँति दीप्त थे । उस समय सहस्रों विमान के

तृतीयाब्दे वयः प्राप्ते कृष्णांशो बलवत्तरे । शक्रस्तदर्शनाकांक्षी हयारूढो जगाम ह ॥४४
 क्रीडन्स चन्दनारण्ये कृष्णांशो भ्रातृभिः सह । नभस्थं पुरुषं दृष्ट्वा सहस्राक्षं जहास वै ॥४५
 अश्विनी हरिणी दिव्या उच्चैः श्रवसमन्तिके । गत्वा गर्भमुपादाय स्वगेहं पुनराययौ ॥४६
 वर्षान्तरे च सुषुप्ते कपोतं तनयं शुभम् । पञ्चाब्दे च समायाते विद्याध्ययनमास्थिताः ॥४७
 ब्राह्मणं शिवशर्मणिं सर्वविद्याविशारदम् । स्वभक्त्या सेवनं कृत्वा ते चक्रुर्वेदपाठिकाम् ॥४८
 अष्टाब्दे चैव कृष्णांशो नामपत्रादिकां क्रियाम् । लिखतां बालकानां च कृष्णांशः श्रेष्ठतामगात् ॥४९
 इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये कलियुगीयेतिहाससमुच्चये
 कृष्णांशावतारत्रये नाम नवमोऽध्यायः १९

अथ दशमोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

नवमाब्दं वयः प्राप्ते कृष्णांशो बलवत्तरः । पठित्वान्वीक्षिकीं विद्यां चतुःषष्टिकलास्तथा ॥१
 धर्मशास्त्रं तथैवापि सर्वश्रेष्ठो बभूव ह । तस्मिन्काले भृगुश्रेष्ठ महीराजो नृपोत्तमः ॥२

तीसरे वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर उस सबल एवं कृष्णांश (से उत्पन्न उदय) के दर्शनाभिलाषी इन्द्र घोड़े पर बैठकर वहाँ आये, जहाँ वह चन्दन के वन में अपने भाइयों के साथ बाल-क्रीडा में निमग्न हो रहा था । उस समय आकाश में स्थित इन्द्र को देखकर उस बालक ने अट्टहास (ठठाकर हँसा) किया, इधर हरिणी नामक बड़वा (घोड़ी) भी इन्द्र के उस दिव्य उच्चैः श्रवा नामक घोड़े के पास पहुँचकर उसके

करार्थं प्रेषयामास स्वसैन्यं च महावतीम् । ते वै लक्षं महाशूराः सर्वशस्त्रास्त्रधारिणः ॥३
 ऊचुः परिमलं भूपं शृणु चन्द्रकुलोद्भव । सर्वे च भारते वर्षे ये राजानो महाबलाः ॥४
 षडंशं करमादायास्मद्राजाय ददति वै । भवान्करे हि तस्यैव योग्यो भवति साम्प्रतम् ॥५
 अद्यप्रभृति चेद्राज्ञे तस्मै दद्यात्करं न हि । महीराजस्य रौद्रास्त्रैः क्षयं यास्यति सैनिकैः ॥६
 ये भूपा जयचन्द्रस्य पक्षगास्ते हि तद्भूयात् । ददन्ते भूमिराजाय दण्डं तन्मानसत्कृताः ॥७
 इति श्रुत्वा स नृपतिस्तस्मै राज्ञे महात्मने । करं षडंशमादाय ददौ प्रीतिसमन्वितः ॥८
 दशलक्षमितं द्रव्यं गृहीत्वा ते समाययुः । महीराजः प्रसन्नात्मा पूर्ववैरमपाहरत् ॥९
 तदा ते लक्षशूराश्च कान्यकुब्जमुपाययुः । जयचन्द्रं तु नत्वोचुः शृणु लक्षणकोविद ॥१०
 पृथ्वीराजो महाराजो दण्डं त्वत्तः समिच्छति । इत्युक्तस्तैर्वैष्णवास्त्री लक्षणस्तानुवाच ह ॥११
 महेशे मण्डलीकाश्च बहवः सन्ति साम्प्रतम् । भूमिराजो माण्डलिको मयि जीवति मा भवेत् ॥१२
 इत्युक्त्वा वैष्णवास्त्रं तान्क्रुद्धः स च समादधत् । तदस्त्रज्वालतः सर्वे भयभीताः प्रदुद्रवुः ॥१३
 महीराजस्तु तच्छ्रुत्वा महद्भयमुपागमत् । दशाब्दं च वयः प्राप्ते कृष्णांशे मल्लकोविदे ॥१४
 नानामल्लाः समाजग्मुस्तेन राज्ञैव सत्कृताः । तेषां मध्ये स कृष्णांशो बाहुशाली बभूव ह ॥१५
 उर्वीयाधिपतेः पुत्रः षोडशाब्दवया बली । शतमल्लैश्च सहितः क्रुदाचित्स समागतः ॥१६

नगर में भेजा । महापराक्रमी एवं शस्त्रास्त्रधारी उन एक लाख सैनिकों ने राजा परिमल से कहा—चन्द्रकुलोत्पन्न, राजन् ! हम लोगों की बातें सुनने की कृपा करें । भारत वर्ष के जितने बलवान् राजा हैं, सभी (अपनी आय का) छठाँ भाग कररूप में हमारे महाराजा को समर्पित करते हैं । अब आप भी उन्हें कर देने की क्षमता प्राप्त करें, अतः आज से आपको यह राजकर अर्पित करना पड़ेगा, नहीं तो, कर न देने पर पृथिवीराज के सैनिकों के रुद्रास्त्रों द्वारा आप नष्ट कर दिये जायेंगे, क्योंकि जयचन्द्र के पक्ष

पितृष्वसृपतिं भूपं नत्वा नाम्नाऽभयोबली । उवाच शृणु भूपाल कृष्णोऽयं मदमत्तरः ॥१७
 तेन सार्द्धं भवेन्मल्लयुद्धं मम नृपोत्तम । इति वज्रसमं वाक्यं श्रुत्वा राजा भयातुरः ॥१८
 उवाच श्यालजं प्रेम्णा भवान् युद्धविशारदः । अष्टाब्दोऽयं सुतः स्निग्धो मम प्राणसमो भुवि ॥१९
 क्व भवान्वज्र सदृशः क्व सुतोऽयं सुकोमलः । अन्यैर्मल्लैर्मदीयैश्च सार्द्धं योग्यो भवानरणे ॥२०
 इति श्रुत्वा नृपः श्यालो महीपतिरिति स्मृतः । स तमाह र्षाविष्टो बालोऽयं बलवत्तरः ॥२१
 शृणु तत्कारणं भूप यथा ज्ञातो मया शिशुः । आगस्कृतं महीराजं मत्वा सतिलकः सुतम् ॥२२
 पण्डितांश्च समाहूय मुहूर्तं पृष्टवान्मुदा । गणेशो नाम मतिमाञ्ज्योतिश्शास्त्रविशारदः ॥२३
 लक्षणं वचनं प्राह महीराजमनुत्तमम् । शिवदत्तवरो राजन्कुबेर इव साम्प्रतम् ॥२४
 कृष्णांशस्तस्य योग्योऽयं देशराजसुतोऽवरः । नान्योऽस्ति भूतले राजन्सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम् ॥२५
 तच्छ्रुत्वा लक्षणो वीरः पूर्वं बर्हिष्मतीं प्रति । कल्पक्षेत्रं दक्षिणे च भूमिग्रामं तु पश्चिमे ॥२६
 उत्तरे नैमिषारण्यं स्वकीयं राष्ट्रमादधत् । अतः श्रेष्ठः कुमारोऽयं कान्यकुब्जे मया श्रुतः ॥२७
 नागोत्सवे च भूपाल पञ्चम्यां च नभस्सिते । दृश्यमात्रं कुमाराङ्गं तस्माद्योग्यो ह्ययं सुतः ॥२८
 इति श्रुत्वा स कृष्णांशो वाक्छरेण प्रपीडितः । अभयं भुजयोः शीघ्रं गृहीत्वा सोऽयुधद्वली ॥२९
 क्षणमात्रं रणं कृत्वा भूमिमध्ये तमक्षिपत् । अभयस्य भुजो भग्नस्तत्र जातो बलेन वै ॥३०
 मूर्च्छितं स्वमुतं ज्ञात्वा खड्गहस्तो महीपतिः । प्रेषयामास तान्मल्लान्कृष्णांशस्य प्रहारणे ॥३१

कृष्ण अधिक मदमत्त दिखाई देता है, और मेरा भी नाम अभय है, अतः नृपोत्तम ! उससे मेरा मल्ल युद्ध होना चाहिए । वज्र के समान इस बात को सुनकर राजा ने कातर होकर अपने साले से कहा—आप युद्ध कुशल हैं, मेरा यह स्निग्धपुत्र, जो मेरा प्राणप्रिय है, अभी आठ ही वर्ष का है । कहाँ वज्र की भाँति कठोर आय और कहाँ अत्यन्त सुकोमल यह बालक । मेरे यहाँ और अन्य मल्ल रहते हैं । आप उनके साथ

रुषाविष्टांश्च ताञ्ज्ञात्वा कृष्णांशो बलवत्तरः । तानेकैकं समाक्षिप्य विजयी स बभूव ह ॥३२
 पराजिते मल्लबले खड्गहस्तो महीपतिः । मरणाय मतिं चक्रे कृष्णांशस्य प्रभावतः ॥३३
 ज्ञात्वा तमीदृशं भूपं वारयामास भूपतिः । अभयं नीरुजं कृत्वा प्रेम्णा गेहमवासयत् ॥३४
 नवाब्दाङ्गे च कृष्णांशे चाह्लादाद्याः कुमारकाः । मृगयार्थे दधुश्चितं तमूचुर्भूपतिं प्रियम् ॥३५
 नमस्ते तात भूपाय्य सर्वानन्दप्रदायक । अस्मभ्यं त्वं ह्यान्देहि मत्प्रियान्करुणाकर ॥३६
 इति श्रुत्वा वचस्तेषां तथेत्युक्त्वा महीपतिः । भूतले वासिनोऽश्वान्वै दिव्यान्राट् चतुरो वरान् ॥३७
 ददौ तेभ्यो मुदा युक्तो हरिणीगर्भसम्भवान्

ऋषय ऊचुः

त्वन्मुखेन श्रुतं सूत हरिणी वडवा यथा ॥३८
 भीष्म सिंहाय सम्प्राप्ता शक्राद्देवेशतो मुने । इदानीं श्रोतुमिच्छामः कुतो जातास्तुरङ्गमाः ॥३९
 दिव्याङ्गा भूषणापन्ना नभस्सलिलगामिनः

सूत उवाच

देशराजेन भूपेन पुरा धर्मयुतेन वै ॥४०
 सेवनं भास्करस्यैव कृतं च द्वादशाब्दिकम् । सेवान्ते भगवान्सूर्यो वरं ब्रूहि तमब्रवीत् ॥४१

देखकर हाथ में तलवार लिए उन मल्लों को कृष्णांश के हननार्थ भेजा । उन मल्लों को क्रुद्ध एवं रोषपूर्ण जानकर उस बलवान् कृष्णांश ने उनमें से एक-एक को भूमि में गिराकर विजय की प्राप्ति की । मल्ल सैनिकों के पराजित हो जाने पर राजा ने हाथ में तलवार लेकर उस कृष्णांश द्वारा अपने जीवन को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध होने का निश्चय किया । राजा ने उन्हें इस प्रकार मरण के लिए निश्चित

प्राह देव नमस्तुभ्यं यदि देवो वरस्त्वया । हयं दिव्यमयं देहि नभस्थलजलातिगम् ॥४२
 तथेत्युक्त्वा रविः साक्षाद्ददौ तस्मै पपीहकम् । लोकान्पाति पपीर्ज्ञेयस्तस्येदं नाम चोत्तमम् ॥४३
 अतः पपीहको नाम लोकपालनकर्मवान् । स हयो मदमत्तश्च हरिणीं दिव्यरूपिणीम् ॥४४
 बुभुजे स्मरवेगेन तस्यां जातास्तुरङ्गमाः । मनोरथश्च पीताङ्गः करालः कृष्णरूपकः ॥४५
 एकगर्भे समुद्भूतौ शैव्यमुप्रीवकांशकौ । यस्मिन्दिने समुद्भूतौ जिष्णुविष्णुकलांशतः ॥४६
 तदा जातौ हरिण्याश्च मेघपुष्पबलाहकौ । बिन्दुलश्च मुवर्णाङ्गः श्वेताङ्गो हरिनागरः ॥४७
 दिव्याङ्गास्ते हि चत्वारः पूर्वं जाता महाबलाः । पश्चादंशावताराश्च जातास्तेषां महात्मनाम् ॥४८
 इति ते कथितं विप्र शृणु तत्र कथां शुभाम् । भूतले ते हयाः सर्वे प्राप्ताश्चोपरिभूमिगाः ॥४९
 देवसिंहाय बलिने ददौ चाश्वं मनोरथम् । आह्लादाय करालं च कृष्णां शायैव बिन्दुलम् ॥५०
 ब्रह्मानन्दाय पुत्राय प्रददौ हरिनागरम् । ते चत्वारो हयारूढा मृगयार्थं वनं ययुः ॥५१
 हरिणीं बडवां शुभ्रां बलखानिः समारुहत् । तदनु प्रययौ वीरो वनं सिंहनिषेवितम् ॥५२
 आह्लादेनैव शार्दूलो हतः प्राणिभयङ्करः । देवसिंहेन सिंहश्च सूकरो बलखानिना ॥५३
 ब्रह्मानन्देन हरिणो हतस्तत्र महावने । मृगाः शतं हतास्तैश्च तानूहीत्वा गृहं ययुः ॥५४
 एतस्मिन्नन्तरे देवी शारदा च शुभानना । मृगी स्वर्णमयी भूत्वा तेषामग्रे प्रधाविता ॥५५

तुम्हें नमस्कार है, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे आकाश-गंगा के जल में चलने वाले उस घोड़े को प्रदान करने की कृपा कीजिये ॥४०-४२॥ इसे स्वीकार कर सूर्य ने उसे पपीहा (लोक की रक्षा करने वाला) नामक घोड़ा प्रदान किया । पश्चात् लोकपालन करने वाला यह पपीहा नामक अश्व मदोन्मत्त होने के नाने काम को रोकने में असमर्थ होकर उस दिव्य हरिणी नामक घोड़ी के साथ मैथुन किया, जिसके गर्भ से ये—पीले वर्ण का मनोरथ (मनोहर) और कृष्ण वर्ण का कराल (भीषणाकार) ये दोनों एक ही

दृष्ट्वा तां मोहिताः सर्वे स्वैः स्वैर्बाणैरताडयन् । शरास्तुः संक्षयं जग्मुर्मृग्यङ्गैः बलवत्तरः ॥५६
 आह्लादाद्याश्च ते शूरा विस्मिताश्च बभूवुरे । तस्मिन्काले स कृष्णाङ्गो बाणेनैव ह्यताडयत् ॥५७
 तदा च पीडिता देवी भयभीता ययौ वनम् । कृष्णांशः क्रोधताम्राक्षस्तत्पश्चात्प्रययौ बली ॥५८
 वनान्तरं च सम्प्राप्य देवी धृत्वा स्वकं वपुः । तमुवाच प्रसन्नाक्षी परीक्षा ते मया कृता ॥५९
 यदा ते च भयं भूयात्तदा त्वं मां सदा स्मर । साधयिष्यामि ते कार्यं कृष्णांशो हि भवान्विभुः ॥६०
 इत्युक्त्वान्तर्हिता देवी शारदा सर्वमङ्गला । कृष्णांशस्तु ययौ गेहं तैश्च सार्द्धं मुदा युतः ॥६१
 तदा पराक्रमं तेषां दृष्ट्वा राजा सुखोऽभवत् । गृहे गृहे च सर्वेषां लक्ष्मीर्देवी समाविशत् ॥६२

इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्थ्युगलखण्डापरपर्याये

कलियुगीयेतिहाससमुच्चये दशमोऽध्यायः । १०

अथैकादशोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

दशाब्दे च वयः प्राप्ते विष्णोः शक्त्यवतारके । वसन्तसमये रम्ये ययुस्ते प्रमदाबनम् ॥१

सम्मुख दौड़ना आरम्भ किया । ५२-५५। उसे देखकर मोहित होकर कुमारों ने अपने-अपने बाणों से उस पर प्रहार किया किन्तु, उनके वे भीषण बाण, उस मृगी के अंगों में प्रविष्ट होकर भी नष्ट हो जाया करते थे । उसे देखकर आह्लाद आदि कुमार अत्यन्त आश्चर्य-चकित होने लगे । उस समय उदयसिंह ने अपने बाण से उस पर आघात किया । उस बाण से पीड़ित एवं भयभीत होकर देवी दूसरे जंगल में चली गई । पश्चात् कृष्णांश (उदयसिंह) भी क्रुद्ध होने के नाते अपने नेत्र को तांबे की भाँति रक्तवर्ण करते हुए उसके

ऊपुस्तत्र व्रताचारे माधवे कृष्णवल्लभे । स्नात्वा च सागरे प्रातः पूजयामासुरम्बिकाम् ॥२
 ऋतुकालोद्भवैः पुष्पैर्धूपैर्दीपैर्विधानतः । जप्त्वा सप्तशतीस्तोत्रं दध्युः सर्वकरीं शिवाम् ॥३
 कन्दमूलफलाहारा जीर्वाहंसाविर्जिताः । तेषां भक्तिं समालोक्य मासान्ते जगदम्बिका ॥४
 ददौ तेभ्यो वरं रम्यं तच्छृणुध्वं समाहिताः । आह्लादाय सुरत्वं च बलत्वं बलखानये ॥५
 कालज्ञत्वं च देवाय ब्रह्मज्ञत्वं नृपाय च । कृष्णांशायैव योगत्वं दत्त्वा चान्तर्दधे शिवा ॥६
 कृतकृत्यास्तदा ते वै स्वगेहं पुनराययुः । तेषां प्राप्ते वरे रम्ये मलना पुत्रमूर्जितम् ॥७
 श्यामाङ्गः सात्यकेरंशं सुषुवे शुभलक्षणम् । स ज्ञेयो रणजिच्छूरो राजन्यप्रियकारकः ॥८
 आषाढे मासि सम्प्राप्ते कृष्णांशो ह्यवाहनः । उर्वीयां नगरीं प्राप्त एकाकी निर्भयो बली ॥९
 दृष्ट्वा स नगरीं रम्यां चतुर्वर्णनिषेविताम् । द्विजशालां ययौ शूरो द्विजधेनुप्रपूजकः ॥१०
 दत्त्वा स्वर्णं द्विजातिभ्यः सन्तर्प्य द्विजदेवताः । महीपतिगृहं रम्यं जगाम बलवत्तरः ॥११
 नत्वा स मातुलं धीमांस्तथान्यांश्च सभासदः ॥१२
 तदा नृपाज्ञया शूरा बन्धनाय समुद्यताः । खड्गहस्ताः समाजग्मुर्यथा सिंहं गजाः शशाः ॥१३
 मोहितं तं नृपं कृत्वा दुष्टबुद्धिर्महीपतिः । कृत्वा लोहमयं जालं तस्योपरि समादधेः ॥१४

एक दिन राजकुमारों ने वसन्त ऋतु के रमणीक आगमन में आनन्द का अनुभव करते हुए प्रमदाओं के उपवन की ओर प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर कृष्णप्रिय उस वसंत के समय उन लोगों ने व्रत करने का निश्चय किया—प्रातःकाल सागर में स्नान करके सामयिक पुष्प, फल, धूप एवं दीप द्वारा सविधान भगवती अम्बिका देवी की पूजा किया । पश्चात् कुमारगण सप्तशती (दुर्गाजी) का स्तोत्र पाठ करके जगज्जननी कल्याणी पार्वती जी का ध्यान करने लगे, और भोजन में केवल कन्दमूल का फलाहार करते थे । इस प्रकार व्रतानुष्ठान करते हुए वहाँ के उनके एक मास के जीवन में अत्यन्त परिवर्तन हो गया था—जीव हिंसा से अत्यन्त विरत थे । उनकी इस प्रकार की भक्ति से प्रसन्न होकर जगदम्बा भगवती ने

एतस्मिन्नन्तरे वीरो बोधितो देवमायया । आगस्कृतान्निपूञ्जात्वा खड्गहस्तः समावधीत् ॥१५
हत्वा पञ्चशतं शूरो हयारूढो महाबली । उर्वीया नगरीं प्राप्य जलपाने मनो दधौ ॥१६
कूपे दृष्ट्वा शुभा नार्यो घटपूर्तिकरीस्तदा । उवाच मधुरो वाक्यं देहि सुन्दरि मे जलम् ॥१७
दृष्ट्वा ताः सुन्दरं रूपं मोहनायोपचक्रिरे । भित्त्वा तासां तु वै कुम्भान्याययित्वा हयं जलम् ॥१८
वनं गत्वा रिपुं जित्वा बद्ध्वा तमुभयं बली । चण्डिकापार्श्वमागम्य तद्वधाय मनो दधे ॥१९
श्रुत्वा स करुणं वाक्यं त्यक्त्वा स्वनगरं ययौ । नृपान्तिकमुपागम्य वर्णयामास कारणम् ॥२०
श्रुत्वा परिमलो राजा द्विजातिभ्यो ददौ धनम् । समाधाय स कृष्णांशं कृतकृत्योऽभवन्नृपः ॥२१
सम्प्राप्तैकादशाब्दे तु कृष्णांशे युद्धदुर्मदे । महीपतिर्निस्तसाहः प्रययौ देहलीं प्रति ॥२२
बलिं यथोचितं दत्त्वा भगिन्यै भयकातरः । रुरोद बहुधा दुःखं देशराजात्मजप्रजम् ॥२३
अगमा भगिनी तस्य दृष्ट्वा भ्रातरमातुरम् । स्वर्पातिं वर्णयामास श्रुत्वा राजाब्रवीदिदम् ॥२४
अद्याहं स्वबलैः सार्द्धं गत्वा तत्र महावतीम् । हनिष्यामि महादुष्टं देशराजमुतं रिपुम् ॥२५
इत्युक्त्वा धुन्धुकारं च समाहूय महाबलम् । सैन्यमाज्ञापयामास सप्तलक्षं तनुत्यजम् ॥२६
केचिच्छूरा हयारूढा उष्ट्रारूढा महाबलाः । गजारूढा रथारूढाः संययुश्च पदातयः ॥२७

(शारदा) ने उस कुमार को बोधित किया । पश्चात् वह खड्ग हाथ में लेकर उन अपराधी शत्रुओं का संहार करने लगा । थोड़ी देर में पाँच सौ शूरों का हनन किया । तदनन्तर वह महाबली अपने घोड़े पर बैठकर उर्वी (उरई) नगरी के भीतर प्रविष्ट हो गया । वहाँ पहुँचकर उसे जलपान करने की इच्छा हुई । उसने कूप पर जल-घट भरने वाली सुन्दरियों से कहा—सुन्दरि ! मुझे (थोड़ा) जल चाहिए । वे स्त्रियाँ उसके सौन्दर्य को देखकर उसे मोहित करने का उपक्रम करने लगीं । उस समय उसने उनके घड़े

देवसिंहस्तु कालज्ञः श्रुत्वा चागमनं रिपोः । नृपपार्श्वं समागम्य सर्वं राज्ञे न्यवेदयत् ॥२८
 श्रुत्वा परिमलो राजा विह्वलोऽभूद्भयातुरः । बलखानिस्तमुत्थाय हर्षयुक्त इवाह च ॥२९
 अद्याहं च महीराजं धुन्धुकारं ससैन्यकम् । जित्वा दण्डयं च भवतः करिष्यामि तवाज्ञया ॥३०
 इत्युक्त्वा तं नमस्कृत्य सेनापतिरभून्मुने । तदा तु निर्भया वीरा वृष्ट्वा राजानमातुरम् ॥३१
 चतुर्लक्षबलैः सार्द्धं ते युद्धाय समाययुः । शिशपाख्यं वनं घोरं छेदयित्वा रिपोस्तदा ॥३२
 ऊषुस्तत्र रणे मत्ताः सर्वशत्रुभयङ्कराः । एतस्मिन्नन्तरे तत्र धुन्धुकारादयो बलाः ॥३३
 कृत्वा कोलाहलं शब्दं युद्धाय समुपाययुः । पूर्वाह्णे तु भृगुश्रेष्ठ सन्नद्धास्ते शतघ्निपाः ॥३४
 शतघ्नीभिस्त्रिसाहस्रैः पञ्चसाहस्रका ययुः । द्विसहस्रशतघ्नीभिः सहिताश्चन्द्रवंशिनः ॥३५
 सैन्यं षष्टिसहस्रं च स्वर्गलोकमुपाययौ । तदद्धं च तथा सैन्यं महीराजस्य संक्षितम् ॥३६
 दुद्रुवुर्भीरुकाः शूरा बलखानेर्दिशो दश । रथा रथै रणे हन्युर्गजाश्चैव गजैस्तथा ॥३७
 हया हयैस्तथा उष्ट्रा उष्ट्रपैश्च समाहनन् । एवं सुतुमुले जाते दारुणे रोमहर्षणे ॥३८
 हाहाभूतान्स्वकीयांश्च सैन्यान्दृष्ट्वा महाबलान् । अपराह्णे भृगुश्रेष्ठ पञ्च शूराः समाययुः ॥३९
 ब्रह्मानन्दः शरैः शत्रूननयद्यमसादनम् । देवसिंहस्तथा भल्लैराह्लादस्तत्र तोमरैः ॥४०
 बलखानिः स्वखड्गेन कृष्णांशस्तु तथैव च । द्विलक्षान्क्षत्रियाञ्जघ्नुः सर्वसैन्यैः समन्ततः ॥४१

हो चुका है, अतः उन्होंने शत्रु का आगमन जानकर राजा के पास जाकर सभी कुछ कह सुनाया । इसे सुनकर राजा परिमल भयभीत होकर आकुल होने लगे । उन्हें कातर होते देखकर बलखानि (मलखान) ने उमङ्ग में आकर उन्हें उठा लिया और हर्षातिरेक से कहना आरम्भ किया—आज मैं राजा पृथिवीराज और सेना धुन्धुकार (धाधू) को जीतकर आपके आदेश से राजकर उनसे ग्रहणकर सदैव के लिए उन्हें आपकी प्रजा (रियाया) बना दूँगा ॥२८-३०॥ मुने ! इतना कहकर उसने नमस्कार पूर्वक सेनानायक होना स्वीकार किया । उस समय उसके निर्भय वीरगण अनुगामी हुए, किन्तु राजा फिर भी कातर ही बने रहे । वे वीर चार

दृष्ट्वा पराजितं सैन्यं धुन्धुकारो महाबलः । आह्लादं च स्वभल्लेन गजारूढः समावधीत् ॥४२
 आह्लादे मूर्च्छते तत्र देवासिंहो महाबलः । भल्लेन भ्रातरं तस्य दंशयामास वेगतः ॥४३
 स तीक्ष्णव्रणमासाद्य गजस्थः संमुमोह वै । आगताः शतराजानो नानादेश्या महाबलाः ॥४४
 शस्त्राप्यस्त्राणि तेषां तु छित्त्वा खड्गेन वत्सजः । स्वखड्गेन शिरांस्थेषां पातयामास भूतले ॥४५
 हते शत्रुसमूहे तु तच्छेषास्तु प्रदुद्रुवुः । महीराजस्तु बलवान्दृष्ट्वा भग्नं स्वसैन्यकम् ॥४६
 आजगाम गजारूढः शिवदत्तवरो बली । रौद्रेणास्त्रेण हृदये चावधीद्वत्सजं रिपुम् ॥४७
 आह्लादं च तथा वीरं देवं परिमलात्मजम् । मूर्च्छयित्वा महावीराञ्छत्रुसैन्यमुपागमत् ॥४८
 पूजयित्वा शतघ्नीश्च महावधमकारयत् । रोपणस्त्वरितो गत्वा राज्ञे सर्वमवर्णयत् ॥४९
 एतस्मिन्नन्तरे वीरः सुखखानिर्महाबलः । कपोतं हयमारूढ्य नभोमार्गेण चागमत् ॥५०
 मूर्च्छयित्वा महीराजं स्वबन्धूंश्च सवाहनान् । कृत्वा नृपान्तमागम्य बन्धनाय समुद्यतः ॥५१
 तदोत्थाय महीराजो महादेवेन बोधितः । पुनस्तांस्वशरै रौद्रैर्मूर्च्छयामास कोपवान् ॥५२
 सुखखान्यादिकाच्छूरान्सम्बध्य निगडैर्दृढैः । नृपं परिमलं प्राप्य पुनर्युद्धमचीकरत् ॥५३
 हाहाभूतं स्वसैन्यं च दृष्ट्वा स उदयो हरिः । नभोमार्गे हयं कृत्वा ताः शतघ्नीरनाशयत् ॥५४
 महीराजगजं प्राप्य बद्ध्वा तं निगडैर्बली । आह्लादपार्श्वमागम्य भ्रात्रे भूषं समर्पयत् ॥५५

धुन्धुकार ने अपनी सेना को पराजित होते देखकर हाथी पर बैठे ही अपने भाले से आह्लाद पर आघात किया । आह्लाद के मूर्च्छित हो जाने पर महावली देवसिंह ने भाले से उसके भाई के ऊपर महान् वेग के साथ आघात किया, जिसके द्वारा तीक्ष्ण व्रण (घाव) होने से वह हाथी पर बैठा ही मूर्च्छित होकर गिर पड़ा । उस समय बड़े-बड़े बलवान् सैकड़ों राजा अनेक देशों से आये थे, उनके शस्त्रास्त्रों को अपने खड्ग द्वारा बलखान (मलखान) ने शीघ्रता से काट दिया और उनके शिर भी काटकर भतल में छिन्न-भिन्न कर लिया । उसमें जो

तदा तु पृथिवीराजो लज्जितस्तेन निर्जितः । पञ्चकोटिधनं दत्त्वा स्वगेहं पुनराययौ ॥५६
 देवसिंहाज्ञया शूरो बलखानिर्हि वत्सजः । तैर्द्व्यैर्नगरीं रम्यां कारयामास सुन्दरीम् ॥५७
 शिरीषाख्यं पुरं नाम तेन वीरेण वै कृतम् । सर्ववर्णसमायुक्तं द्विक्रोशायामसंमितम् ॥५८
 तत्रैव न्यवसद्वीरो वत्सजः स्वकुलैः सह । त्रिंशत्क्रोशे कृतं राष्ट्रं तत्रैव बलखानिना ॥५९
 श्रुत्वा परिमलो राजा तत्रागत्य मुदान्वितः । आध्राय वत्सजं शूरं देशराजमुतं तथा ॥६०
 ब्रह्मानन्देन सहितः स्वगेहं पुनराययौ ॥६१

इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये
 कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम एकादशोऽध्यायः ॥११

अथ द्वादशोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

द्वादशाब्दे हि कृष्णांशे यथाजातं तथा शृणु । इषशुक्लदशम्यां च राज्ञां जातः समागमः ॥१
 कान्यकुब्जे महारम्ये नानाभूपाः समाययुः । श्रुत्वा पराजयं राज्ञो महीराजस्य लक्षणः ॥२
 कृष्णांशदर्शने वाञ्छा तस्य चासीत्तदा मुने । पितृव्यं भूपतिं प्राह द्रष्टुं यास्यामि तं शुभम् ॥३

पास आकर उन्हें पृथिवीराज को सौंप दिया । उस समय पृथिवीराज उससे पराजित होकर अत्यन्त लज्जित हुए और पाँच करोड़ का धन उन्हें (भेंट) प्रदानकर अपने घर चले गये । उस समय देवसिंह की आज्ञा प्राप्तकर वत्स पुत्र बलखानि ने उन द्रव्यों द्वारा एक सुन्दर नगरी का निर्माण कराया । उस वीर ने

जितो येन महीराजः सर्वलोकप्रपूजितः । इति श्रुत्वा वचस्तस्य जयचन्द्रो महीपतिः ॥
 भ्रातृजं प्रणतं प्राह श्रुणु शुक्लयशस्कर ॥४
 राजराजपदं ते हि कथं संहर्तुमिच्छसि । इत्युक्त्वा जयचन्द्रस्तु तदाज्ञां नैव दत्तवान् ॥५
 राजानस्ते च सहिताः स्वसैन्यैः परिवारिताः । कृष्णांशं द्रष्टुमिच्छन्तः संययुश्च महीपतिम् ॥६
 शिरीषास्थपुररथं च ज्ञात्वा कृष्णांशमुत्तमम् । महीपतिं पुरस्कृत्य समाजग्मुर्नृपास्तदा ॥७
 ददृशुस्तं महात्मानं पुण्डरीकनिभाननम् । प्रसन्नवदनाः सर्वे प्रशशंसुः समन्ततः ॥८
 तदा महीपतिः क्रुद्धो बचनं प्राह भूपतीन् । यस्येयं च कृता श्लाघा युष्माभिर्दूरवासिभिः ॥
 पितरौ तस्य बलिनौ माहिष्मत्यां मूर्ति गतौ ॥९
 जम्बुको नाम भूपालो नार्मदीयैः समन्वितः । बद्ध्वा तौ प्रययौ गेहं लुण्ठयित्वा धनं बहु ॥
 शिलापत्रे समारोप्य तयोर्गात्रमचूर्णयत् । शिरसी च तयोश्छित्त्वा वटवृक्षे समारुहत् ॥१०
 अद्यापि तौ स्थितौ वीरौ हा पुत्रेति प्रभाषिणौ । प्रेतदेहे च पितरौ यस्य प्राप्तौ महाबलौ ॥
 तस्योदयो वृथा ज्ञेयो वृथाकीर्तिः प्रियङ्करी ॥११
 इति श्रुत्वा स कृष्णांशो भूपतीन्प्राह नम्रधीः । गतौ मत्पितरौ सार्द्धं गुर्जरे यत्र वै रणः ॥१२
 म्लेच्छैर्नराशनैः सार्द्धं तन्नृपेण रणोऽभवत् । देशराजो वत्सराजो युद्धं कृत्वा भयङ्करम् ॥
 म्लेच्छैस्तैश्च हतौ तत्र श्रुतेयं विश्रुता कथा ॥१३

लिए जाना चाहता हूँ, जिसने पृथिवीराज को पराजित कर समस्त लोकों में प्रतिष्ठा प्राप्त की है । इसे सुनकर राजा जयचन्द्र ने अपने विनय-विनम्र भतीजे लक्षण (लषन) से कहा—‘तुम्हारा पद राजाधिराज (महाराज) का है, इस प्रकार उसे क्यों नष्ट करना चाहते हो ।’ इतना कहकर उन्होंने उसे आज्ञा नहीं प्रदान किया । १-५। पश्चात् आये हुए राजगण अपनी सेना समेत उदयसिंह के दर्शनाभिलाषी

मातुलेनाद्य कथितं नवीनं मरणं तयोः । चेत्सत्यं वचनं तस्य पौरुषं मम पश्यत ॥१४
 इत्युक्त्वा तान्स कृष्णांशो मातरं प्राह सत्वरम् । हेतुं च वर्णयामास भाषितं च महीपतेः ॥१५
 श्रुत्वा वज्रसमं वाक्यं रुरोद जननी तदा । नोत्तरं प्रददौ माता पतिदुःखेन दुःखिता ॥१६
 ज्ञात्वा पितृवधं श्रुत्वा जम्बूकं शिवकिङ्करम् । मनसा स च कृष्णांशस्तुष्टाव परमेश्वरीम् ॥१७
 जय जय जय जगदम्ब भवानि ह्याखिललोकसुरपितृमुनिखानि ।

त्वया ततं सचराचरमेव विश्वं पातमिदं हृतमेव ॥१८

इति ध्वात्वा स कृष्णांशः सुष्वाप निजसद्मनि । तदा भगवती तुष्टा तालनं बलवत्तरम् ॥
 मोहयित्वाशु तत्पाश्वे प्रेषयामास सर्वगा ॥१९
 चतुर्लक्षबलैः सार्द्धं तालनः शीघ्रमागतः । स्वसैन्यं चोदयामास चैकलक्षं महाबलम् ॥२०
 बलखानिस्तदा प्राप्तश्चैकलक्षबलान्वितः । अनुजं तत्र संस्थाप्य शिरीषाख्ये महाबलः ॥२१
 सज्जीभूतान्समालोक्य तानुद्याने ससैन्यकान् । भीतः परिमलो राजा कृष्णांशं प्रति चाययौ ॥२२
 विह्वलं नृपमालोक्य कृष्णांशोऽऽश्वासयन्मुदा ॥२३
 लक्षसैन्यं तदीयं च गृहीत्वा चाधिपोऽभवत् । शतघ्नयः पञ्चसाहस्रा नानावर्णाः सुवाहनाः ॥२४
 पताकाः पञ्चसाहस्राः साहस्रं काष्ठकारिणः । गजा दशसहस्राश्च रथाः पञ्चसहस्रकाः ॥२५
 त्रिलक्षाश्च ह्याः सर्वे उष्ट्रा दशसहस्रकाः । शेषाः पदातयो ज्ञेयास्तस्मिन्सैन्ये भयानके ॥२६
 तालनश्च समायातः सर्वसेनाधिपोऽभवत् । देवसिंहो रथानां च सर्वेषामीश्वरोऽभवत् ॥२७

किन्तु मामा ने आज उन दोनों के मरण में नवीनता प्रकट की है । यदि यह कहना इनका सत्य है, तो मेरे पौरुष को आप लोग देखियेगा, देर नहीं है । १९-१४। इतना सभा में कहकर उदयसिंह अपनी माता के पास पहुँचे, उनसे महीपति का कथन स्पष्ट कहकर उन्होंने पूँछा भी, किन्तु वज्र के समान इस वाणी को सुनकर

बलखानिर्हयानां च सर्वेषामधिपोऽभवत् । आह्लादश्च गजानां च सर्वेषामधिपोऽभवत् ॥
 पत्नीनां चैव सर्वेषां कृष्णांशश्चाधिपोऽभवत् ॥२८
 नत्वा ते मलनां भूपो दत्त्वा दानान्यनेकशः । समाययुश्च ते सर्वे दक्षिणाशां बलान्विताः ॥२९
 पक्षमात्रगतः कालो मार्गे तस्मिन् रणैषिणाम् । छित्त्वा तत्र वनं घोरं नानाकण्टकसंयुतम् ॥
 सेनां निवासयामासुर्निर्भयास्ते महाबलाः ॥३०
 देवांसिहमतेनैव योगिनस्ते तदा भवन् । नर्तकश्चैव कृष्णांशश्चाह्लादो डमरूप्रियः ॥३१
 मड्डुधारी तदा देवो वीणाधारी च तालनः । वत्सजः कांस्यधारी च बलखानिर्महाबलः ॥३२
 मानुरग्रे स्थितास्ते वै ननृतुः प्रेमविह्वलाः । मोहिता देवकी चासीन्न ज्ञातं तत्र कारणम् ॥३३
 मोहितां मातरं दृष्ट्वा परं हर्षमुपाययुः । तदा तां कथयामासुर्वयं ते तनया हि भोः ॥३४
 नत्वा तां प्रययुः सर्वे पुरीं माहिष्मतीं शुभाम् । नगरं मोहयामासुर्वाद्यगानविशारदाः ॥३५
 द्रुत्या सार्द्धं रिपोर्गेहं ययुस्ते कार्यतत्पराः । नृत्यगानमुवाद्यैश्च राज्ञस्ते मोहने रताः ॥३६
 विसंज्ञां महिषीं कृत्वा कृष्णांशः सर्वमोहनः । प्राप्तवांस्तत्र यत्रासौ तत्सुता विजयैषिणी ॥३७
 दृष्ट्वा सा सुन्दरं रूपं श्यामाङ्गं पुरुषोत्तमम् । मुमोह वशमापन्ना मैथुनार्थं समुद्यता ॥३८
 दृष्ट्वा तथा गतां नारीं कृष्णांशः श्लक्ष्णया गिरा । शत्रोर्भेदं च पप्रच्छ कामिनीं मदविह्वलाम् ॥३९

रथ सेना के अधिनायक हुए, बलखानि सभी अश्वारोही सेना के गजराओं के आह्लाद और पदाति (पैदल) सेनाओं के अधिनायक उदयसिंह बनाये गये । यात्रा के समय सभी भाइयों ने रानी मलना का चरण-स्पर्श किया तथा अनेक भाँति का दान करके दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े । उन रणाभिलाषी वीरों का एक पक्ष (पन्द्रह दिन) का समय मार्ग में व्यतीत हो गया । उपरान्त वे अपने इष्ट स्थान पर पहुँचकर वहाँ के घोर वन को कटवाकर जो अनेक भाँति के कण्टकों से आकीर्ण था, अपनी सेना को ठहरा

साह भो देवकीपुत्र यदि पाणिं ग्रहीष्यसि । तर्हि ते कथयिष्यामि पितुर्भेदं हि दारुणम् ॥४०
 तथेत्युक्त्वा स बलवांस्तस्याः पाणिं गृहीतवान् । ज्ञात्वा भेदं रिपोः सर्वं तामाश्वास्य ययौ मुदा ॥४१
 एतस्मिन्नन्तरे राज्ञी बाधिता प्राह योगिनम् । देशराजप्रियाहारं नवलक्षस्य मूल्यकम् ॥
 तुभ्यं दास्यामि सन्तुष्टा नृत्यगानविमोहिता ॥४२
 इति श्रुत्वा वत्समुतस्तां प्रशस्य गृहीतवान् । प्रययौ बन्धुभिः सार्द्धं जम्बुको यत्र तिष्ठति ॥४३
 ननर्त तत्र कृष्णांशो बलखानिरगायत । आह्लादस्तालनो देवो दध्मुर्वाद्यगतीर्मुदा ॥४४
 मोहितोऽभून्नृपस्तत्र कालियः स्वजनैः सह । कामं वस्त्रं कृष्णाङ्गं यच्च ते हृदये स्थितम् ॥४५
 इति श्रुत्वा वचः शत्रोर्बलखानिर्महाबलः । तमाह भो महीपाल लक्षार्वातिर्वरांगना ॥
 स्वविद्यां दर्शयेन्मह्यं तदा तृप्तिं व्रजाम्यहम् ॥४६
 इति श्रुत्वा तथा मत्वा लक्षार्वातं नृपोत्तमः । सभायां नर्तयामास देशराजप्रियां तथा ॥४७
 सा वेश्या मुतमाह्लादं ज्ञात्वा योगित्वमागतम् । रुरोद तत्र दुःखार्ता नेत्रादश्रूणि मुञ्चती ॥४८
 रुदितां तां समालोक्य रुदन्नाह्लाद एव सः । स्वभुजौ ताडयामास तत्प्रियार्थं महाबलः ॥४९
 कृष्णांशस्तत्र तं हारं तस्याः कण्ठे प्रदत्तवान् । उवाच क्रोधताम्राक्षस्तामाश्वास्य पुनः पुनः ॥५०
 अहं चोदयसिहोऽयं पितुर्वैरार्थमागतः । हनिष्यामि रिपुं भूषं सात्मजं सबलं तथा ॥५१

पराजित करने के लिए भेद पूछा । उसने कहा—देवकी पुत्र ! आप मेरा हाथ पकड़कर अपनी बनाने की प्रतिज्ञा करें तो मैं अपने पिता के कठिन भेदों को बता सकती हूँ । उन्होंने स्वीकार करते हुए उसका हाथ पकड़ा और शत्रु के भेद को जानकर उसे अश्वासन दिया, पश्चात् प्रसन्न होकर अपने निवास स्थान की ओर लौट पड़े । उसी बीच रानी ने प्रेममग्न होकर उस योगी से कहा—मैं तुम्हारे नृत्य से अत्यन्त प्रसन्न हूँ । अतः तमसे हम देशराज की रानी को नृत्य के लिए

इति श्रुत्वा वचस्तस्य कालियो बलवत्तरः । पितुराज्ञां पुरस्कृत्य शतव्यूहसमन्वितः ॥५२
 तेषां च बन्धनार्यैव कपाटं समरुद्ध सः । ताञ्छत्रून्समनुज्ञाय पाशहस्तान्सशस्त्रगान् ॥५३
 स्वं स्वं खड्गं समाकृष्य क्षत्रियास्ते समाघ्नत । शतशूरे हते तैश्च कालियो भयकातरः ॥५४
 त्यक्त्वा तातं प्रडुद्राव ते तु गेहाद्विहिर्ययुः । स्वसैन्यं शीघ्रमासाद्य युद्धाय समुपस्थितः ॥
 शिबिराणि कृतान्येव नर्मदाकूलमास्थितैः ॥५५
 कृत्वा तु नर्मदासेतुं नत्वमात्रं सुपुष्टिदम् । स्वसैन्यं तारयामास चतुरङ्गसमन्वितम् ॥५६
 हरोध नगरीं सर्वा बलखानिर्बलैर्युतः । शतघ्नीरघ्नतः कृत्वा महाशब्दकरीस्तदा ॥
 माहिष्मत्याश्च हर्म्याणि पातयामास भूतले ॥५७
 नराश्च स्वकुलैः सार्द्धं मुख्यद्रव्यसमन्विताः । विन्ध्याद्रेश्च गुहां प्राप्य तत्रोषुर्भयकातराः ॥५८
 कालियस्तु गजानीके पञ्चशब्दगजे स्थितः । हस्तिपा दशसाहस्रा युद्धाय समुपाययुः ॥५९
 तस्यानुजः सूर्यवर्मा त्रिलक्षैस्तुरगैर्युतः । तुण्डिलश्च रथैःसार्द्धं रथस्थश्च सहस्रकैः ॥६०
 रङ्गणो वङ्गणश्चोभौ चतुर्लक्षपदातिभिः ॥
 जगमतुस्तौ महाम्लेच्छौ म्लेच्छभूपसहस्रकैः । दाक्षिणात्यग्रामपास्ते तौ पुरस्कृत्य संययुः ॥६१
 उभे सेने समासाद्य युद्धाय समुपस्थिते । तयोश्च तुमुलं युद्धमभवल्लोमहर्षणम् ॥६२
 त्रियामे रुधिरैस्तेषां नदी प्रावर्तत द्रुतम् । दृष्ट्वास्रजां नदीं घोरां मांसकर्दमवाहिनीम् ॥

अपने पिता की आज्ञा से शतव्यूह सेनाओं को उन लोगों को बाँधने तथा प्रमुख दरवाजे के फाटक (किवाड़) को बन्द करने के लिए आदेश दिया । शत्रु की उस सशस्त्र सेना को सम्मुख उपस्थित होते देखकर वे क्षत्रिय वीर अपने-अपने खड्ग लेकर उसमें प्रविष्ट होकर उन्हें धराशायी करने लगे । उन सौ शूरो की सेना को नष्ट होते देखकर कालिय (करिया) भयभीत होकर अपने पिता को छोड़कर वहाँ से

बलखानिरमेयात्मा खड्गपाणिर्नरो ययौ ॥६३
 भल्लहस्तस्तदा देवो मनोरथहये स्थितः । बिन्दुलस्थश्च कृष्णांशः खड्गेनैव रिपूनहन् ॥६४
 आह्लादश्च गदाहस्तः पोथयामास वाहिनीम् । रूपणो नाम शूद्रश्च शक्तिहस्तोन्यहन्रिपून् ॥
 तालनो हस्तनिस्त्रिशो माहिष्मत्यां हनन्ययौ ॥६५
 एवं महाभये जाते रणे तस्मिन्महाबले । द्रुद्रुवुः सर्वतो वीराः पाहिपाहीत्यथब्रुवन् ॥६६
 प्रभग्नं स्वबलं दृष्ट्वा कालियो बलखानिकम् । गजस्थस्ताडयामास स्वबाणैस्तं महाबलः ॥६७
 हरिणी वडवा तस्य ज्ञात्वा स्वामिनमातुरम् । गजोपरि समास्थाय स्वपादैस्तमपातयत् ॥६८
 पतिते कालिये वीरे पञ्चशब्दो महागजः । शृङ्खलैस्ताडयामास शूरांस्तान्मदमत्तकान् ॥६९
 मूर्च्छते पञ्चशूरे तु रूपणो भयकातरः । देवकीं वर्णयामास यथाजातं गजेन वै ॥७०
 तदा तु दुःखिता देवी दोलमारुह्य सत्वरा । तं गजं च समासाद्य वर्णयामास कारणम् ॥७१
 गजराज नमस्तुभ्यं शक्रदत्त महाबल । एते पुत्रास्तु ते वीर पालनीया यथा पितुः ॥७२
 इति श्रुत्वा दिव्यगजो देवमायाविशारदः । देवकीं शरणं प्राप्य क्षमस्वागस्कृतं मम ॥७३
 इत्युक्ते गजराजे तु कृष्णांशो बलवत्तरः । त्यक्त्वा मूर्च्छां ययौ तत्र यत्राह्लादश्च मूर्च्छितः ॥७४
 तमुत्थाप्य करस्पर्शैर्बलखानिसमन्वितः । पितुर्गजं महामत्तमाह्लादाय प्रदत्तवान् ॥
 करालमश्वं दिव्याङ्गं रूपणाय तदा ददौ ॥७५
 मूर्च्छितं कालियं शत्रुं बद्ध्वा स निगडैर्दृढैः । सेनान्तं प्रेषयामास बलखानिर्महाबलः ॥७६

भाँति बह रहा था, उसे देखकर बलखानि हाथ में खड्ग, देवसिंह मनोरथ घोड़े पर बैठे हुए हाथ में भाला लिए, बिन्दुल घोड़े पर बैठकर उदयसिंह खड्ग, आह्लाद गदा, रूपन शक्ति और तालन अपनी तलवार लिए शत्रु सेना को धराशायी करते हुए माहिष्मती में प्रविष्ट हो गये । वीरों के उस भीषण संग्राम में वीर

सूर्यवर्मा तदा ज्ञात्वा बद्धं बन्धुं च कालियम् । प्रययौ शत्रुसेनान्तं क्रोधेन स्फुरिताधरः ॥७७
 तमायान्तं समालोक्य ते वीरा युद्धदुर्मदाः । रथस्थं मण्डलीकृत्य स्वं स्वमस्त्रं समाक्षिपन् ॥७८
 कुण्ठितेऽस्त्रे तदा तेषां विस्मितास्तेऽभवन्मुने । चिन्तां च महतीं प्राप्ताः कथं वध्यो भवेदयम् ॥७९
 तस्यास्त्रैस्ते महावीरा व्रणार्तिभयपीडिताः । त्यक्त्वा युद्धं पुनर्गत्वा रणं चक्रुः पुनः पुनः ॥८०
 एवं कति दिनान्येव बभूव रण उत्तमः । आह्लादो वत्सजो देवस्तालनो भयसंयुतः ॥
 कृष्णांशं शरणं जग्मुस्तेन वीरेण मोहिताः ॥८१
 कृष्णस्तु तं तथा दृष्ट्वा देवीं विश्वविमोहिनीम् । तुष्टाव मनसा वीरो रात्रिसूक्तं पठन्हृदि ॥८२
 तदा तुष्टा जगद्धात्री दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी । मोहयित्वा तु तं वीरं तत्रैवान्तरधीयत ॥८३
 निद्रया मोहितं दृष्ट्वा कृष्णांशस्तु महाबलः । बबन्ध निगडैस्तं च देवक्यन्ते समागमत् ॥८४
 तुन्दिलश्च तथा ज्ञात्वा भातृशोकपरिप्लुतः । आजगाम ह्यारूढः खड्गहस्तो महाबलः ॥
 रिपुसैन्यस्य मध्ये तु बहुशूरानताडयत् ॥८५
 माहिष्मात्याश्च ते शूरा रङ्गणेन समन्विताः । तत्सैन्यं भञ्जयामामुस्तालनेन प्रपालितम् ॥८६
 प्रदुतं स्वं बलं दृष्ट्वा तालनः परिधायुधः । शिरांसि पोथयामास म्लेच्छानां च पृथक्पृथक् ॥८७
 बद्धुणं च तथा हत्वा खड्गेनैव च रङ्गणम् । तुन्दिलं च तथा बद्ध्वा दिनान्ते शिबिरं ययौ ॥८८

दिया । सूर्यवर्मा को जिस समय यह मालूम हुआ कि मेरा भाई कालिय शत्रुओं द्वारा शृंखलाबद्ध है, क्रोध के वेग से अपने होठ फरफराते हुए उसी समय वह शत्रु की सेना में प्रविष्ट हो गया । उसे आते हुए देखकर वे युद्ध-दुर्मद वीर रथ पर बैठे हुए उसे चारों ओर से मंडलाकार घेरकर अपने-अपने अस्त्रों के प्रहार करने लगे । किन्तु मुने ! उसके ऊपर किसी अस्त्र का आघात नहीं हो पाता था । अतः अपने अस्त्रों को कुण्ठित

कालिये च रिपौ बद्धे सुबद्धे सूर्यवर्मणि । तुन्दिले च तथा बद्धे रङ्गणे वङ्गणे हते ॥८९
 सहस्रं म्लेच्छराजानो हतशेषा बलान्विताः । पक्षमात्रमहोरात्रं युद्धं चक्रुः समन्ततः ॥९०
 प्रत्यहं तालनो वीरः सेनापतिरमर्षणः । षष्टिं भूपाञ्जघानाशु शत्रुसैन्यभयङ्करः ॥९१
 भयभीता रिपोः शूरा हता भूपा हतौजसः । हतशेषा ययुर्गेहमर्द्धसैन्या भयातुराः ॥९२
 जम्बुकस्तु तथा श्रुत्वा दुःखितो गेहमाययौ । गतं ह्यनशनं कृत्वा रात्रौ शोचन्नशेत सः ॥९३
 निशीथे समनुप्राप्ते तत्सुता विजयैषिणी । पूर्णा तु सा कला ज्ञेया राधाया व्रजवासिनी ॥९४
 आस्वास्य पितरं तं च ययौ मायाविशारदा । रक्षकाञ्छिबिराणां च मोहयित्वा समाययौ ॥९५
 भ्रातरो तत्र गत्वासौ यत्र सर्वानबोधयत् । कृत्वा सा राक्षसीं मायां पञ्चवीरानमोहयत् ॥९६
 निरस्त्रकवचान्बन्धून्प्रतिदोलां समासहत् । पितुरन्तिकमासाद्य तस्मै भ्रातृन्ददौ मुदा ॥९७
 प्रभाते बोधिताः सर्वे स्नानध्यानादिकाः क्रियाः । कृत्वा ययू रिपोः शालां दृष्टवन्तो न तांस्तदा ॥९८
 बभूवुर्दुःखिताः सर्वे किमिदं कारणं कथम् । तानुवाच तदा देवः प्राप्ता ह्यत्र रिपोः सुता ॥९९
 कृत्वा सा राक्षसीं मायां हृत्वा तान्गेहमाययौ । तस्माद्ययू मया सार्द्धं गत्वा यत्रैव तद्गुरुः ॥१००
 विन्ध्योपरि महारण्ये नानासत्त्वनिषेविते । कुटीरं तस्य तत्रैव नास्त्रैवैलविली हि सः ॥
 योगसिद्धियुतः कामी राक्षसेभ्यो हि निर्भयः ॥१०१

गये । इस प्रकार कालिय, सूर्य वर्मा, और तुन्दिल के बाधे जाने एवं रंकण तथा वंकण के निधन होने पर वे म्लेच्छ राजगण जो सहस्रों की संख्या में वहाँ स्थित थे, अपनी सेना समेत एक पक्ष (पखवारा) तक रात दिन युद्ध करते रहे । ८३-९०। वीर सेनापति तालन ने क्रुद्ध होकर साठ म्लेच्छ राजाओं का शीघ्र वध कर दिया । वे (तालन) शत्रु की सेना के लिए काल रूप दिखाई देने लगे—म्लेच्छ शत्रु के शूरवीर तथा

जम्बुकस्य सुता तत्र प्रत्यहं स्वजनैर्युता । एकाकिनी च सा रात्रौ स्वं गुरुं तमरीरमत् ॥१०२
 कृतेयं चैल विलिना माया मनुजमोहिनी । कार्यसिद्धिं गमिष्यामो गत्वा तं पुरुषाधमम् ॥
 इति श्रुत्वा तु चत्वारो विनाह्लादं ययुर्वनम् ॥१०३
 गीतनृत्यप्रवाद्यैश्च मोहयित्वा च तं दिने । वासं चक्रुश्च तत्रैव धूर्तं मायाविशारदम् ॥१०४
 स तु पूर्वभवे दैत्यश्चित्रो नाम महासुरः । बाणकन्यामुषां नित्यमवाञ्छच्छिवपूजकः ॥
 जात ऐलविली नाम पक्षपूजी स वेगवान् ॥१०५
 तयोर्मध्ये प्रमाणोऽयं विबाहो मे यदा भवेत् । तदाहं त्वां भजिष्यामि संत्यक्तोद्वाहितं पतिम् ॥१०६
 हते तस्मिन्महाधूर्ते गत्वा संग्राममूर्द्धनि । जम्बुकस्य ययुर्दुर्गं दृष्ट्वा ते तं समारुहन् ॥
 हत्वा तत्र स्थितान्वीराञ्छतघ्न्यः परिखाकृताः ॥१०७
 तदा तु जम्बुको राजा शिवदत्तवरो बली । जित्वा पञ्च महावीरान्बद्ध्वा तान्निगडैर्दृढैः ॥
 शैवं यज्ञं च कृतवांस्तेषां नान्नोपबंहितम् ॥१०८
 रूपणस्तु तथा ज्ञात्वा देवकीं प्रत्यवर्णयत् । तदा तु दुःखिता देवी भवानीं भयहारिणीम् ॥
 मनसा च जगामाशु शरण्यां शरणं सती ॥१०९
 तदा तुष्टा जगद्धात्री स्वप्रान्ते तामवर्णयत् । अहो देवकिं कल्याणि पुत्रशोकं त्यजाधुना ॥११०
 यदा तु जम्बुको राजा शिवदत्तवरो बली । होमं कर्ता स मन्दात्मा तेषां च बलिहेतवे ॥१११
 मोहयित्वा तदाहं तं मोचयित्वा च ते सुतान् । विजयं ते प्रदास्यामि मा च शोके मनः कृथाः ॥११२
 इति श्रुत्वा सती देवी नमस्कृत्य महेश्वरीम् । पूजयामास विधिवद्भूपदीपोपहारकैः ॥११३

हुए भी वह अत्यन्त कामी है । राजा जम्बूक की पुत्री प्रतिदिन स्वजनो संगत या अकेले ही जाकर उसके साथ रमण करती है । उसी पेलविकी ने मन्दाग पेलविक करने वाली यह माया उसे लोभ प्रदान किया है ।

एतस्मिन्नन्तरे राजा देवमायाविमोहितः । सुष्वाप तत्र होमान्ते ते च जाता ह्यबन्धनाः ॥११४
 तैर्बद्धो जम्बुको राजा निगडैरायसैर्दृढैः । ते तं बद्ध्वा ययुः शीघ्रं देवकीं प्रति निर्भयाः ॥११५
 एतस्मिन्नन्तरे तत्र कालियाद्यास्त्रयः सुताः । त्रिलक्षं सैन्यमादाय युद्धाय समुपाययुः ॥११६
 पुनर्युद्धमभूद्धोरं सेनयोरुभयोस्तदा । तालनाद्याश्च चत्वारो हत्वा तां रिपुवाहिनीम् ॥११७
 त्रीञ्छत्रून्कोष्ठकीकृत्य स्वशस्त्रैर्जघ्नुर्हृजिताः । एवं दिनानि कतिचित्तत्र जातो महारणः ॥११८
 कालियो दुःखितो भूत्वा सस्मार मनसा हरम् । मोहनं मन्त्रमासाद्य मोहयामास तान्निपून ॥११९
 एतस्मिन्नन्तरे देवी देवकी पतिदेवता । पातिव्रत्यस्य पुण्येन सुतान्तिकमुपागता ॥१२०
 बोधयित्वा तु कृष्णांशं पञ्चशब्दगजस्थितम् । पुनस्तुष्टाव जननीं सर्वविश्वविमोहिनीम् ॥
 तदा तुष्टा स्वयं देवी बोधयामास तान्मुदा ॥१२१
 आह्लादः सूर्यवर्माणं कालियं च ततोऽनुजः । जघान बलखानिस्तं तुन्दिलं जम्बुकात्मजम् ॥१२२
 ते तु पूर्वभवे विप्र जरासन्धः सकालियः । द्विविदो वानरः शूरः सूर्यवर्महं चाभवत् ॥१२३
 त्रिशिरास्तुन्दिलो जातः शृगालः स च जम्बुकः । नित्यवैरकराः सर्वे भूपाश्रासन्महीतले ॥१२४
 हतेषु शत्रुपुत्रेषु देवकी जम्बुकं रिपुम् । खड्गेन तर्जयामास पतिशोकपरायणा ॥१२५
 कृष्णांशः शिरसी पित्रोर्गृहीत्वा स्नेहकातरः । जम्बुकस्यैव हृदये स्थापयामास विह्वलः ॥१२६

जगज्जननी देवी ने उनसे कहा—देवकि ! कल्याणि ! इस समय पुत्र-शोक क्यों कर रही हो । जिस समय जम्बुक हवन करते हुए उन लोगों की बलि देने के लिए प्रस्तुत होगा मैं उस समय उसे मोहित कर तुम्हारे पुत्रों को मुक्तकर उन्हें विजय प्रदान करूँगी, इसलिए मेरा कहना है कि तुम अपने मन में शोक के लिए स्थान मत दो । इसे सुनकर उस पतिव्रता ने नमस्कारपूर्वक धूप, दीप एवं उपहार द्वारा सविधि महेश्वरी देवी की पूजा सुसम्पन्न की । इसी समय राजा देव-माया द्वारा मोहित होकर निद्रित हो गये, और ये लोग

विहस्य तौ तदा तत्र प्रोचतुर्वचनं प्रियम् । चिरं जीव हि कृष्णांश गयां कुरु महामते ॥
 इति वाणी तयोर्जाता बलिनोः प्रेतदेहयोः ॥१२७
 खड्गहस्ता च सा देवी शिलायन्त्रे तु तं रिपुम् । संस्थाप्य चोदयामास स्वपुत्रान्हर्षसंयुता ॥१२८
 हे पुत्राः स्वपितुः शत्रुं जम्बुकं पुरुषाधमम् । खण्डं खण्डं च तिलशः कृत्वानन्दसमन्विताः ॥१२९
 सञ्चूर्णयत तद्गात्रं ततैलैर्मदनिर्मितैः । स्नास्याम्यहं तथेत्युक्त्वा रुहोद जननी भृशम् ॥१३०
 तथा कृत्वा तु ते पुत्रा महिषीं समुतां तदा । बलखानियुतास्तत्राहूय चक्रुश्च तत्क्रियाम् ॥१३१
 तदा परिमलं राज्ञी दृष्ट्वा स्वामिनमातुरम् । मरणायोन्मुखं विप्रं पञ्चत्वमगमन्मुने ॥१३२
 तत्सुता खड्गमानीय बलखानिभुजं प्रति । कृतित्वा मूर्च्छयित्वा तं तत्पक्षानन्वधावत ॥१३३
 तालनं देवसिंहं च रामाशञ्च तथाविधम् । कृत्वान्यांश्च तथा शत्रूनगच्छत्कुलकातरा ॥१३४
 कृष्णांशं मोहयित्वाशु मायया च समाहरत् । हते तत्र शते शूरे बलखानिरमर्षितः ॥
 तच्छिरश्च समाहृत्य चितायां च समाक्षिपत् ॥१३५
 तदा वाणी समुत्पन्ना बलखाने शृणुष्व भोः । अवध्या च सदा नारी त्वया वध्या ह्यधर्मिणः ॥१३६
 फलमस्य विवाहे स्वे भोक्तव्यं पापकर्मणः । इति श्रुत्वा तदा दुःखं बलखानिर्ययौपुरम् ॥१३७
 ततस्तु सैनिकाः सर्वे महाहर्षसमन्विताः । शतोष्ट्रभारवाह्यानि लुण्ठयित्वा धनानि च ॥१३८

जम्बूक के हृदय स्थान पर रखा । उस समय वे दोनों शिर हँसकर बोले—उदयसिंह, चिरजीवी रहो । महामते ! मेरे निमित्त गया में श्राद्ध अवश्य करो । उस प्रेत देह से निकली हुई ऐसी वाणी को सुनकर देवकी देवी ने शिला-यंत्र (पत्थर के कोल्डू) में शत्रु जम्बूक को स्थापित करती हुई हर्षातिरेक से पुत्रों से कही—पुत्रगण ! अपने पिता के परम शत्रु एवं इस नराधम जम्बूक का तिल की भाँति खण्ड-खण्ड कर इसे

महावती समाजग्मुः कृतकृत्यत्वमागताः । हतशेषैश्वरार्द्धसैन्यैः सहिता गेहमाययुः ॥१३९
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२

अथ त्रयोदशोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

ऋषय ऊचुः

कस्मिन्मास्यभवद्द्युद्धं तयोः कतिदिनानि च । तत्पश्चात्स्वपुरीं प्राप्य तदा किमभवन्मुने ॥१

सूत उवाच

पौषमास्यभवद्द्युद्धं तयोः शतदिनानि च । ज्येष्ठे मासि गृहं प्राप्ता दध्मुर्वाद्यान्यनेकशः ॥२
श्रुत्वा परिमलो राजा स्वसुताञ्जयिनो बलीन् । ददौ दानानि विप्रेभ्यः सुखं जातं गृहे गृहे ॥३
इति श्रुत्वा महीराजो बलखानिं महाबलम् । तत्रागत्य नमस्कृत्य वचनं प्राह नम्रधीः ॥४
अर्द्धकोटिमितं द्रव्यं मत्तः प्राप्य सुखीभव । माहिष्मत्यश्च राष्ट्रं मे देहि वीर नमोऽस्तु ते ॥५
वर्षे वर्षे च तद्द्रव्यं गृहाण बलवन्प्रभो । इति श्रुत्वा तथा मत्वा बलखानिर्गृहं ययौ ॥६

आधी सेना समेत अपने को कृतकृत्य मानते हुए महावती (महोबा) के लिए प्रस्थान किया । १३९ । १३९
श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन
नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त । १२ ।

वयस्त्रयोदशाब्दे च कृष्णांशे बलवत्तरे । तथा जाता हरेर्लीला भृगुश्रेष्ठ तथा शृणु ॥७
 भाद्रे शुक्ले त्रयोदश्यां चाह्लादः सानुजो ययौ । गयार्थे धनमादाय हस्त्यश्वरथसङ्कुलम् ॥८
 कृष्णांशो बिन्दुलारूढो वत्सजो हरिणीस्थितः । देवः पपीहकारूढः सुखखानिः करालके ॥९
 चत्वारो द्विदिनान्ते च गयाक्षेत्रं समाययुः । पूर्णिमान्ते पुरस्कृत्य षोडशश्राद्धकारिणः ॥१०
 शतं शतं गजांश्चैव भूषितांश्च रथांस्तथा । ददुर्हयान्सहस्रं च हेममालाविभूषितान् ॥११
 धेनूर्हिरण्यरत्नानि वासांसि विविधानि च । दत्त्वा ते सुफलीभूय स्वगेहाय दधुर्मनः ॥१२
 लक्षावर्तिस्तु या वेश्या ययौ बदरिकाश्रमम् । प्राणांस्तत्र परित्यज्य साप्सरस्त्वमुपागता ॥१३
 राकां चन्द्रे तु सम्प्राप्ते राहुग्रस्ते तमोमये । काश्यां समागता भूपा नाना देश्याः कुलैः सह ॥१४
 हिमालयगिरौ रम्ये नानाधातुविचित्रिते । तत्र शार्दूलवंशीयो नेत्रसिंहो महीपतिः ॥१५
 रत्नभानौ हते शूरे नेत्रसिंहो भयातुरः । नवतुङ्गे समासाद्य तोषयामास वासवम् ॥१६
 द्वादशाब्दान्तरे देवो ददौ ढक्कामृतं मुदा । पार्वत्या निर्मितं यत्तु वासवाय स्वसेविने ॥१७
 ददौ ढक्कामृतं राज्ञे पुनः प्राह शुभं वचः । अस्य शब्देन भूपाल त्वं सैन्यं जीवयिष्यसि ॥१८
 क्षयं शीघ्रं गमिष्यन्ति शत्रवस्ते महाभटाः । प्राप्ते ढक्कामृते तस्मिन्नेत्रसिंहो महाबलः ॥१९

पश्चात् अपने घर चले गये । २-६। भृगुश्रेष्ठ ! उदयसिंह के तेरह वर्ष की अवस्था में भगवान् ने जिस प्रकार की लीला की है, मैं बता रहा हूँ, सुनो । भाद्रपद (भाद्री) मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन आल्हाद (आल्हा) ने उदयसिंह को साथ लेकर अनेक हाथी, घोड़े, रथ एवं द्रव्य समेत गया में पिण्डदानार्थ प्रस्थान किया । उस यात्रा में उदयसिंह बिन्दुल (बेंदुल) पर, मलखान हरिणी पर, देवसिंह पपीहा पर और सुखखानि कराल नामक घोड़े पर आसीन थे । ये चारों दो दिन की यात्रा कर गया क्षेत्र पहुँच गये । वहाँ पूर्णिमा से आरम्भ कर अगले (क्वार के प्रथम) पन्द्रह दिन (पूर्णपितृयज्ञ) तक उन्होंने सोलह श्राद्धों को

नगरं कारयामास तत्र सर्वजनैर्युतम् । योजनान्तं चतुर्द्वारं दुराधर्षं परैः सदा ॥२०
 नेत्रसिंहगढं नाम्ना विख्यातं भारते भुवि । काश्मीरान्ते कृतं राज्ये तेन शृङ्गसमन्ततः ॥२१
 पालितं नेत्रसिंहेन तत्पुरं पुत्रवन्मुने । नेत्रपाल इति ख्यातो ग्रामोऽसौ दुर्गमः परैः ॥२२
 सोऽपि राजा समायातो नेत्रसिंहो महाबलः । कन्या स्वर्णवती तस्य रवेत्यंशसमन्विता ॥
 कामाक्ष्या वरदानेन सर्वमायाविशारदा ॥२३
 दृष्ट्वा तां सुन्दरीं कन्यां बालेन्दुसदृशाननाम् । मूर्च्छिताश्चाभवन्भूपा रूपयौवनमोहिताः ॥२४
 दृष्ट्वा तां च तथाह्लादः सर्वरत्नविभूषिताम् । षोडशाब्दवयोयुक्तां कामिनीं रतिरूपिणीम् ॥
 मूर्च्छितश्चापतद्भूमौ सा तं दृष्ट्वा मुमोह वै ॥२५
 दोलामारुह्य तत्सख्यौ नृपान्तिकमुपाययुः । आह्लादस्तु समुत्थाय महामोहत्वमागतः ॥२६
 दृष्ट्वा तथाविधं बन्धुं कृष्णांशः प्राह दुखितः । किमर्थं मोहमायातो भवांस्तत्त्वविशारदः ॥२७
 रजो रागात्मकं विद्धि प्रमादं मोहजं तथा । ज्ञानासिना शिरस्तस्य छिन्धित्वमजितः सदा ॥२८
 इति श्रुत्वा वचो भ्रातुस्त्यक्त्वा मोहं ययौ गृहम् । भोजयित्वा द्विजश्रेष्ठान्सहस्रं वेदतत्परान् ॥२९
 दुर्गामाराधयामास जप्त्वा मध्यचरित्रकम् । मासान्ते च तदा देवी दत्त्वाभीष्टं हृदि स्थितम् ॥३०

प्राप्ति के उपरान्त महाबली नेत्रसिंह ने एक सार्वजनिक नगर का निर्माण कराया, जो एक योजन (चारकोश) का विस्तृत एवं जिसके चारों दरवाजे शत्रुओं के लिए अत्यन्त अजेय थे। इस भारत प्रदेश के पृथिवीतल में वह 'नेत्रसिंह गढ़' के नाम से ख्यात हुआ। काश्मीर के समीप वाला प्रदेश उसका राज्य था, जो उसकी पर्वतीय शिखरों के चारों ओर विस्तृत है। मुने ! उस नगर का पालन नेत्रसिंह ने अपने पुत्र की भाँति किया था, जिससे उस शत्रु द्वारा दुर्गम ग्राम का नाम 'नेत्रपाल' हुआ। १७-२२। (काशी की यात्रा में) उस बलवान् नेत्रसिंह नामक राजा के साथ स्वर्णवती (सोना) नामक उनकी पुत्री भी थी, जो

मोहयामास तां कन्यां विवाहार्थमनन्विता । स्वप्ने ददर्श सा बाला रामांशं देवकीसुतम् ॥३१
 प्रातर्बुद्ध्वा तु सञ्चिन्त्य महामोहमुपाययौ । तदा ध्यात्वा च कामाक्षीं सर्वाभीष्टप्रदायिनीम् ॥३२
 पौषमासे तु सम्प्राप्ते शुककण्ठे सुपत्रिकाम् । बद्ध्वा तं प्रेषयामास शुकं पत्रस्थितं प्रियम् ॥३३
 स गत्वा पुष्पविपिनं महावतिपुरीस्थितम् । नरशब्देन वचनं कृष्णांशाय शुकोऽब्रवीत् ॥३४
 वीर तेऽवरजो बन्धुर्नाम्नाल्हादो महाबलः । तस्मै हि प्रेषिता पत्री स्वर्णवत्या हितप्रदा ॥३५
 तां ज्ञात्वा च पुनस्तस्या उत्तरं देहि मत्प्रियम् । अथवा पत्रमालिख्य तत्त्वं मे कुरु कण्ठके ॥३६
 इति श्रुत्वोदयो वीरो गृहीत्वा पत्रमुत्तमम् । ज्ञातवांस्तत्र वृत्तान्तमाल्हादाय पुनर्ददौ ॥३७
 जम्बुकश्च नृपो वीरो स्वदत्तवरो बली । अजेयोऽन्यनृपैर्वीर त्वया युधि निपातितः ॥३८
 तथाविधं मत्पितरमिन्द्रदत्तवरं रिपुम् । तमेवं जहि सङ्ग्रामे मम पाणिग्रहं कुरु ॥३९
 इति ज्ञात्वा स आह्लादस्तामाशवास्य हृदि स्थिताम् । शुककण्ठे बबन्धाशु लिखित्वा पत्रमुत्तमम् ॥४०
 स शुकः पन्नगः पूर्वं पुण्डरीकेन शापितः । रेवत्यंशस्य कार्यं च कृत्वा मोक्षत्वमागतः ॥४१
 मृते तस्मिञ्छुके रम्ये देवी स्वर्णवती तदा । दाहयित्वा ददौ दानं विप्रेभ्यस्तस्य तृप्तये ॥४२
 माघमासि च सम्प्राप्ते पञ्चम्यां कृष्णपक्षके । आह्लादः सप्तलक्षैश्च सैन्यैः सार्द्धं ययौ मुदा ॥४३
 तालनाद्याश्च ते शूराः स्वं स्वं वाहनमाश्रिताः । आह्लादं रक्षयन्तस्ते ययुः पञ्चदशाहकम् ॥४४

प्रदानकर विवाहार्थ उस कन्या को मोहित किया । उस कुमारी ने स्वप्न में देवकी पुत्र आल्हाद (आल्हा) का दर्शन प्राप्त किया । २३-३१। प्रातःकाल उठने पर वह उसी विषय में चिन्ता करती हुई अत्यन्त मोहित हुई । उस समय उसने समस्त मनोरथ प्रदान करने वाली कामाक्षी देवी को ध्यानपूर्वक पौषमास के आरम्भ में एक पत्र लिखकर शुक (तोते) के कंठ में बाँध दिया, परचात् प्रियपत्रवाहक उस शुक (तोते) को भेज दिया । वह शुक महावती नगर के पुष्पवाटिका में पहुँचकर वहाँ उद्यमिन् ने

वङ्गदेशं समुल्लङ्घ्य शीघ्रं प्राप्ता हिमालयम् । रूपणं पत्रकर्तारं बलखानिरुवाच तम् ॥४५
 गच्छ त्वं वीर कवची करालाश्वं समास्थितः । पञ्चशस्त्रसमायुक्तो राजानं शीघ्रमावह ॥४६
 युद्धचिह्नं तनौ कृत्वा मामागच्छ त्वरान्वितः । तथा मत्वा शिखण्डचंशो ययौ शीघ्रं स रूपणः ॥४७
 स ददर्श सभां राज्ञो बहुशूरसमन्विताम् । पार्वतीयैर्नृपैः सार्द्धं सहस्रैर्बलवत्तरैः ॥४८
 स उवाच नृपश्रेष्ठं नेत्रसिंहं महाबलम् । त्वत्सुताया विवाहाय बलखानिर्महाबलः ॥
 सप्तलक्षबलैर्गुप्तः सम्प्राप्तस्तव राष्ट्रके ॥४९
 तस्मात्त्वं स्वसुतां शीघ्रमाह्लादाय समर्पय । शुल्कं मे देहि नृपते युद्धरूपं सुदारुणम् ॥५०
 इति श्रुत्वा वचस्तस्य स राजा क्रोधमूर्च्छितः । पट्टनाधिपमाज्ञाय भूषं पूर्णबलं रुषा ॥
 अरुधत्स कपाटं च तस्य बन्धनहेतवे ॥५१
 पाशहस्ताञ्छूरशतं पट्टनाधिपरक्षितान् । दृष्ट्वा स रूपणो वीरः खड्गयुद्धमचीकरत् ॥५२
 हत्वा तन्मुकुटं राज्ञो गृहीत्वाकाशगो बली । बलखानिं तु संप्राप्य चिह्नं तस्मै न्यवेदयत् ॥५३
 इति श्रुत्वा प्रसन्नात्मा सप्तलक्षदलैर्युतः । अरुधन्नगरीं सर्वां नेत्रसिंहेन रक्षिताम् ॥५४
 नेत्रसिंहस्तु बलवान्पार्वतीयैर्नृपैः सह । हिमतुङ्गतलं प्राप्य युद्धार्थी तान्समाह्वयत् ॥५५
 सहस्रं च गजास्तस्य हया लक्षं महाबलाः । सहस्रं च नृपाः शूराश्चतुर्लक्षपदातिभिः ॥५६

सन्नद्ध रहकर पन्द्रहवें दिन उस राजधानी में पदार्पण किया । बंग देश को पारकर ये लोग शीघ्र हिमालय
 के प्रदेश में पहुँचकर संदेशवाहक रूपण से बलखानि (मलखान) ने कहा—वीर ! कवच धारणपूर्वक
 कराल (करील) नामक घोड़े पर बैठकर पाँचों अस्त्र लिए हुए तू राजा के पास पहुँचकर उन्हें हमारे
 आगमन की सूचना देने के पश्चात् अपनी देह में कोई युद्धचिह्न अंकित कर शीघ्र लौट आवो । इसे
 स्वीकार करके वह शिखण्डी का अंश रूपण राजधानी में शीघ्र प्रविष्ट हुआ । उसने वहाँ जाकर राजा की
 राजसभा को देखा, जिसमें पर्वतीय अनेक शूरवीर नृपतिगण अपने शूर-सामन्तों समेत उपस्थित होकर

योगसिंहो गजैः सार्द्धं बलखानिं समाह्वयत् । भोगसिंहो हयैः सार्द्धं कृष्णांशं च समाह्वयत् ॥५७
 विजयो नृपपुत्रश्च सर्वभूपतिभिः सह । देवसिंहस्तथा म्लेच्छै रूपणं च समाह्वयत् ॥५८
 तयोश्चासीन्महद्युद्धं सेनयोस्तत्र दारुणम् । निर्भयाश्चैव ते शूराः पार्वतीयाः समन्ततः ॥
 जघ्नुस्ते शात्रवीं सेनां द्विलक्षां वीरपालिताम् ॥५९
 प्रभंगं स्वबलं दृष्ट्वा चत्वारो मदमत्तकाः । दिव्यानश्वान्समारुह्य चक्रुः शत्रोर्महावधम् ॥
 पुनरुज्जीवितं सर्वं ढक्कामृतरवाद्वलम् ॥६०
 युद्धाय सम्मुखं प्राप भृगुश्रेष्ठ पुनः पुनः । अहोरात्रं रणश्चासीत्तेषां तत्रैव दारुणः ॥६१
 एवं सप्ताह्नि सञ्जाते युद्धे भीरुभयङ्करे । उपायैर्बहुभिर्वीराश्चक्रुश्चैव रणं बहुम् ॥६२
 पुनस्ते जीवमापन्ना जघ्नुस्तान्निपुसैन्यपान् । तालनाद्यास्तु ते शूरा दुःखितास्तत्र चाभवन् ॥
 निराशां विजये प्राप्य कृष्णांशं शरणं ययुः ॥६३
 तानाश्वस्य स कृष्णांशस्तत्र दिव्यहये स्थितः । नभोमार्गेण बलवान्स्वर्णवत्यन्तिकं ययौ ॥६४
 हर्म्योपरि स्थितां देवीं सर्वशोभासमन्विताम् । नत्वोवाच वचः श्लक्ष्णं किङ्करोहमिहोदयः ॥
 शरण्यां त्वामुपागच्छं कामाक्षीमिव भामिनि ॥६५
 वृत्तान्तं कथयामास यथासीच्च महारणः । श्रमेण कर्षिता वीरा निराशां जीवनेऽगमन् ॥६६
 साह चोदयसिंह त्वं कामाक्ष्या मन्दिरं व्रज । अहं च स्वालिभिः सार्द्धं नवम्यां पूजने रता ॥६७

(मलखान) को, अश्व सेनाध्यक्ष भोगसिंह ने उदय सिंह को तथा राजपुत्र विनयकुमार ने राजाओं समेत उस रणस्थल में देवसिंह, तालन एवं रूपण को युद्ध के लिए ललकारा । दोनों के वीरभट्ट सैनिकों ने एक दूसरे पर भीषण आघात-प्रतिघात करते हुए उस युद्ध को अत्यन्त भयानक बना दिया । पर्वतीय शूरों ने चारों ओर से घेरकर शत्रु की दो लाख सेनाओं का हनन कर दिया । उस समय अपनी सेना का विनाश

ढक्कामृतस्य वाद्येन पूजये सर्वकामदाम् । इति श्रुत्वा स बलवान्स्वसैन्यं प्रति चागमत् ॥६८
 अर्धशेषां रणात्सेनां पराजाप्य च दुद्रुवुः । पट्टनाख्यपुरे प्राप्ता जयं प्राप्य महाबलाः ॥६९
 पराजिते रिपौ तस्मिन्नेत्रसिंहसुतैः सह । गृहमागत्य बलवान्विप्रेभ्यो गोधनं ददौ ॥७०
 नवम्यां पितरं प्राह देवी स्वर्णवती तदा । कामाक्षीसेवनेनाशु कुरु यागोत्सवं मम ॥
 यत्प्रसादाच्च विजयी दुर्जयेभ्योऽभवद्भवान् ॥७१
 इति श्रुत्वा पिता प्राह स्वप्नो दृष्टस्तथा मया । पूजनान्मङ्गलं राज्ञां नो चेद्विघ्नो हि शोभने ॥७२
 पित्रोक्तैवं निशायां तु सा मुता पितुराज्ञया । ढक्कामृतस्य वाद्येन कामाक्षीमन्दिरं ययौ ॥७३
 कृष्णांशो माल्यकारस्य बधूर्भूत्वा समागतः । ढक्कामृतं च नारीभ्यो गृहीत्वा त्वरितो ययौ ॥७४
 एतस्मिन्नन्तरे वीराः षष्टिर्वाहनसंयुताः । ढक्कार्थं प्रययुः शीघ्रं सर्वशस्त्रैः समुद्यताः ॥७५
 तानागतान्स बलवान्दृष्ट्वा खड्गं गृहीतवान् । पञ्चपञ्चाशतः शूराननयद्यमसादनम् ॥७६
 कृष्णांशस्त्वरितो गत्वा रूपणो यत्र तिष्ठति । ढक्कामृतं च सम्प्राप्य ह्यारूढो ययौ सभाम् ॥७७
 हृते ढक्कामृते दिव्ये नेत्रसिंहो भयानुरः । ऐन्द्रं यज्ञं तथा कृत्वा हवनाय परोऽभवत् ॥७८
 प्रभाते समनुप्राप्ते ते वीराः स्वबलैः सह । तरसा प्रययुः सर्वे गजोष्ट्रहयसंस्थिताः ॥
 दिनान्ते प्राप्तवन्तश्च यत्राभूत्स महारणः ॥७९
 कृष्णांशः पूजयित्वा तं दध्मौ ढक्कामृतं बली । तच्छब्देन मृता वीराः पुनरुज्जीवितास्तदा ॥८०

पूजनार्थं वहाँ आऊँगी । ६४-६७। किसी स्त्री (दासी) के हाथ में वह डमरू वाद्य भी रहेगा । उससे उसका अपहरण कर लेना ।' इतना सुनकर वह बलवान् अपनी सेना में चला आया । पश्चात् अपनी बंधी हुई आधी सेना समेत रण का त्यागकर पटना नगर में आकर रहने लगा । ६८-७३। शत्रु के पराजित होने पर नेत्र सिंह ने अपने पुत्रों समेत घर आकर ब्राह्मणों को गो धनादि का दान दिया । पश्चात् नवमी

सप्तलक्षबलं तस्य पुनः प्राप्तं मदातुरम् । हरोध नगरीं सर्वा दध्मौ वाद्यान्यनेकशः ॥८१
रुद्धे तु नगरे तस्मिन्नेत्रसिंहो भयातुरः । स्वात्मानमर्पयामास वह्नौ शक्राय धीमते ॥८२
तदा प्रसन्नो भगवानुवाच नृपतिं प्रति । रामांशोऽयं च कृष्णांशो भुवि जातौ कलैकया ॥८३
तस्मै योग्याय सा कन्या रामांशाय यशस्विने । योगिनीयं स्वर्णवती रेवत्यंशावतारिणी ॥८४
इत्युक्त्वा च स्वयं देवो ढक्कामृतमुमाप्रियम् । हृत्वा वह्नौ समाक्षिप्य दुर्गायै संन्यवेदयत् ॥८५
गते तस्मिन्पुरपतौ स राजा ब्राह्मणैः सह । महीपतिं प्रति ययौ मेलनार्थं समुद्यतः ॥८६
तथागतं नृपं दृष्ट्वा कृष्णांशश्च महीपतिः । आह्लादमातुलः प्राह मान्यः सर्वबलैः सदा ॥८७
राजन्नयं स बलवानाह्लादः सानुजैः सह । मत्पङ्क्तौ न स्थितो बीरः कुले हीनत्वमागतः ॥८८
आर्याभीरी स्मृता तेषां किं त्वया विदितं न हि । यदि देया त्वया कन्या तर्हि त्वं हीनतां व्रज ॥८९
अतस्त्वं वचनं चेदं कुलयोग्यं शृणुष्व भोः । चातुरो बालकात्रीचांस्तालनेन समन्वितान् ॥९०
वञ्चयित्वा विवाहार्थं शिरांस्येषां समाहर । मण्डपान्ते मखं कृत्वा चामुण्डायै समर्पय ॥९१
त्वत्कन्यया समाहृता वीरा वै रेवती हि सा । पश्चात्कन्यां स्वयं हत्वा कुलकल्याणमावह ॥९२
नो चेद्भवान्क्षयं यायात्सकुलो जम्बुको यथा । इत्युक्त्वा स ययौ सार्द्धं यत्राह्लादस्य बान्धवः ॥९३

अपने साथ मदोन्मत्त सैनिकों द्वारा चारों ओर से उस नगरी को घेरकर अनेक भाँति के वाद्यों की ध्वनि कराने लगे । उस ध्वनि के साथ अपने नगरी को अवरुद्ध होना सुनकर भयभीत होते हुए नेत्रसिंह उस यज्ञ के अग्निकुण्ड में इन्द्र के प्रसन्नार्थ अपने को अर्पित कर दिया । उससे प्रसन्न होकर भगवान् इन्द्र ने राजा से कहा—आह्लाद (आल्हा) और उदय सिंह के रूप में राम और कृष्ण अपनी एक कला द्वारा इस भूतल में अवतरित हुए हैं, इसलिए उस यशस्वी रामांश आह्लाद (आल्हा) के योग्य आपकी कन्या है । क्योंकि

इति श्रुत्वा स शल्यांशः सुयोधनमुखेरितम् । तथेत्युक्तवोत्सवं कृत्वा मण्डपान्ते विधानतः ॥
 आह्लादस्य समीपं स गत्वैतद्वञ्चनाय हि । तमाह दण्डवत्पादौ गृहीत्वा नृपतिस्स्वयम् ॥१४
 भवन्तोऽशावताराश्च मया ज्ञाताः सुरोत्तमात् । निरस्त्रान्पञ्च युष्मांश्च पूजयित्वा यथाविधि ॥
 रामांशाय स्वकन्यां च दास्यामि कुलरीतितः ॥१५
 इत्याह्लादं समादिश्य स नृपश्छलमाश्रितः । दुर्गोत्सवे ययौ गेहं तद्वधाय समुद्यतः ॥१६
 सहस्रं मण्डपे भूपान्तंस्थाप्य स्वबलैः सह । तालनाद्यांश्च षट् शूरान्मण्डपान्ते समाह्वयत् ॥१७
 विवाहप्रथमावर्ते योगसिंहोऽसिमुत्तमम् । वरमाहत्य शिरसि जगर्ज बलवान्रुषा ॥१८
 तमाह तालनो धीमान्नयोग्यं भवता कृतम् । श्रुत्वाह नेत्रसिंहस्तं कुलरीतिरियं बलिन् ॥
 निरायुधैः परैः सार्द्धं शस्त्रिणां सङ्गरो हि नः ॥१९
 इति श्रुत्वा योगसिंहं कृष्णांशस्तं समारुधत् । भोगसिंहं तथाकृष्य बलखानिर्गृहीतवान् ॥१००
 विजयं तृतीयावर्ते सुखखानिर्न्यरुन्द्ध वै । चतुर्थावर्तके शत्रुं नृपं पूर्णबलं शठम् ॥
 रूपणस्तं गृहीत्वाशु युयुधे तद्वलैः सह ॥१०१
 पञ्चमे बहुराजानं तालनश्च समारुधत् । षष्ठावर्ते नेत्रसिंहं तथाह्लादो गृहीतवान् ॥१०२
 सम्प्राप्ते तुमुले युद्धे बहुशूराः क्षयं गताः । निरायुधाः षड् बलिनः संक्षम्य व्रणमुत्तमम् ॥

करके शल्यांश से उत्पन्न नेत्रसिंह ने उनसे कहा—मण्डप के अन्त में आपके समेत उन पाँचों व्यक्तियों को निरस्त्र वहाँ बुलाकर उस रात्रि में सबका पूजन करूँगा पश्चात् रामांश आह्लाद (आल्हा) को अपनी पुत्री प्रदान करूँगा । इतना कहकर वह आह्लाद के यहाँ गया जहाँ वे अपने बंधुओं आदि के साथ रह रहे थे । उनके चरण का साष्टाङ्ग दण्डवत करके राजा ने उनसे कहा—आप लोग देवश्रेष्ठ के अंश से उत्पन्न

निरायुधान्निरपून्स्वान्स्वांश्चक्रुः शक्तिप्रपूजकाः ॥१०३
 एतस्मिन्नन्तरे देवः कालदर्शी समागतः । नभोमार्गेण तानश्वान्स्तेभ्य आगत्य सन्ददौ ॥१०४
 बिन्दुलं चैव कृष्णांशो देवस्तत्र मनोरथम् । रूपणश्च करालाश्वं चाह्लादस्तु पपीहकम् ॥१०५
 हरिणीं बलखानिश्च तद्भ्राता हरिनागरम् । सिंहनीं तालनः शूरः समारुह्य रणोद्यतः ॥१०६
 रात्रौ तन्नृपतेः सेनां हत्वा बद्ध्वा च तत्पतिम् । दोलां गेहाच्च निष्काश्य सप्तभ्रमरकारिताम् ॥१०७
 स्वसैन्यं ते समाजगमुर्निर्भया बलवत्तराः । तान्सर्वाग्नेत्रसिंहादीन्दृष्ट्वा पाहीति जल्पितः ॥१०८
 निगडैरेकतः कृत्वा पञ्च भूपान् हि वञ्चकान् । कारागारे महाघोरे तत्र तान्संन्यवासयन् ॥१०९
 नेत्रसिंहो वरो भ्राता सुन्दरारण्यभूमिपः । हेतुं ज्ञात्वा ययौ शीघ्रं मायावी लक्षसैन्यकः ॥११०
 तत्रागत्य हरानन्दो नाम्ना तानयुधद्वली । नेत्रसिंहस्य सैन्यं च चतुर्लक्षं तदागमत् ॥१११
 पञ्चलक्षै रणो घोरः सप्तलक्षयुतैरभूत् । पञ्चाहोरात्रमात्रं च तयोश्चासीत्स संकुलः ॥
 अर्द्धसैन्यं रिपोस्तत्र हतशेषमदुद्रुवत् ॥११२
 विस्मितः स हरानन्दो रुद्रमायाविशारदः । बलाधिक्ययुताञ्ज्ज्ञात्वा शिवध्यानपरोऽभवत् ॥११३
 रचित्वा शाबरीं मायां नानारूपविधारिणीम् । पाषाणभूतान्सकलान्कृत्वा भूपान्समाययौ ॥११४
 समुतं भ्रातरं ज्येष्ठं नृपं पूर्णबलं ततः । मोचयित्वा ययौ गेहं कृतकृत्यो महाबली ॥११५
 आह्लादं निगडैर्बद्ध्वा मायया जडतां गतम् । नेत्रसिंहः स बलवान्ययौ स्वं दुर्गमुद्यतः ॥

थे । उसी बीच काल-तत्त्व के ज्ञाता देवसिंह ने आकाश मार्ग से आकर उनके वाहनों को उन्हें प्रदान किया । पश्चात् बिन्दुल (वेंदुल) पर उदयसिंह, मनोरथ (मनोहर) पर देवसिंह, कराल (करील) पर रूपन, पपीहा पर आह्लाद (आल्हा), हरिणी पर बलखानि (मलखानि), हरिनागर पर सुखखानि, और

तं प्रशंस्यानुजं वीरो विप्रेभ्यश्च ददौ धनम् ॥११६
 तदा स्वर्णवती दीना बद्धं ज्ञात्वा पतिं निजम् । कृष्णांशाद्यान्मोहितांश्च शम्भुमायावशानुगान् ॥११७
 हरोदोच्चैस्तदा देवीं ध्यायन्ती कामरूपिणीम् । तदा तुष्टा जगद्धात्री मूर्च्छितांस्तानबोधयत् ॥११८
 ते सर्वे चेतनां प्राप्ताः प्राहुः स्वर्णवतीं मुदा । क्वास्थितो बन्धुराल्लादो देवि त्वं कारणं वद ॥११९
 यथा बद्धः स्वयं स्वामी कथयामास सा तथा । अहं शुकी भवाम्यद्य भवान्बिदुलसंस्थितः ॥१२०
 इत्युक्त्वा सा शुकी भूत्वा कृष्णांशेन समन्विता । यत्रास्ते तत्पतिर्बद्धस्तत्र सा कामिनी ययौ ॥१२१
 कृष्णांशोऽपि ह्यारूढो नभोमार्गेण चाप्तवान् । अभीरीं मूर्तिमासाद्य स्वामिनं प्रति सा ययौ ॥१२२
 आश्वास्य तं यथायोग्यं कृष्णांशं प्रत्यवर्णयत् । कृष्णांशस्तत्र बलवान्हत्वा दुर्गनिवासिनः ॥१२३
 रक्षकाञ्छतसाहस्रान्हत्वा भ्रातरमाययौ । पौर्णिमां मधुयुक्तां च ज्ञात्वा सर्वे त्वरान्विताः ॥१२४
 अयोध्यां शीघ्रमागम्य स्नात्वा वै सरयूं^१ नदीम् । होलिकादाहसमये शीघ्रं वेण्यां समागता ॥१२५
 स्नानध्यानादिका निष्ठाः कृत्वा गेहमुपाययुः । सागरस्य तटं प्राप्य कृत्वा ते च महोत्सवम् ॥

प्रशंसापूर्वक ब्राह्मणों को दान प्रदान किया । उस समय स्वर्णवती (सोना) ने अपने पति को बँधा हुआ और उनके बंधुवर्ग एवं सैनिकों को शम्भु की माया से मोहित (अचेतन) देखकर अधीर होकर रुदन किया । पश्चात् कामरूपिणी देवी को ध्यानपूर्वक प्रसन्न करने लगी, प्रसन्न होकर जगज्जननी ने उन मूर्च्छितों को चेतना प्रदान की । ज्ञान होने पर उन लोगों ने स्वर्णवती (सोना) से पूँछा—देवि ! भाई आल्लाद (आल्हा) कहाँ हैं, उसका कारण शीघ्र बताइये । जिस प्रकार उसके स्वामी आबद्ध होकर गये थे, उसने सब कुछ सविस्तृत कह सुनाया और उदयसिंह से यह भी कहा कि—मैं तोते का रूप धारणकर तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम घोड़े पर बैठो । इतना कहकर वह तोते का रूप धारण कर उदयसिंह के साथ चला गया ।

चैत्रस्य कृष्णपञ्चम्यां स्वगेहं पुनराययुः

॥१२६

दूता उष्ट्रसमारूढास्तत्क्षेमकरणोत्सुकाः । वैशाखे शुक्लपञ्चम्यां स्वगेहं पुनराययुः ॥१२७

मलना भूपतिश्रैव गेहे गेहे महोत्सवम् । कारयित्वा विधानेन ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम् ॥१२८

इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३

अथ चतुर्दशोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

चतुर्दशाब्दे कृष्णांशे यथा जातं तथा शृणु । जयन्तः शक्रपुत्रश्च जानकीशापमोहितः ॥

कलौ जन्मत्वमापन्नः स्वर्णवत्युदरेऽवसत्

॥१

चैत्रशुक्लनवम्यां च मध्याह्ने गुरुवासरे । स जातश्चन्द्रवदनो राजलक्षणलक्षितः ॥२

जाते तस्मिन्नुतश्रेष्ठे देवाः सर्षिगणास्तदा । इन्दुलोऽयं महीं जातो जयन्तो वासवात्मजः ॥

इत्पूचुर्वचनं तस्मादिन्दुलो नाम चाभवत्

॥३

आह्लादो जातकर्मादीन्कारयित्वा शिशोर्मुदा । ब्राह्मणेभ्यो ददौ स्वर्णधेनुवृन्दं ह्यानाजान् ॥४

इन्दुले तनये जाते द्विमासान्ते महीतले । योगसिंहस्तदागत्य स्वर्णवत्यै ददौ धनम् ॥५

नेत्रसिंहसुतं दृष्ट्वा मलना स्नेहसंयुता । पप्रच्छ कुशलप्रश्नं भोजयित्वा विधानतः ॥६

उन्होंने ब्राह्मणों को अधिकाधिक दान प्रदान किया ॥१२६-१२८

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन

नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥१३॥

शतवृन्दाश्च नर्तक्यो नानारागेण संयुताः । तत्रागत्यैव ननृतुर्यत्र भूपसुतः स्थितः ॥७
 सप्तरात्रमुषित्वा स योगसिंहो ययौ गृहम् । षण्मासे च सुते जाते देवेन्द्रः स्नेहकातरः ॥८
 पुत्रस्नेहेन तं पुत्रं स जहार स्वमायया । संहृत्यं बालकं श्रेष्ठमिन्द्रायै च समर्पयत् ॥९
 स्नेहप्लुता शची देवी स्वस्तनौ तमपाययत् । देव्या दुग्धं स वै पीत्वा षोडशाब्दसमोऽभवत् ॥१०
 इन्दुं पीयूषभवनं गृह्णाति वपुषा स्वयम् । अतः स इन्दुलो नाम जयन्तश्च प्रकीर्तितः ॥
 स बालः स्वपितुर्विद्यां पठित्वा श्रेष्ठतामगात् ॥११
 विनष्टे बालके तस्मिन्देवी स्वर्णवती तदा । रुरोदोच्चैस्तदा दीना हा पुत्र क्व गतोऽसि भोः ॥१२
 ज्ञात्वाह्लादं तथा भूतं दशग्रामे तथाविधे । रौद्रः कोलाहलो जातो रुदतां च नृणां मुने ॥१३
 आह्लादः स्वकुलैः सार्द्धं निराहारो यतेन्द्रियः । शारदां शरणं प्राप्तस्त्रिरात्रं तत्र चावसत् ॥१४
 तदा तुष्टा स्वयं देवी वागुवाचाशरीरिणी । हे पुत्र स्वकुलैः सार्द्धं मा शुचस्त्वं सुतं प्रति ॥१५
 इन्द्रपुत्रो जयन्तश्च स्वर्गलोकमुपागतः । दिव्यविद्यां पठित्वा स त्रिवर्षाति ^१ गमिष्यति ॥१६
 यावत्त्वं भूतलेऽवात्सीस्तावत्स ^२ भूतले वसेत् । तत्पश्चात्स्वर्गतिं प्राप्य जयन्तो हि भविष्यति ॥१७

सैकड़ों नर्तकियाँ अपने भाँति-भाँति के राग एवं कला-कुशलता द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगीं । इस प्रकार आनन्द-सागर में सात रात्रि रुकने के उपरान्त वे अपने घर गये । उस कुमार की छह मास की अवस्था तक अपने दिनों को व्यतीत करने में इन्द्र अधीर हो गये, उनसे न रहा गया, अन्ततोगत्वा पुत्रस्नेहवश उन्होंने अपनी माया द्वारा उस अपने पुत्र का अपहरण कर लिया । उस श्रेष्ठ बालक का अपहरण करके उसे अपनी इन्द्राणी (स्त्री) को सौंप दिया । १-९। स्नेह-कातर होकर शचीदेवी ने उसे शीघ्र अपने स्तनों का पान कराया । देवी का दुग्धपान करने से वह कुमार सोलहवर्ष की अवस्था वालों के समान दिखाई देने लगा । उसने अमृत राशि चन्द्रमा की समानता अपने असाधारण शरीर द्वारा प्राप्त की । इसलिए

इत्युक्ते वचने देव्या निःशोकास्ते तदाभवन् । दशग्रामपुरं प्राप्य समूषुर्जनितत्पराः ॥१८
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४

अथ पञ्चदशोऽध्यायः कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम् सूत उवाच

इन्दुले स्वर्गसम्प्राप्ते ते वीराः शोककातराः । शारदां पूजयामासुः सर्वलोकनिवासिनीम् ॥१
जप्त्वा सप्तशतीस्तोत्रं त्रिसन्ध्यं प्रेमभक्तितः । ध्यानेनानन्दमापन्नास्तदा सप्तशतेऽहनि ॥२
सामन्तद्विजपुत्रश्च चामुण्डो नाम विश्रुतः । सोऽष्टवर्षवया भूत्वा पूजयामास चण्डिकाम् ॥३
द्वादशाब्दे ततो जाते त्रिचरित्रस्य पाठतः । परीक्षार्थं तु भक्तानां साक्षान्मूर्तित्वमागता ॥४
कुण्डिकेयं च भो भक्ताः पूरयामि च तामहम् । यूयं तु मनसोपायैः कुरुध्वं पूरणे मतिम् ॥५
सुखखानिस्तु बलवान्मधुपुष्पैस्तथा फलैः । कुण्डिकां पूरयामास न पूर्णत्वमुपागता ॥
बलखामिस्तथा मांसैर्मूलशर्मा तु रक्तकैः ॥६
देवकी च तदा हव्यैश्चन्दनादिभिरर्चनैः । कुण्डिकां पूरयामास न पूर्णत्वमुपागता ॥७

शोक-परित्यागपूर्वक अपने नगर 'दशग्राम' चले गये, वहाँ जानियों की भाँति दिन व्यतीत करने लगे ॥१८

श्री भविष्यपुराण के प्रतिसर्ग पर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन

आह्लादश्चैव सर्वाङ्गैरुदयः शिरसा स्वयम् । कुण्डिकां पूरयामास तदा पूर्णत्वमागता ॥८
 उवाच वचनं देवी स्वभक्तान्भक्तवत्सला । सुखाखाने भवान्वीरो भविष्यति सुरप्रियः ॥९
 बलखानिर्महावीरो दीर्घे काले च मृत्युभाक् । मूलशर्मा तु बलवान्रक्तबीजो भविष्यति ॥१०
 देवकी च भवेद्देवी चिरकालं स्वलोकगा । आह्लादश्चैव कृष्णांशस्तयोर्मध्ये द्वयं वरम् ॥
 एकस्तुदेववत्प्रोक्तो बलाधिक्यो द्वितीयकः ॥११

निष्कामोऽयं देवसिंहो मृतो भोक्षत्वमाप्नुयात् । इत्युक्त्वान्तर्दधे माता ते सर्वे तृप्तिमागताः ॥१२

इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५

अथ षोडशोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

प्राप्ते सप्तदशाब्दे च कृष्णांशे तत्र चाभवत् । शृणु त्वं मुनिशार्दूल दृष्टं यद्योगदर्शनात् ॥१
 रत्नभानौ मृते राज्ञि मरुधन्वमहीपतिः । गजसेनस्तदा विप्र पृथ्वीराजभयातुरः ॥२
 आराध्य पावकं देवं यज्ञध्यानव्रतार्चनैः । द्वादशाब्दं समाचारः प्रेमभक्त्या ह्यतोषयत् ॥३

सकी । उस समय आह्लाद (आल्हा) ने अपने सर्वाङ्ग तथा उदयसिंह ने अपने शिर को समर्पित करके उस कुण्डिका की पूर्ति कर दी, इससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सला भगवती ने भक्तों से कहा—'वीर, सुखाखाने ! तम देव-प्रिय होगे, महाबली बलखानि (मलखान) की मृत्यु दीर्घकाल में होगी बलवान

तदा प्रसन्नो भगवान्पावकीयं ह्यं शुभम् । ददौ तस्मै सुतौ चोभौ कन्यां च गजमुक्तिकाम् ॥४
 पावकास्ते हि चत्वारः समुद्भूता महीतले । अग्निवर्णा महावीराः सर्वलक्षणलक्षिताः ॥५
 अष्टादशवयोभूताः सर्वे ते मुनिपुङ्गव । जातमात्रा देवसमाः सर्वविद्याविशारदाः ॥६
 अष्टादशाब्दवयसा सा कन्या वरवर्णिनी । दुर्गायाश्च वरं प्राप्ता धर्माशस्त्वां वरिष्यति ॥७
 शार्दूलवंशी स नृपः कृतवान्वै स्वयंवरम् । नानादेश्या नृपाः प्राप्ताः सुताया रूपमोहिताः ॥८
 मार्गशीर्षे सिते पक्षे चाष्टम्यां चन्द्रवासरे । तस्याः स्वयंवरश्चासीत्सानृपान्प्रति चाययौ ॥९
 विद्युद्वर्णं मुखं तस्याश्चञ्चलायास्तथागतम् । दृष्ट्वा मुमोह धर्माशो बलखानिर्महीपतिः ॥१०
 सापि दृष्ट्वा च तं वीरं मुमोह गजमुक्तिका । बुद्ध्वा तस्मै ददौ मालां वैजयन्तीं शुभानना ॥११
 तारकाद्याश्च भूपालाः सर्वशस्त्रास्त्रसंयुताः । रुरुधुः सर्वतो वीरं ते बलात्कन्यकार्थिनः ॥१२
 तथाविधानृपान्दृष्ट्वा भूपान्पञ्चशतान्बली । स शीघ्रं खड्गमुत्सृज्य शतभूपशिरांस्यहन् ॥१३
 सर्वतो वध्यमानं तं बलखानिं स तारकः । तद्भुजाभ्यां ददौ खड्गं स तदङ्गे द्विधाभवत् ॥१४
 महीराजसुतो ज्येष्ठो दृष्ट्वा खड्गं तथा गतम् । अपोवाह रणाच्छूरस्तत्पश्चात्ते नृपा ययुः ॥१५
 पराजिते नृपबले बलखानिर्महाबलः । तां कन्यां शिबिकारूढां स्वगेहं सोऽनयद्वली ॥१६

की । १-३। प्रसन्न होकर भगवान् अग्निदेव ने एक सुन्दर अश्व, दो पुत्र और गजमुक्तिका (गज मोतिना) नाम की एक कन्या प्रदान की । पावकांश से अत्यन्त ये चारों अग्नि के समान वर्ण, स्वयं महाबली एवं सर्वलक्षणों से अलंकृत थे, इस धरातल पर जन्म ग्रहण किये । मुनिश्रेष्ठ ! अठारह वर्ष की अवस्था में ये सभी देवों की भाँति सौन्दर्यपूर्ण तथा समस्त विद्याओं में निपुण हो गये । अठारह वर्ष की ही अवस्था में उस उत्तमाङ्गी कन्या को प्रसन्न होकर दुर्गाजी ने वर प्रदान किया था—वत्स पुत्र (मखलान) तुम्हारा पति होगा । बघेलवंशी राजा गजसेन ने अपनी कन्या के विवाहार्थ स्वयंवर किया, जिसमें उनकी कन्या

तां गच्छन्तीं सुतां दृष्ट्वा गजसेनी महीपतिः । महीपत्याज्ञया प्राप्तो ज्ञात्वा तं क्षत्रियाधमम् ॥१७
 जम्बुकध्नं महावीरं मायया तममोहयत् । जाते निद्रातुरे वीरे दुर्गायाः शापमोहिते ॥१८
 निगडैस्तं बबन्धाशु वृढैर्लोहमयै र्षा । लोहदुर्गं च सम्प्राप्य ग्रामरूपं महीपतिः ॥१९
 चाण्डालांश्च समाहूय कठिनांस्तत्रवासिनः । वधायाज्ञापयामास तस्य दण्डैरनेकशः ॥२०
 ते रौद्रास्तं समाबाध्य ताडयामासुरुर्जिताः । तत्ताडनात्तदा निद्रा तत्रैव विलयं गता ॥२१
 दृष्ट्वा ततस्तु चण्डालान्बलस्त्रानिरताडयत् । तलमुष्टिप्रहारेण चाण्डाला मरणं गताः ॥२२
 मृते पञ्चशते रौद्रे तच्छेषा द्रुद्रुर्भयात् । कपाटं सुदृढं कृत्वा नृपान्तिकमुपाययुः ॥२३
 स नृपः कारणं ज्ञात्वा हस्तबद्धो महाबली । उवाच तत्र गत्वासौ वचनं कार्यतत्परः ॥२४
 भवान्महाबलो वीर चाण्डालैर्बन्धनं गतः । दस्युभिर्लुण्ठितस्तत्र निद्रावश्यो वनं गतः ॥२५
 मत्सुता भवने प्राप्ता दिष्ट्या त्वं जीवितं गतः । उद्वाह्य मत्सुतां शीघ्रं स्वगेहं यातुमर्हसि ॥
 इति श्रुत्वा प्रियं वाक्यं तं प्रशस्य तथाकरोत् ॥२६
 मण्डपे वेदकर्माणि विवाहार्थं चकार सः । जातायां मण्डपार्चायां पत्रमाल्लादहेतवे ॥२७
 तदाज्ञया लिखित्वासौ गजसेनोऽग्निसेवकः । उष्ट्रारूढं समाहूय शीघ्रं पत्रमचोदयत् ॥२८
 बलखानेर्बिवाहोऽत्र भवान्सैन्यसमन्वितः । सम्प्राप्य योग्यद्रव्याणि भुक्त्वा त्वं तृप्तिमावह ॥२९

उर्वी पति माहिल तथा पराजित राजाओं की सम्मति से बलखानि (मलखान) को, जो क्षत्रियाधम, जम्बुक का हन्ता एवं महावीर था, अपनी माया से मोहित किया। पश्चात् दुर्गा शाप के कारण मोहित एवं निद्रित उस वीर को हथकड़ी-बेड़ी से दृढ आबद्ध करके लोहदुर्ग वाले ग्रामरूप में पहुँचकर वहाँ के निवासी चाण्डालों को बुलाकर कहा—‘अनेक भाँति के दण्ड देते हुए इसका वध करो।’ इस प्रकार की आज्ञा पाकर वीर चाण्डालों को बुलाकर वहाँ के वीरों के साथ ही निद्रा करने लगे। जब समय पहुँचकर उनकी मूर्च्छा

इत्युक्ते निशि जातायां बलखानिर्महाबलाः । भोजनं कृतवांस्तत्र विषजुष्टं नृपार्पितम् ॥३०
 गरलं तेन सम्भुक्तं न ममार बराच्छुभात् । ततः काले च सम्प्राप्ते दृष्ट्वा मोहत्वमागतम् ॥
 पुनर्बबन्ध निगडैस्ताडयामास वेतसैः ॥३१
 विषदोषमसृक्द्वारान्निस्सृतं^१ सर्वदेहतः । तदा बुबोध बलवान्भूपतिं प्राह नम्रधीः ॥३२
 राजन्किमीदृशं जातं त्वत्सैन्यं ताडने रतम् । स आह भो महावीर मत्कुले रीतिरीदृशी ॥
 यातनां प्रथमं प्राप्य तदनूद्वाहितो भवेत् ॥३३
 इत्युक्ते सति भूपाले गजमुक्ता समागता । पितरं प्राह वचनं कोऽयं तत्ताडने गतः ॥३४
 नृपः प्राह सुते शीघ्रं याहि त्वं निजमन्दिरे । कृषिकरोऽयमायातो द्रव्यार्थं ताडने गतः ॥३५
 इति श्रुत्वा वचो घोरं बलखानिर्महाबलः । छित्त्वा तद्वन्धनं घोरं खड्गहस्तः समापयौ ॥३६
 शूरान्यञ्चशतं तं च रुद्ध्वा शस्त्रैः समन्ततः । प्रजघ्नतस्तु तान्सर्वान्बलखानिर्व्यनाशयत् ॥३७
 गजसेनसुतो ज्येष्ठः सूर्यद्युतिरुपागतः । बद्ध्वा पुनस्तं बलिनं गर्तमध्ये समाक्षिपत् ॥३८
 तथा गतं पतिं दृष्ट्वा गजमुक्ता सुदुःखिता । निशि तत्र गता देवी दत्त्वा द्रव्यं तु रक्षकान्^२ ॥३९
 पतिं निष्काश्य रुदती व्यजनं पतये ददौ । रात्रौ रात्रौ तथा प्राप्ता व्यतीतं पक्षमात्रकम् ॥४०
 एतस्मिन्नन्तरे वीरश्राल्लादः सप्तलक्षकैः । सैन्यैः सहाययौ शीघ्रं श्रुत्वा तत्रैव कारणम् ॥४१

बलखानि (मलखान) को भोजन में विष भक्षण करा दिया । किन्तु भोजन भक्षण करने पर भी वरदान प्राप्त होने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई । मूर्च्छित होने पर राजा ने पुनः हथकड़ी-बेड़ी से दृढ़ बाँधकर उनके पैरों पर बेटों के प्रहार कराने लगा । उस समय सम्पूर्ण देह में व्याप्त विष के रक्त के द्वारा बाहर निकल जाने पर बलखानि (मलखान) को चेतना प्राप्त हुई । उन्होंने विनम्र होकर राजा से कहा—राजन् ! क्या कारण है, आपकी सेना मुझ पर आघात कर रही है । राजा ने कहा—वीर ! मेरे

बलखानिर्गतो गर्ते ररोध नगरीं तदा । गजैः षोडशसाहस्रैर्गजसेनो रणं ययौ ॥४२
 त्रिलक्षैश्च हयैः सार्द्धं सूर्यद्युतिरुपाययौ । कान्तामलस्तदा प्राप्तस्त्रिलक्षैश्च पदातिभिः ॥४३
 तयोश्चासीन्महद्युद्धस्यहोरात्रं हि सैन्ययोः । रक्षिते तालनाद्ये च गजसेनाद्यके तदा ॥४४
 द्वितीयेऽह्नि समायाते गजसेनो महाबलः । प्रभ्रं स्वबलं दृष्ट्वा पावकीऽयं समारुहत् ॥
 दाहयामास तत्सैन्यं तालनाद्यैश्च पालितम् ॥४५
 भस्मीभूतं बलं दृष्ट्वा तालनः शत्रुसम्मुखे । गत्वा भल्लेन भूपालं ताडयामास वेगतः ॥४६
 मूर्च्छितं नृपमाज्ञाय सूर्यद्युतिरुपाययौ । पावकीयं समारुह्य दाहयामास तालनम् ॥४७
 एतस्मिन्नन्तरे शूरौ देवौ चाल्लादकृष्णकौ । बबन्धतू रषाविष्टौ सूर्यद्युतिमरिन्दमम् ॥४८
 सुबद्धं भ्रातरं ज्ञात्वा हयं कान्तामलोऽरुहत् । देवसिंहं च सम्मोह्य कृष्णांशं प्रति सोऽगमत् ॥
 गृहीत्वा तं स कृष्णांशं तस्य तेजः समाहरत् ॥४९
 सप्तलक्षबलं सर्वं वह्निभूतमभूत्तदा । अमरत्वात्स आल्लादस्तदा तु समजीवयत् ॥५०
 गजसेनस्यार्द्धसैन्यं तैश्च सर्वैर्विनाशितम् । विजयं नृपतिः प्राप्य हर्षितो गेहमाययौ ॥५१
 वह्निभूतं च कृष्णांशं दृष्ट्वाल्लादः सुदुःखितः । दुर्गां देवीं स तुष्टाव मनसा रणमूर्द्धनि ॥५२
 तदा देवी वचः प्राह वत्स ते पुत्र एव च । स्वर्गादागत्य सर्वाणि पुनरुज्जीवयिष्यति ॥५३
 इत्युक्ते वचने देव्या इन्दुलो वासवाज्ञया । द्वादशाब्दसमं रूपं धृत्वा विद्याविशारदः ॥

(आल्हा) वहाँ शीघ्र पहुँच गये । ४१। उन्होंने पहले ही सुना था कि बलखानि (मलखान) किसी गर्त (खाई) में पड़े हुए हैं, इसलिए उनकी नगरी को चारों ओर से घेरकर युद्धार्थ राजा को निमन्त्रित किया । सोलह सहस्र की गजसेना समेत गजसेन, तीन लाख घोड़े की सेना समेत सूर्यद्युति (सूर्यमणि) और तीन लाख सूर्यद्युति (सूर्यमणि) की सेना समेत शत्रु सेना के साथ युद्ध में पहुँचकर

घडवामृतमारुह्य हयं तत्र समागतः

॥५४

तदङ्गादुद्धृता वाहा मेघा इव समन्ततः । पावकं शमयामासुस्त्रयस्ते देवतोपमाः ॥५५

शमीभूते तदा बह्नौ स्वमुखात्सहयो मुदा । लालामुद्राहयामास तथा ते जीवितास्ततः ॥५६

जीविते सप्तलक्षे तु शमीभूते हि पावके । गजसेनः सुताभ्यां च प्रयातः सर्वतोदिशम् ॥५७

लक्षं सैन्यं तु ये शिष्टास्ते सर्वेऽपि भयातुराः । दुद्रुबुर्भार्गवश्रेष्ठ दिव्यरूपत्वधारिणः ॥५८

केचित्संन्यासिनो भूत्वा केचिद्वै ब्रह्मचारिणः । जीवत्वं प्राप्तवन्तस्ते तथान्ये संक्षयं गताः ॥५९

बद्ध्वा तान्गजसेनादींस्त्रीञ्छूरान्स च तालनः । कृष्णांशेन समायुक्त इन्द्रदुर्गं समाययौ ॥६०

बलखानिं च निष्काश्य तालनस्तदनन्तरम् । पृष्टवान्कारणं सर्वं श्रुत्वा तन्मुखतो वचः ॥

तान्वीरांस्ताडयामास वेतसैः स्तम्भबन्धनैः

॥६१

गजमुक्ताज्ञया विप्र सेनापतिरुदारधीः । तालनस्तान्समुत्सृज्य विवाहार्थं समाययौ ॥

बलखानिर्हयारूढो गजमुक्ता च मण्डपे

॥६२

गजसेनस्तदा दिव्यैर्भोजनैस्तानभोजयत् । निवास्य लोहदुर्गं तान्कपाटः^२ सुदृढीकृतः ॥

लक्षशूरान्स संस्थाप्य स्वयं रुद्रपुरं ययौ

॥६३

ते रात्रौ लोहदुर्गेषु ह्यपित्वा यस्नतो बलात् । प्रभाते च कपाटेन द्वारं दृष्ट्वा तदाब्रवीत् ॥

अमृत-अश्व पर बैठकर वहाँ आया । उसके घोड़े के अंग से मेघ की भाँति तीन घोड़े प्रकट होकर जो तीनों देवों की भाँति दिखाई दे रहे थे, उस रणस्थल की अग्नि का शमन किये । पश्चात् उस प्रमुख घोड़े ने अग्नि को शान्त देखकर अपने मुख से लार टपकाया, जिससे वे सभी जीवित हो उठे । अग्नि के शांत होने एव शत्रु की सात लाख सेना को पुनः जीवित होकर सुसज्जित देखकर राजा गजसेन अपने दोनों पुत्रों समेत रात्रौ अंग्रेज शरण में गये । अगले दिन सुबह ही लोहदुर्ग के द्वारों को देखकर राजा ने कहा कि अंग्रेजों ने रात्रौ लोहदुर्ग के द्वारों को दृष्ट्वा तदाब्रवीत् ॥

द्वारमुद्घाटयाशु त्वं नो चेत्प्राणांस्त्यजिष्यसि ॥६४
 इति सेनापतिः श्रुत्वा लक्षशूरान्समादिशत् । नानायत्नैश्च हन्तव्याः शत्रवो भयकारिणः ॥६५
 इति श्रुत्वा तु ते शूराः शतघ्न्यस्तैः सुरोपिताः । एकैकं क्रमशो जघ्नुर्वृन्दं ते वैरतत्पराः ॥६६
 हते दशसहस्रे तु कृष्णांशो बिन्दुलं हयम् । समारुह्य जघानाशु स्वखड्गेन महद्वलम् ॥६७
 हतशेषा भयार्ताश्च सहस्राशीतिसम्मिताः । इन्द्रदुर्गं प्रति प्राहुर्यथा जातो बलक्षयः ॥६८
 श्रुत्वा भयातुरो राजा स्वसुताभ्यां समन्वितः । गजमुक्तां पुरस्कृत्य बहुद्रव्यसमन्विताम् ॥
 स्वपापं क्षालयामास दत्त्वा कन्यां विधानतः ॥६९
 षोडशोष्ट्राणि स्वर्णानि गृहीत्वाह्लाद एव सः । ययौ स्वगेहं महितः पुत्रभ्रातृसमन्वितः ॥७०
 सम्प्राप्ते गेहमाह्लादे देवी स्वर्णवती स्वयम् । इन्दुलं स्वाङ्कमारोप्य ललाप^१ करुणं बहु ॥७१
 मृताहं च त्वया पुत्रपुनरुज्जीविता खलु । धन्याहं कृतकृत्यास्मि जयन्त तव दर्शनात् ॥७२
 इति श्रुत्वेन्दुलो वीरो नत्वाह जननीं मुदा । अनृणं नाधिगच्छामि त्वतो मातः कदाचन ॥७३
 सम्प्राप्ते गेहमाह्लादे राजा परिमलः सुधीः । वाद्यानि वादयामास विप्रेभ्यश्च ददौ धनम् ॥७४
 इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये
 कलियुगीयेतिहाससमुच्चयौ नाम षोडशोऽध्यायः । १६

नायक से कहा गया कि—दरवाजे (के किंवाड़) को शीघ्र खोलवा दो, अन्यथा तुम्हें प्राण परित्याग करना पड़ेगा । ६३-६४। सेनानायक ने इसे सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि—‘इन भीषण शत्रुओं का सभी प्रकार से हनन करना आरम्भ हो । इतना सुनकर वे शूर वीरगण अपने शस्त्र तथा तोप आदि चलाने लगे । इन सबने भी सैनिक वृन्दों को छिन्न-भिन्न करके धराशायी करना आरम्भ किया । दशसहस्र सैनिक के निधन होने के उपरान्त उदयसिंह ने अपने बिन्दुल (बेंदुल) नामक अश्व पर आसीन होकर अपने खड्ग द्वारा उन सैनिकों का वध करना आरम्भ किया । शेष अस्सी महस्र सेना भयभीत

अथ सप्तदशोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

कृष्णांशोऽष्टादशाब्दे तु यथाजातं तथा शृणु । मृते कृष्णकुमारे तु भूपतौ रत्नभानुना ॥१
 महीराजः सुदुःखार्तो लक्षचण्डीमकारयत् । होमान्ते तु तदा देवी वागुवाच नृपं प्रति ॥२
 वर्षे वर्षे तु ते सप्त भविष्यन्त्यगसम्भवाः । कुमाराः कौरवांशाच्च द्रौपद्यंशाः सुता नृप ॥३
 इत्युक्ते वचने तस्मिन् राज्ञी गर्भमथो दधौ । कर्णाशश्च सुतो जातस्तारको बलवत्तरः ॥४
 द्वितीयाब्दे तथा जाते दुःशासनशुभांशतः । नृहरिरिति विख्यातस्तृतीयाब्दे तु चाभवत् ॥५
 उद्धर्षाशः सरदनो दुर्मुखांशस्तु मर्दनः । विकर्णाशः सूर्यकर्मा भीमश्चांशो विविंशतेः ॥६
 वर्द्धनश्चित्रबाणांशो वेला तदनु चाभवत् । यथा कृष्णा तथा सैव रूपचेष्टागुणैर्मुने ॥७
 भुवि तस्यां च जातायां भूकम्पो दारुणोऽभवत् । अट्टाट्टहासमशिवं चामुण्डा खे चकार ह ॥
 रक्तवृष्टिः पुरे चासीदस्थिशर्करया युता ॥८

ब्राह्मणाश्च समागत्य जातकर्मादिकां क्रियाम् । कृत्वा नाम तथा चक्रे शृणु भूमिप साक्षरम् ॥९
 इला च शशिनो माता विकल्पेनाऽभवद्भुवि । तस्माद्वेलेति विख्याता कन्येयं रूपशालिनी ॥१०

अध्याय १७

कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन

सूत जी बोले—उदयसिंह की अठारहवें वर्ष की अवस्था में जो कब्र मैंने देखा, मृता, तादें वृता, मृता

जातायां च सुतायां स पिता विप्रेभ्य उत्तमम् । ददौ दानं मुदा युक्तो वासांसि विविधानि च ॥११
 द्वादशाब्दवयः प्राप्ते सा सुता वरवर्णिनी । उवाच पितरं नम्रा शृणु त्वं पृथिवीपते ॥१२
 मण्डपे रक्तधाराभिर्यो मां संस्नापयिष्यति । द्रौपद्या भूषणं दाता स मे भर्ता भविष्यति ॥१३
 स्वर्णपत्रे तदा राजा पद्यं वेलामखोद्भवम् । लिखित्वा तारकं प्राह त्वमन्वेष्य तत्पतिम् ॥१४
 सार्द्धं लक्षत्रयं द्रव्यं गृहीत्वा लक्षसैन्यकः । नृपान्तरं ययौ शीघ्रं तारकः पितुराज्ञया ॥१५
 सिन्धुस्थाने चार्यदेशे भूपं भूपं ययौ बली । न गृहीतं नृपैः कैश्चित्तद्वाक्यं घोरमुल्बणम् ॥
 महीपतिं स सम्प्राप्य मातुलं तद्वचोऽब्रवीत् ॥१६
 श्रुत्वा स आह भो वीर ब्रह्मानन्दो महाबलः । स च वाक्यं प्रगृह्णीयादाह्लादाद्यैः सुरक्षितः ॥१७
 किं त्वया विदितं नैव चरितं तस्य विश्रुतम् । भवान्पड्भन्धुसहितः कृष्णांशाद्यैर्विवाहितः ॥१८
 ते सर्वे वशागास्तस्य ब्रह्मानन्दस्य धीमतः । नास्ति भूमण्डले कश्चित्तद्वलेन समो नृपः ॥१९
 इति श्रुत्वा ययौ तूर्णं तारकः स्वबलैः सह । तत्पद्यं कथयित्वाप्रे हस्तबद्धस्तदाभवत् ॥२०
 कृष्णांशस्तु गृहीत्वाशु पद्यं वाक्यमुवाच ह । अहं विवाहयिष्यामि ब्रह्मानन्दं नृपोत्तमम् ॥२१
 तूर्णीं भूतास्तदा सर्वे तारकः स द्विजैः सह । अभिषेकं तदा कृत्वा स्वगेहं पुनराययौ ॥२२
 माघमासे सिते पक्षे त्रयोदश्यां सुवासरे । विवाहलघ्नं शुभदं वरकन्यार्थयोस्तदा ॥२३

का 'बेला' (अर्थात् वह इला का ही रूपान्तर है) नामकरण हुआ । उसके उत्पन्न होने पर उसके पिता ने अत्यन्त हर्ष प्रकट करते हुए ब्राह्मणों को उत्तम अनेक भाँति के वस्त्रों समेत दान प्रदान किया । बारह वर्ष की अवस्था में उस उत्तम कन्या ने अपने पिता से कहा—'आप मेरी बात सुनें, पृथिवीपते ! 'मण्डप में रक्त की धारा पर जो मुझे शयन करायेगे, वही मुझ द्रौपदी को भूषण प्रदान करने वाला पुरुष मेरा पति हो सकेगा ।' बेला के मुख से निकले हुए इस पद्यांश को सुवर्ण के पत्र में अंकित कराकर राजा ने तारक को देने का कन्या-कृत्य के लिए दान शक्ति के पति का अन्वेषण करे । पञ्चाव तारक ने अपने पिता की

सप्तलक्षबलैः सार्द्धं लक्षणश्च सतालनः । महावतीं पुरीं प्राप्तो बली परिमलादिभिः ॥२४
 आह्लादो लक्षसैन्याद्वयः कृष्णांशेन समन्वितः । बलखानिर्लक्षसैन्यः संयुतः मुखखानिना ॥२५
 नेत्रसिंहो लक्षसैन्यो योगभोगसमन्वितः । रणजिच्च बली बालो द्विलक्षबलसंयुतः ॥२६
 एवं द्वादशलक्षाणां सैन्यानामधिपो बली । तालनः सिंहिनीसंस्थो वडवां प्रययौ सह ॥२७
 सैन्यैर्द्वादशलक्षैश्च सहितस्तालनो बली । आययौ देहलीप्रामे महीराजानुपालिते ॥२८
 देवो मनोरथारूढौ बिन्दुलस्थः स कृष्णकः । वडवामृतमासाद्य स्वर्णवत्याः सुतो गतः ॥२९
 रूपणश्च करालस्थ आह्लादश्च पपीहके । बलखानिः कपोतस्थो हरिणस्थोऽनुजस्ततः ॥३०
 रणजिन्मलनापुत्रः संस्थितो हरिनागरे । पञ्चशब्दगजारूढो महावत्यधिपो गतः ॥३१
 विमानवरमारूढ्य धीवरैः शतवाहिकैः । मणिमुक्तास्वर्णमयं सहस्रैर्वाद्यकैर्युतम् ॥३२
 अयुतैश्च पताकैश्च^१ वेत्रपाणिसहस्रकैः । सहस्रैः शिबिकाभिश्च पञ्चासाहस्रकै रथैः ॥३३
 शकटैर्महिषोदैस्तु तथा पञ्चसहस्रकैः । सर्वतोपस्कृतं^२ रम्यं ब्रह्मानन्दं समागतः ॥३४
 श्रुत्वा कोलाहलं तेषां महीराजो नृपोत्तमः । विस्मितः स भभूवात्र शिबिराणि मुदा ददौ ॥३५

हुआ ॥२३॥ उस बारात में प्रस्थान करने के लिए सात लाख सैनिक समेत तालन मंहावती (महोबा) नगर में पहुँचे, लाख सैनिक समेत आह्लाद (आल्हा) और उदयसिंह, मुखखानि के साथ, लाख सैनिक लेकर बलखानि (मलखान), योग-भोग (योगा-भोगा) समेत लाख सैनिक लेकर नेत्र सिंह, और दो लाख सेना समेत रणविजयी बाल बली वहाँ पहुँचे । इस प्रकार बारह लाख सेना समेत उसके अध्यक्ष तालन ने अपनी सिंहिनी घोड़ी पर बैठकर उन बारह लाख सेनाओं का संचालन करते हुए पृथिवीराज के दिल्ली नगर में आकर सैनिकों को विश्राम के लिए आज्ञा प्रदान की । उस यात्रा में देवसिंह मनोरथ (मनोहर) नामक घोड़े पर, उदयसिंह बिन्दुल (बेंदुल) पर, स्वर्णवती (सोना) का पुत्र इन्दुल (इंदल) अपनी शकट घोड़ी पर, रणजिन्मलना पर, आह्लाद (आल्हा) पपीहका पर, बलखानि (मलखान) कपोत

दुर्गद्वारिक्रियां रम्यां कृत्वा विधिविधानतः । द्रौपद्या भूषणं देहि बेलायै स तमन्नवीत् ॥३६
 इन्दुलस्तु ययौ स्वर्गं वासवं प्रति चाब्रवीत् । द्रौपद्याभूषणं सर्वं देहि मह्यं सुरोत्तम ॥३७
 कुबेरात्स समानीय दिव्यमाभूषणं ददौ । इन्दुलः प्रहरान्ते च प्राप्तः पित्रे न्यवेदयत् ॥३८
 आह्लादस्तु स्वयं गत्वा बेलायै भूषणं ददौ । प्राप्ते ब्राह्मे मुहूर्ते तु विवाहस्तत्र चाभवत् ॥३९
 सम्प्राप्ते प्रथमावर्ते तारकः खड्गमाददौ । आह्लादस्तं समासाद्य युयुधे बहुलीलया ॥४०
 नृहरिस्तु द्वितीये च कृष्णांशं प्रति चारुधत् । तथा सरदनं वीरं बलखानिरुपाययौ ॥४१
 मर्दनं सुखखानिस्तु चतुर्थवर्तकेऽरुधत् । रणजित्सूर्यवर्माणं स भीमं रूपणो बली ॥
 देवस्तु वर्धनं वीरं सप्तावर्ते क्रमाद्ययौ ॥४२
 शतभूपान्खड्गधरानाजसेनादिकांस्तदा । लक्षणाद्याः समाजग्मुर्मण्डपे बहुविस्तृते ॥४३
 भग्नभूतं नृपबलं दृष्ट्वा राजा र्षान्वितः । महीराजो ययौ रूडो गजं चारिभयङ्करम् ॥४४
 जित्वा तान्नेत्रसिंहादीञ्छब्बवेधी नृपोत्तमः । लक्षणं प्रययौ शीघ्रं बौद्धिनीं हस्तिनीं^१ स्थितम् ॥४५
 शिवं मनसि संस्थाप्य जित्वा बद्ध्वा र्षान्वितः । अगमत्तमुपगृह्य दर्शयामास तं नृपम् ॥४६

(कन्या) के लिए द्रौपदी के सभी आभूषण भेजने की कृपा करें ।' इसे सुनकर इन्दुल (इंदुल) ने स्वर्ग में इन्द्र के पास पहुँचकर उनसे कहा—सुरश्रेष्ठ ! द्रौपदी के सभी आभूषण मुझे दिलवाने की कृपा करें ।' इन्दुल ने उसी समय कुबेर के यहाँ से द्रौपदी के सभी आभूषणों को मंगाकर इन्हें सौंप दिया । उसे लेकर इन्दुल ने पुनः एक प्रहार के भीतर ही अपने पिता के पास पहुँचकर निवेदनपूर्वक उसे सौंप दिया । आह्लाद (आल्हा) ने स्वयं वहाँ जाकर उन आभूषणों को सानुराग बेला के लिए भिजवाया । पश्चात् ब्राह्म मुहूर्त में विवाह-संस्कार भी आरम्भ हुआ । प्रथम भाँवरि के समय तारक (ताहर) ने खड्ग से वर (ब्रह्मानन्द) के ऊपर आघात किया, किन्तु आह्लाद (आल्हा) ने शीघ्र वहाँ पहुँचकर उस प्रहार को

श्रुत्वा परिमलो राजा कृष्णांशं भीरुको ययौ । वृत्तान्तं कथयामास चाल्लादादिपराजयम् ॥४७
 अजितः स च कृष्णांशो नभोमार्गेण मन्दिरम् । गत्वा जगर्ज बलवान्योगिन्यानन्ददायकः ॥४८
 तदा स लक्षणो वीरस्त्यक्त्वा बन्धनमुत्तमम् । विष्णुं मनसि संस्थाप्य महीराजं समाययौ ॥४९
 गृहीत्वा चागमां दोलां स्वयं शिबिरमाप्तवान् ॥५०
 एतस्मिन्नन्तरे सर्वे त्यक्त्वा मूर्च्छां समन्ततः । खड्गपुद्गेन ताञ्जित्वा बद्ध्वा तान्निगडैर्दृढैः ॥५१
 सान्त्वयाञ्छतभूपांश्च हत्वा तद्गुधिरावहैः । द्रौपदीं स्नापयामासुर्वेलारूपां कलोत्तमाम् ॥५२
 विवाहान्ते च ते सर्वे शिबिराणि समाययुः । समुत्सृज्य सुतान्सप्त सुभोज्यैस्ते ह्यभोजयन् ॥५३
 भुक्तवत्सु सुवीरेषु साहस्रास्तैः सुतैः सह । रुधुः सर्वतो जघ्नुरस्त्रशस्त्रैः समन्ततः ॥५४
 सहस्रशूरांस्तान्हत्वा पुनर्बद्धा महाबलान् । शिबिराणि समाजग्मुस्तेषां हास्यविशारदाः ॥५५
 दशलक्षमुवर्णानि गृहीत्वा नृपतिर्बली । वेलां नवोढामादाय गत्वा नत्वा तमब्रवीत् ॥५६
 प्रद्योतमुत हे राजल्लक्षणोऽसौ महाबलः । मम पत्नीं समादाय दासीं कर्तुं समिच्छति ॥५७
 इति श्रुत्वा परिमलः सर्वभूपसमन्वितः । बहुधा बोधितश्चैव न बुबोध तदा नृपः ॥५८
 तदा महासती वेला विललाप भृशं मुहुः । तच्छ्रुत्वा स च कृष्णांशः सहितो बलखानिना ॥

भयभीत होकर उदयसिंह से कहा—आल्लाद (आल्हा) आदि सभी राजा पृथ्वीराज के युद्ध में पराजित हो गये हैं, अजेय उदयसिंह ने शीघ्र आकाशमार्ग से राजा के महल में पहुँचकर अत्यन्त गर्जना की । योगिनी के आनन्द प्रदाता उदयसिंह के उस भीषण गर्जना से वीर लक्षण (लाखन) ने रोष में आकर अपने बंधनों को तोड़ दिया और मन में विष्णु का ध्यान करके पृथ्वीराज के महल में शीघ्र पहुँचकर रानी अगमा को डोला के साथ में लेकर अपने शिविर में लौट आये । उसी बीच सभी लोगों में मूर्च्छान्ष्ट होकर चेतना आ गई थी, वे अपने-अपने खड्ग आदि अस्त्रों को लेकर शत्रु की सेना को धराशायी करने

- तामाश्रास्य तदा बेलां नभोमार्गेण चाययौ ॥५९
 लक्षणं तर्जयित्वासौ गृहीत्वा चागमन्मुदा । नभो मार्गेण गेहे तं कृष्णांशः समपेषयत् ॥६०
 पुनस्त्यक्त्वा सप्त सुतान्सहितान्नृपतेस्तु ते । शपथं कारयामासुर्दम्भं प्रति महाबलाः ॥
 उषित्वा दशरात्रान्ते दध्युर्गतुमनो मुने ॥६१
 महीराजस्तु बलवान्गृहीत्वा भूपतेः पदौ । स उवाचाश्रुपूर्णाक्षस्तदा परिमलं नृपम् ॥६२
 महाराज बधूस्ते च बेलेयं द्वादशाब्दिका । पितृमातृवियोगं च न क्षमन्ती तु बालिका ॥६३
 तस्मात्तां त्वं परित्यज्य गच्छ गेहं सुखी भव । पतियोग्या यदा भूयात्तदा त्वां पुनरेष्यति ॥६४
 इत्युक्त्वा च बचो राजा स स्नेहादङ्गुलमस्पृशत् । चूर्णीभूते परिमले चाह्लादस्तत्र दुःखितः ॥
 महीराजं स पस्पर्श स राजा चूर्णतां गतः ॥६५
 भग्रास्थी भूपती चोभौ पावकीयैश्चिकित्सकैः । सुखवन्तौ गृहं प्राप्य कृतकृत्यत्वमागतौ ॥६६
 मलना स्वसुतं दृष्ट्वा प्राप्तमुद्राहितं गृहे । कृत्वोत्सवं बहुविधं विप्रेभ्यश्च ददौ धनम् ॥
 होमं वै कारयामास चण्डिकायाः प्रसादतः ॥६७
 सभायां लक्षणो बीरो यात्राकाले तमब्रवीत् । अगमां जयचन्द्राय मत्वा जित्वा हृतां तु ताम् ॥
 नभोमार्गेण सम्प्राप्तौ योगिनौ च शिवाज्ञया ॥६८

उदयसिंह और बलखानि (मलखान) ने बेला को आश्वासन प्रदानपूर्वक आकाशमार्ग से लक्षण (लखन) के पास पहुँचकर उनकी भर्त्सना की। अनन्तर अगमा को लेकर आकाशमार्ग द्वारा उदयसिंह ने उन्हें उनके महल पहुँचा दिया और शिविर में आकर पृथ्वीराज के सातों पुत्रों को भी मुक्तबंधन कर दिया। उन पुत्रों ने बंधन-मुक्त होने पर पुनः दम्भ न करने की शपथ की। मने ! इस भाँति राजा परिमल बदाँ

जहतुस्तौ च मां जित्वा तत्तीक्ष्णभयमोहितम् । अद्याहं धाम गच्छामि चिरं जीव नृपोत्तम ॥

इत्युक्तवन्तं तं नत्वा ययुर्भूपाः स्वमालयम्

॥६९

इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपयग्ये

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम सप्तदशोऽध्यायः । १७

अथाष्टादशोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

विंशाब्दे चैव कृष्णांशे यथा जातं यथा शृणु । सागराख्यसरस्तीरे कदाचिदिन्दुलो बली ॥

जप्त्वा सप्तशतीस्तोत्रं तत्र ध्यानान्वितोऽभवत्

॥१

एतस्मिन्नन्तरे हंसा आकाशाद्भूमिमागताः । तेषां च रुतशब्दैश्च स ध्यानादुत्थितोऽभवत् ॥२

वक्ष्यमाणं वचः प्राहुर्धन्योऽयं दिव्यविग्रहः । पर्वतानां हिमगिरिर्वनं वृन्दावनं तथा ॥३

महावती पुरीणां च सागरः सरसामपि । नारीणां पद्मिनी नारी नृणां श्रेष्ठस्त्वमिन्दुलः ॥४

भो इन्दुल महाप्राज्ञ मानसे सरसि स्थिताः । वयं श्रुत्वा श्रियो वाक्यं नलिनी सागरं गताः ॥५

दृष्ट्वा तत्र शुभां नारीं सर्वाभरणभूषिताम् । सप्तालिभिर्युतां रम्यां गीतनाट्यविशारदाम् ॥६

चुका था) पश्चात् प्रसन्नतापूर्ण होकर राजा ने विदा माँगी—नृपश्रेष्ठ ! आप चिरंजीवी हों, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिये, मैं आज घर जाना चाहता हूँ । उनके जाने के पश्चात् सभी नृपगण राजा परिमल से सप्रेम तमस्कार पूर्वक विदा होकर अपने-अपने घर गये । ६९

श्री भविष्यपुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

दृष्ट्वा मोहत्वमापन्ना वयं देशान्तरं गताः । विलोकिता नराः सर्वेऽत्रास्माभिर्जगतीतले ॥
 त्वत्समो न हि कोऽप्यत्र पद्मिनी सदृशो वरः ॥७
 तस्मात्त्वं नः समारुह्य तां देवीं द्रष्टुमर्हसि । तथेत्युक्त्वा शक्रमुतो हंसराजं समारुहत् ॥८
 सिंहलद्वीपके रम्ये ह्यार्यसिंहो नृपः स्थितः । तत्सुता पद्मिनी नाम्ना रूपयौवनशालिनी ॥
 रागिण्यः सप्त विख्यातास्तत्सख्यः प्रमदोत्तमाः ॥९
 नलिनीसागरे रम्ये गिरिजामन्दिरं शुभम् । तत्र स्थितां च तां देवीमिन्दुलः स ददर्श ह ॥१०
 सापि तं मुन्दरं दृष्ट्वा हंसदेहे समास्थितम् । सम्मोह्याहूय तं देवं तेन सार्द्धमरीरमत् ॥११
 वर्षमेकं ययौ तत्र नानालीलामु मोहितः । नक्तं दिवं न बुबुधे रममाणस्तथा सह ॥१२
 भक्तिगर्वत्वमापन्ने चाल्लादे जगदम्बिका । दृष्ट्वा चान्तर्दधे देवी गर्वाचरणकुण्ठिता ॥१३
 तस्य प्राप्तं महद्दुःखमाल्लादस्य जयैषिणः । स कैश्रित्युरुषैर्वीरः कथितोऽभूत्स्वमन्दिरे ॥१४
 इन्दुलं रूपसम्पन्नं लङ्कापुरनिवासिनः । राक्षसास्तं समाहृत्य स्वगेहं शीघ्रमाययुः ॥१५
 इति श्रुत्वा वचो घोरं सकुलो विललाप ह । हा हा शब्दो महांश्रासीत्तेषां तु रुदतां मुने ॥१६
 कृष्णांशो रुदितं प्राहाल्लाद ज्येष्ठं शृणुष्व भोः । जित्वाहं राक्षसान्सर्वास्तालनाद्यैः समन्वितः ॥
 इन्दुलं त्वां समेष्यामि भवान्धैर्यपरो भवेत् ॥१७
 बलखानिश्च कृष्णांशो देवसिंहश्च तालनः । सप्तलक्षबलैः सार्द्धं लङ्कां प्रतिययुर्मुदा ॥१८

उपस्थित थी, गायन एवं नाट्य-निपुणा उस स्त्री को देखकर मोहित होकर हम लोग देश-देशान्तरों में भ्रमण किये, इस धरातल के सभी मनुष्यों को देखा, किन्तु तुम्हारे समान पुरुष पद्मिनी के समान कोई स्त्री नहीं है, अतः हमारे ऊपर बैठकर आप वहाँ चलने की कृपा करें तो बड़ी प्रसन्नता होगी । इन्दुल भी स्वीकार कर हंसराज की पीठ पर बैठा । ६-८। रमणीक सिंहलद्वीप में आर्य सिंह नामक राजा राज करता

मार्गप्राप्ताश्च ये भूपा ग्रामपा राष्ट्रपास्तथा । यथायोग्यं बलिं रम्यं प्राप्य तस्मै न्यवेदयन् ॥१९
 ये भूपा मदमत्ताश्च जित्वा तांस्तालनो बली । बद्ध्वा तैश्च समागच्छत्सेतुबन्धं शिवस्थलम् ॥२०
 पूजयित्वा च रामेशं रामेण स्थापितं शिवम् । सिंहलद्वीपमगमन्षण्मासाभ्यन्तरे तदा ॥२१
 नलिनीसागरं प्राप्य तत्र वासमकारयन् । पत्रं सम्प्रेषयामास बलखानिर्नृपाय च ॥२२
 आर्य्यसिंह महाभाग स्वपोतान् देहितीर्णकान् । भवांश्च स्वबलैः सार्द्धं लङ्कां प्रति व्रजाधुना ॥
 नो चेत्त्वां सबलं जित्वा राष्ट्रभङ्गं करोम्यहम् ॥२३
 इति श्रुत्वा पत्रवचो भूपतिर्बलवत्तरः । रक्षितः शक्रपुत्रेण युद्धाय समुपाययौ ॥२४
 इन्दुलः स्तम्भनं मन्त्रं संस्थाप्य शर उत्तमे । स्तम्भयामास तत्सैन्यं तालनाद्यैः सुरक्षितम् ॥२५
 दिवसे सुखशर्मा च त्रिलक्षैः स्वदलैः सह । आर्य्यसिंहस्य तनयो महद्युद्धमचीकरत् ॥२६
 निशामुखे च सम्प्राप्ते शक्रपुत्रो महाबलः । शतपुत्रैः क्षत्रियाणां सार्द्धं युद्धाय चाययौ ॥२७
 तेषां हया हरिद्वर्णा योगिवेषधरा बलात् । महतीं ते सहस्रं च रिपोः सेनां व्यनाशयन् ॥
 तत्पश्चाद्गेहमासाद्य तदा तैः सुखितोऽवसत् ॥२८
 एवं जाताश्च षण्मासास्तयोर्युद्धं हि सेनयोः । क्रमेण संक्षयं प्राप्तं बलखानेर्महद्वलम् ॥२९
 इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये
 कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८

तालन ने अपनी सात लाख सेना समेत लंका के लिए प्रस्थान किया । मार्ग में जो राजा मिल जाते थे, वे उचित भेंट प्रदानपूर्वक इन लोगों की प्रार्थना करते थे, और जो अपने मद में मुग्ध रहते थे, बली तालन उन्हें पराजित करके हथकड़ी-बेड़ी से आबद्ध उन्हें साथ लिए चल रहे थे । इस प्रकार वे सेतुबन्ध के शिवालय के मगधीप पहुँच गये । वहाँ आगत्य राम द्वारा स्थापित रामेश्वर की स्तुति करने लगे ।

अथैकोनविंशोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

दृष्ट्वा सैन्यनिपातं च बलखानिर्महाबलः । सम्प्राप्य मानसीं पीडां युद्धार्थं विमुखोऽभवत् ॥१
 देवसिंहं समाहूय त्रिकालज्ञं महामतिम् । तं मन्त्रं मन्त्रयामास कार्यसिद्धिर्यथा भवेत् ॥
 श्रुत्वोवाच महायोगी देवसिंहो महाबलः ॥२
 महेन्द्रतनयः कश्चित्सर्वशस्त्रास्त्रकोविदः । त्वत्सैन्यं रोधयित्वा वै दिव्यास्त्रेण दिवामुखे ॥
 रात्रौ स्वयं समागम्य करोति बलसंक्षयम् ॥३
 अतस्त्वं मत्सहायेन तालनेन समन्वितः । कृष्णांशेन समागम्य शक्रपुत्रं शुभाननम् ॥
 विजयी भव शीघ्रं हि नो चेद्यायां यमक्षयम् ॥४
 इति श्रुत्वा वचस्तस्य देवसिंहस्य भाषितम् । यत्नं चकार बलवान्भ्रातृमित्रसमन्वितः ॥५
 एकविंशाब्दकृष्णांशे सम्प्राप्ते युद्धकोविदे । सेनां निवेशयामास पोतेषु ह्यवाहनः ॥६
 अर्द्धसैन्यं च तत्रैव स्थापयित्वा महाबलः । अर्द्धसैन्येन कृष्णांशो दक्षिणां दिशमागमत् ॥७
 ह्यारूढाश्च ते शूराः सर्वे युद्धसमन्विताः । कपाटं दृढमुद्धाट्य नगरान्तमुपाययुः ॥८
 हत्वा ते रक्षिणः सर्वाल्लुण्ठयित्वा पुरं शुभम् । रिपोर्दुर्गं समासाद्य चक्रुः शत्रोर्महाक्षयम् ॥९

अध्याय १९

कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन

राज्ञोऽन्तः पुरमागत्य कृष्णांशो बलवत्तरः । ददर्श सुन्दरीं बालां पद्मिनीं पद्मलोचनाम् ॥
सप्तालिभिर्भ्युतां रम्यां गीतनृत्यविशारदाम् ॥१०
बलाद्दोलां समारोप्य लुण्ठयित्वा रिपोर्गृहम् । जगाम शिबिरे तस्मिन्यत्र जातो महारणः ॥११
बलखानिस्तु बलवान्देवतालनसंयुतः । जधान शात्रवीं सेनामिन्दुलास्त्रेण पालिताम् ॥१२
सुखवर्माणमागत्य सेनपध्यक्षं रिपोः सुतम् । सर्वतस्तं स्वकीयास्त्रैर्जघ्नुस्ते मदविह्वलाः ॥१३
हते तस्मिन्महावीर्ये जयन्तः क्रोधमूर्च्छितः । सेनामुज्जीवयांचक्रे शक्रपुत्रः प्रतपवान् ॥१४
श्यालं च सुखवर्माणं सञ्जीव्य स्वगृहं ययौ । तत्र दृष्ट्वा जनान्सर्वान्बहुरोदनतत्परान् ॥१५
विस्मितः स ययौ गेहं यथा पूर्वं तथाविधः । न ददर्श प्रियां तत्र सखीभिः सहितां मुने ॥१६
आर्य्यसिंहगृहं गत्वा पृष्टवान्सर्वकारणम् । ज्ञात्वा संलुण्ठितं गेहं शत्रुभिः शस्त्रकोविदैः ॥१७
हरोद सुभृशं वीरो हा प्रिये मदविह्वले । दर्शयाद्य मुखं रम्यं त्वत्पतिस्त्वां समुत्सुकः ॥१८
इत्येवं रोदनं कृत्वा वडवोपरि संस्थितः । धनुस्तूणीरमादाय खड्गं शत्रुविमोहनम् ॥
एकाकी स ययौ क्रुद्धो निशि यत्र स्थितो रिपुः ॥१९
एतस्मिन्समये वीरो बलखानिर्महाबलः । दृष्ट्वा तां सुन्दरीं बालां विललाप भृशं मुहुः ॥२०
हा इन्दुल महावीर हा मद्बन्धो प्रियङ्कर । त्वद्योग्येयं शुभा नारी रूपयौवनशालिनी ॥२१
दर्शनं देहि मे शीघ्रं गृहाणाद्य शुभाननाम् । इत्युक्त्वा मूर्च्छितो भूत्वा मानसे पूजयञ्छिवाम् ॥२२

अन्तःपुर में उदयसिंह पहुँच गये । वहाँ कमल के समान विशाल नेत्रवाली उस सुन्दरी पद्मिनी नारी को देखकर, जो अपनी सातों सखियों समेत नृत्य-गायन में ही समय व्यतीत किया करती थी, सखियों समेत उसके डोले को साथ ले अपने शिविर में चले आये, जहाँ वह भीषण युद्ध हुआ था । इधर बलवान् बलखानि (मलखान) ने देव और तालन की सहायता से इन्दुल की अध्यक्षता में संग्राम करने वाली उस

तस्मिन्काले च सम्प्राप्तः शक्रपुत्रो महाबलः । जघान शात्रवीं सेनां कृष्णांशेनैव पालिताम् ॥२३
 दृष्ट्वा सैन्यनिपातं च तालनो वाहिनीपतिः । सिंहनादं ननादोच्चैः सिंहिन्युपरि संस्थितः ॥२४
 न जयः सैन्यनाशेन तव वीर भविष्यति । मां हत्वा जहि मत्सैन्यं योगिन्बालस्वरूपक ॥२५
 इति श्रुत्वा वचस्तस्य शक्रपुत्रो भयङ्करः । जघान हृदये बाणान्स तु खड्गेन चाच्छिनत् ॥
 स्वभल्लेन पुनर्वीरो दंशयामास वक्षसि ॥२६
 इन्दुले मूर्च्छिते तस्मिन्बडवा दिव्यरूपिणी । आकाशोपरि सम्प्राप्य जयन्तं समबोधयत् ॥२७
 तदा स बालस्त्वरितः कालास्त्रं चाप आदधे । तेन जातो महाञ्छब्दस्तालनः स ममार ह ॥२८
 मृते सेनापतौ तस्मिन्कृष्णांशो मदविह्वलः । नभोमार्गेण सम्प्राप्य जगर्ज च मुहुर्मुहुः ॥२९
 इन्दुलः क्रोधताम्राक्षस्त्वाग्नेयं शरमाददे । वह्निभूतं नभस्तत्र स्वयोगेन महाबलः ॥
 कृत्वा शीघ्रं ययौ शत्रुं स तु वायव्यमादधे ॥३०
 स्वयोगेनैव कृष्णांशः पीत्वा वायव्यमुत्तमम् । पुनर्जगाम तत्पार्श्वं कलैकः^१ स हरेः स्वयम् ॥३१
 तथाविधं रिपुं दृष्ट्वा शक्रपुत्रो महाबलः । गन्धर्वास्त्रं समादाय मोहनायोपचक्रमे ॥३२
 पुनर्योगबलेनैव तदस्त्रं संक्षयं गतम् । वारुणं शरमादाय तस्योपरि समाक्षिपत् ॥३३
 स्वयोगेनैव कृष्णांशो जलं सर्वं मुखेऽकरोत् । एवं सर्वाणि चास्त्राणि पीत्वा पीत्वा पुनःपुनः ॥३४

(इन्दुल) ने उदयसिंह की अध्यक्षता में युद्ध करने वाली सेना का विध्वंस कर दिया । उपरान्त नायक तालन ने उस सेना को नष्ट होते देखकर सिंहिनी घोड़ी पर बैठकर सिंहनाद किया—वीर ! केवल सेनाओं के विध्वंस करने से तुम्हारी विजय नहीं होगी । बालस्वरूप योगिन् ! पहले मुझे धराणाधी करो । पश्चात् मेरी सेनाओं का हनन करो । उस भीषण इन्दुल ने इतना पुनःपुनः तालन के हृदय पर

ययौ शीघ्रं प्रसन्नात्मा बाहुशाली यतेन्द्रियः । इन्दु लस्तु तदा क्रुद्धोऽश्विनीं त्यक्त्वा भुवि स्थितः ॥

चर्म खड्गं गृहीत्वाशु खड्गयुद्धमचीकरत्

॥३५

एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ता देवाद्याः सर्वभूमिपाः । ददृशुस्तन्महद्युद्धं सर्वविस्मयकारणम् ॥३६

प्रातःकाले च सम्प्राप्ते बलखानिर्महाबलः । ददर्श बालकं रम्यं जटाजिनसमन्वितम् ॥३७

श्रमेण कर्षितो वीरः शक्रपुत्रः प्रतापवान् । बलखानेः पितुर्बन्धोः शपथं कृतवान्स्वयम् ॥३८

स्वखड्गेनैव कृष्णांश शिरस्तव हराम्यहम् । नो चेन्मे दूषिता माता नाम्ना स्वर्णवती सती ॥

इत्युक्त्वा खड्गमादाय ययौ शीघ्रं रुषान्वितः

॥३९

बलखानिस्तु तं ज्ञात्वा त्यक्त्वास्त्रं प्रेमकातरः । पुत्रान्तिकमुपागम्य वचनं चेदमब्रवीत् ॥४०

हे इन्दुल महाभाग पितृमातृयशस्कर । आह्लादप्राणसदृश स्वर्णवत्यङ्गमानस ॥४१

पूर्वं हत्वा च मां वीर स्वपितृव्यं ततः पुनः । तथैवोदयसिंहं च देवसिंहं तथा कुलम् ॥

सुखी भव महावीर गेहे वै सुखवर्मणः

॥४२

इति श्रुत्वा वचस्तस्य ज्ञात्वा च स्वकुलं शिशुः । त्यक्त्वा खड्गं पतित्वा च स्वपितृव्यस्य पादयोः ॥

कृतवान्रोदनं गाढमपराधनिवृत्तये

॥४३

उवाच मधुरं वाक्यं शृणु तात मम प्रिय । नारीयं दूषिता वेदैर्नृणां मोहप्रदायिनी ॥४४

देवो वा मानुषो वापि पन्नगो वापि दानवः । आर्य्यं नारीमयैर्जालैर्बन्धनाय समुद्यतः ॥४५

ने घोड़ी से उतर पृथिवी पर स्थित होकर खड्ग युद्ध करना आरम्भ किया । उसी बीच देवसिंह आदि राजाओं ने उस भीषण युद्ध की ओर दृष्टिपात किया, जिसे देखकर उन लोगों को महान् आश्चर्य हुआ । ३१-३६। प्रातःकाल होने पर महाबली बलखानि (मलखान) ने उस सुन्दर बालक (इन्दुल) को देखा, ने कर्षितो वीरः शक्रपुत्रः प्रतापवान् । बलखानेः पितुर्बन्धोः शपथं कृतवान्स्वयम् ॥३८। स्वखड्गेनैव कृष्णांश शिरस्तव हराम्यहम् । नो चेन्मे दूषिता माता नाम्ना स्वर्णवती सती ॥ इत्युक्त्वा खड्गमादाय ययौ शीघ्रं रुषान्वितः ॥३९। बलखानिस्तु तं ज्ञात्वा त्यक्त्वास्त्रं प्रेमकातरः । पुत्रान्तिकमुपागम्य वचनं चेदमब्रवीत् ॥४०। हे इन्दुल महाभाग पितृमातृयशस्कर । आह्लादप्राणसदृश स्वर्णवत्यङ्गमानस ॥४१। पूर्वं हत्वा च मां वीर स्वपितृव्यं ततः पुनः । तथैवोदयसिंहं च देवसिंहं तथा कुलम् ॥ सुखी भव महावीर गेहे वै सुखवर्मणः ॥४२। इति श्रुत्वा वचस्तस्य ज्ञात्वा च स्वकुलं शिशुः । त्यक्त्वा खड्गं पतित्वा च स्वपितृव्यस्य पादयोः ॥ कृतवान्रोदनं गाढमपराधनिवृत्तये ॥४३। उवाच मधुरं वाक्यं शृणु तात मम प्रिय । नारीयं दूषिता वेदैर्नृणां मोहप्रदायिनी ॥४४। देवो वा मानुषो वापि पन्नगो वापि दानवः । आर्य्यं नारीमयैर्जालैर्बन्धनाय समुद्यतः ॥४५।

सोऽहमाजन्मशुद्धस्य पितुराल्लादकस्य च । गेहे जातो जयन्तश्च शक्रपुत्रः स्वयं विभो ॥४६
 पद्मिन्या जनितं मोहं गृहीत्वा ज्ञातवान्न हि । क्षमस्व मम मन्दस्य शेषमज्ञानजं पितुः ॥४७
 इत्युक्त्वा स पुनर्बालो ररोद स्नेहकातरः । सेनामुज्जीवयामास तालनं च महाबलम् ॥४८
 इति श्रुत्वा वचस्तस्य कृष्णांशो वचनं शिशोः । परमानन्दमागम्य हृदये तमरोपयत् ॥

उत्सवं कारयामास तत्र देशे जने जने

॥४९

आर्य्यसिंहस्तु तच्छ्रुत्वा नानाद्रव्यसमन्वितः । ददौ कन्यां विधानेन पद्मिनीमिन्दुलाय वै ॥५०
 शतं ह्यांस्तथा नागान्मुक्तामणिविभूषितान् । कन्यार्थं तान्ददौ राजा जामात्रे बहुभूषणम् ॥५१
 प्रस्थानमकरोत्तेषां स प्रेम्णा वाक्यगद्गदः । ते तु सर्वे मुदा युक्ताः स्वगेहं शीघ्रमाययुः ॥५२
 उषित्वा भासमेकं तु तस्मिन्मार्गे भयानके । कीर्तिसागरमासाद्य चक्रुस्ते बहुधोत्सवम् ॥५३
 आल्लादस्तु प्रसन्नात्मा सुतं पत्नीसमन्वितम् । दृष्ट्वा विप्रान्समाहूय ददौ दानान्यनेकशः ॥५४
 दशहाराख्यनगरं सम्प्राप्तः स्वकुलैस्सह । कृष्णांशस्य महाकीर्तिर्जाता लोके जने जने ॥५५
 पृथ्वीराजस्तु तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं ययौ । सा तु वै पद्मिनी नारी दुर्वासः शापमोहिता ॥५६
 अप्सरस्त्वं स्वयं त्यक्त्वा भूमौ नारीत्वमागता । द्वादशाब्दप्रमाणेन सोषित्वा जगतीतले ॥५७

इसका पूर्ण अनुभव हो रहा है—यद्यपि मैं इन्द्र का पुत्र जयन्त हूँ, और पिता आल्लाद (आल्हा) के जो आजन्म विशुद्ध हैं, कुल में जन्म ग्रहण किया तथापि इस पद्मिनी के मोह में विभोर होकर मैंने इस पर ध्यान कभी नहीं दिया । अतः मुझ मन्दभागी एवं अज्ञानी का अपराध क्षमा करने की कृपा करें । इतना कहकर वह बालक स्नेह से अधीर होकर पुनः रुदन करने लगा । मैंने सेना समेत महाबली तालन को जीवित कर दिया है, उस बालक की इस बात को सुनकर उदयसिंह ने परमानन्द निमग्न होकर उसे अपने

यक्ष्मणा मरणं प्राप्य स्वर्गलोकमुपाययौ । नवमासान्कृतो वासस्तया चाह्लादमन्दिरे ॥५८
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥१९

अथ विंशोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

मुने पञ्चालदेशे तु राजासीद्वलवर्द्धनः । तस्य पत्नी विशालाक्षी जलदेवीति विश्रुता ॥१
बिसेनवंशभूपालो वेदतत्त्वविशारदः । सस्त्रीकः पूजयामास बरुणं यादसां पतिम् ॥२
तस्य पुत्रावुभौ जातौ क्षत्रधर्मपरायणौ । लहरो ज्येष्ठतनयो मयूरध्वज एव हि ॥३
द्वादशाब्दवया भूत्वा मयूरध्वज एव सः । आज्ञया ज्येष्ठबन्धोश्च स्कन्ददेवमतोषयत् ॥४
यतेन्द्रियस्तथा मौनी वानप्रस्थपरायणः । पञ्चाब्दं तद्व्रती भूत्वा जपध्यानपरोऽभवत् ॥५
तदा प्रसन्नो भगवान्सेनानीरग्निभूः स्वयम् । स्वरूपं दर्शयामास सर्वाश्रयसमन्वितम् ॥६
मयूरध्वज एवापि दृष्ट्वा सर्वमयं शिशुम् । देवसेनासहायं च तुष्टाव श्लक्ष्णया गिरा ॥७

तक वह इस जगत् में सुशोभित रही । तदुपरान्त यक्ष्मा रोग से पीड़ित होकर पुनः स्वर्ग चली गई ।
उसने आह्लाद (आल्हा) के महल में केवल नव मास ही निवास किया था ॥५३-५८

श्री भविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय वर्णन

मयूरध्वज उवाच

जयति ते वपुर्दिव्यविग्रहं नयति सर्वदा देवतागणान् ।

पिबति मात्रियं दुग्धमुत्तमं वधति सर्वदा दैत्यदानवान् ॥८

नमस्ते देवसेनेश महिषासुरमर्दन । षडानन महाबाहो तारकप्राणनाशक ॥९
 प्रसन्नो भव सर्वात्मन्गुहशक्तिधराव्यय । किङ्करं पाहि मां नित्यं शरणागतवत्सल ॥१०
 इति श्रुत्वा स्तुतिं तस्य सेनानीस्तमुवाच वै । किं तेऽभीष्टं नृपश्रेष्ठ मत्तः सर्वमवाप्स्यसि ॥११
 इत्युक्तस्तेन देवेन भूपतिः प्राह नम्रधीः । बलं मे देहि भगवन्सहायं कुरु सर्वदा ॥१२
 तथेत्युक्त्वा तु तं स्कन्दस्तत्रैवान्तर्दधे पुनः । स नृपस्तु प्रसन्नात्मा कारयामास वै पुरम् ॥१३
 नाम्ना मयूरनगरं नरवृन्दसमन्वितम् । द्वियोजनायामयुतं स्कन्ददेवेन रक्षितम् ॥१४
 लहरो नामा तद्वन्धुर्द्विदशाब्दप्रयत्नतः । वरुणं पूजयामास नदीनदसमन्वितम् ॥१५
 तदा प्रसन्नो भगवान्वरुणो यादसां पतिः । वरं ब्रूहीति वचनं प्रेम्णोवाच महीपतिम् ॥१६
 इति श्रुत्वाऽमृतमयं वचनं लहरो नृपः । तुष्टाव श्लक्ष्णया वाचा पाशिनं पयसां पतिम् ॥१७

लहर उवाच

यस्य चित्तं महज्ज्ञेयं तपो बलसमन्वितम् । अतः प्रचेतास्ते नाम नमस्तुभ्यं प्रचेतसे ॥१८
 रुणद्धि पयसां वेगं न केनाप्यवरोधितः । अतस्त्वं वरुणो नाम नमस्ते वरुणाय वै ॥१९
 दैत्यानां बन्धनार्थाय देवानां जयहेतवे । दिव्यः पाशस्त्वयानीतः पाशिने ते नमोनमः ॥२०

मयूरध्वज ने कहा—तुम्हारी इस दिव्य शरीर की जय हो, जो देवगणों का (सेनानी) रूप में संचालन करती हुई केवल अपनी माता के दुग्ध का ही पान करके समस्त दैत्य-दानवों का वध करती है । देवसेना के अधीश्वर, महिषासुर के विध्वंसक, छः मुख वाले, महाबाहो एवं तारकासुर के हन्ता आपको नमस्कार है । सर्वोत्तम ! गणकृतिधारी मयूर आप सदैव पसन्द करें तथा शरणागत वत्सल ! मया

इति स्तुतस्तदा देवो राज्ञा तेनैव धीमता । नगरीं कारयामास लाहरीमथ चोत्तमाम् ॥२१
 त्रियोजनायामयुतां चतुर्वर्णसमन्विताम् । स्वयं च ग्रामरक्षार्थं तत्रोवास जलाधिपः ॥२२
 भूपस्तु तत्प्रसादेन प्राप राज्ञीं शुभाननाम् । रावी नाम महाश्रेष्ठा ज्ञेया देवाङ्गनोपमा ॥२३
 तस्यां स जनयामास सुतान्षोडशसम्मितान् । धार्तराष्ट्रांशजान्मुख्यान्गजतुल्यबलान्वितान् ॥२४
 तत्पश्चात्कन्यका जाता नाम्ना मदनमञ्जरी । द्वादशाब्दवयःप्राप्ते सुतायाः स तु भूपतिः ॥२५
 देवसिंहं वरं मत्वा चन्द्रवंशिनमुत्तमम् । प्राहूय ज्येष्ठतनयं प्रेषयामास भूपतिः ॥२६
 रणधीरस्तु तनयो लक्षमुद्रान्वितो बली । सहस्रशूरसहितः प्राप्तवान्स महावतीम् ॥२७
 नत्वा परिमलं भूपं तदीयान्कुलशालिनः । स्वहेतुं वर्णयामास विवाहार्थं स्वसुः स्वयम् ॥२८
 श्रुत्वा परिमलो भूपो देवसिंहं महामतिम् । आहूय वचनं प्राह विवाहार्थं मनः कुरु ॥२९
 देवसिंहस्तु बलवान्पितृव्यं प्राह नम्रधीः । विवाहं न करिष्यामि ब्रह्मचर्यं व्रतं मम ॥३०
 बहुधा प्रार्थितस्सर्वैर्द्विजवृन्दसमन्वितैः । न तत्याज व्रतं श्रेष्ठं देवसिंहो महामतिः ॥३१
 तदा परिमलो भूपो रणधीरं वचोऽब्रवीत् । सुखखानिरयं बालो विवाहार्थं वदाम्यहम् ॥३२
 तथेति मत्वा स नृपो रणधीरो गृहं ययौ । पितरं कथयामास सुखखानिर्महाव्रतः ॥३३

इसलिए पाश अस्त्रधारी को बार-बार नमस्कार करता हूँ । इस प्रकार वरुणदेव की आराधना करके उस बुद्धिमान् राजा ने लहरी नामक नगरी का निर्माण करवाया जो तीन योजन में विस्तृत तथा चारों वर्णों के मनुष्यों से सुशोभित हो रही थी । उस नगरी के रक्षार्थ स्वयं वरुणदेव वहाँ निवास करते थे । तदुपरान्त राजा को वरुण देव की अनुकम्पावश कल्याणमुखी रानी की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रावी था, तथा जो अत्यन्त श्रेष्ठ देवांगना के समान रूप-यौवन सम्पन्न थी । राजा द्वारा उस रानी के गर्भ से सोलह पुत्ररत्न की उत्पत्ति हुई जो धृतराष्ट्र एवं कौरवों के अंग के लिये प्रेषित किये गये थे ।

एतस्मिन्नन्तरे धूर्तो महीपतिरुवाच तम् । अयोग्योऽयं विवाहोऽत्र पावकीये कुलोत्तमे ॥३४
 शूद्रयोऽत्र वरो राजन्वर्णसङ्करकारकः । तस्मात्त्वं सैन्यसहितो जेतुं तान्गन्तुमर्हसि ॥३५
 कारागारे लोहमये बन्धनं कुरु भूपतेः । मत्कीर्तिः स्वर्गगा नित्यं जगत्यन्ते भविष्यति ॥३६
 जितस्तैर्जम्बुको राजा नेत्रसिंहस्तु यो नृपः । तथा गजपतिर्भूपः पृथ्वीराजो महाबलः ॥३७
 आर्यसिंहस्तथान्ये च जितास्ते बलवत्तराः । इति श्रुत्वा बचो रम्यं लहरो नृपसत्तमः ॥३८
 सेनां संस्थापयामास चतुरङ्गबलान्विताम् । चतुर्लक्षमितां श्रेष्ठां पालितां षोडशात्मजैः ॥३९
 माघशुक्लदशम्यां च बलखानिं महाबलः । सम्प्राप्तः स्वकुलैस्साद्धं चतुर्लक्षबलान्वितम् ॥४०
 देशे पाञ्चालके रम्ये लहरीनगरे स्थितः । द्वादशाब्दे च कृष्णांशे तत्र वासमकारयत् ॥४१
 नृपतेराज्ञया शूरा युद्धाय समुपाययुः । बलखानिस्तु धर्मात्मा दृष्ट्वा शूरांस्तथागतान् ॥
 वीरानाज्ञापयामास स्वकीयान्सङ्गरे पुनः ॥४२
 तयोर्युद्धमभूद्धोरं सेनयोर्लोमहर्षणम् । पञ्चमेऽह्नि दिवा प्राप्ते बलखानिर्महाबलः ॥
 कृष्णांशेनैव सहितो रिपोर्वधमकारयत् ॥४३
 पराजिताश्च ते शूरा हतशेषा भयातुराः । तान्दृष्ट्वा षोडशसुता रथं स्वस्वं समास्थिताः ॥
 युद्धायाभिमुखं जग्मुर्धनुर्बाणविशारदाः ॥४४
 कृष्णांशास्तांस्तथा दृष्ट्वा शरवर्षसमन्वितान् । एकाकी प्रययौ शीघ्रं खड्गचर्मधरो बली ॥४५

पावकीय उत्तम कुल के योग्य वह विवाह नहीं है, क्योंकि वर शूद्र से उत्पन्न होने के नाते वर्णसंकर है, अतः उन पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना समेत वहाँ अवश्य गमन करो । भूपते ! उन्हें हथकड़ी-बेड़ी से बाँधकर इस लोहे के जेल में अवश्य करो, जिससे आपकी इस अन्तिम अवस्था में आपकी कीर्ति संसार में विचरण करती हुई स्वर्ग तक पहुँच जाये क्योंकि उन लोगों में राजा जम्बुक, राजा नेत्रसिंह, राजा

तेषां धनूषि सञ्छिद्य बद्ध्वां तान्युद्धदुर्मदान् । आह्लादाय ददौ वीरः कृष्णांशो रणकोविदः ॥४६
 पुत्राणां बन्धनं श्रुत्वा लहरो नृपसत्तमः । प्लावयामास तत्सैन्यं बलखानेर्महात्मनः ॥४७
 जलीभूते तथा सैन्ये जयन्तो बलवत्तरः । वायव्यास्त्रेण समरे शुशोष सकलं जलम् ॥
 लहरस्य ततः सेनामुवाह बहुयोजनम् ॥४८
 तदा तु भगवान्देवो वरुणो यादसां पतिः । सुतामुद्राहयामास लहरस्य महीपतेः ॥४९
 लहरोऽपि प्रसन्नात्मा ज्ञात्वांशं जगतीतले । भक्तिं चकार शुद्धानामंशानां परया मुदा ॥५०
 दत्त्वा च बहुधा द्रव्यं परिक्रम्य पुनःपुनः । स्वान्ते^१ निवेशयामास मासमात्रं प्रसन्नधीः ॥५१
 अंशास्तेऽपि महापूजां गृहीत्वा लहरप्रदाम् । दोलामारोप्य तां देवीं स्वगेहाय ययुर्मुदा ॥५२
 इति ते कथितं विप्र कृष्णांशचरितं शुभम् । सुखखानेर्विवाहं च श्रुत्वानन्दमवाप्नुयात् ॥५३

इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम विंशोऽध्यायः । २०

पहुँचकर उनके धनुष को नष्ट कर उन मदान्धों को बाँध लिया । पश्चात् रणपण्डित उदयसिंह ने उन्हें लाकर आह्लाद (आल्हा) को सौंप दिया । ४२-४६। अपने पुत्रों को आबद्ध सुनकर राजा लहर ने महात्मा बलखानि (मलखान) की सेना को जल के प्रवाह में प्रवाहित किया । बलवान् जयन्त ने सेना को जलरूप देखकर अपने वायव्य अस्त्र से शत्रु के सभी जल का शोषण कर दिया और उनकी सेना को अनेक योजन की दूरी पर पहुँचा दिया । उस समय जलाधिनायक भगवान् वरुण देव ने स्वयं राजा लहर की कन्या का विवाह संस्कार सुखखानि के साथ सुसम्पन्न कराया । इसे जानकर राजा लहर अत्यन्त प्रसन्न था और इस भवन में वे वरुणदेव के मूर्ति के लिए अनाम एवं अद्वयभक्त हो गये । तदनंतर अनेक वरुण

अथैकविंशोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

ऋषि उवाच

गृहं गत्वा च ते वीराः किं चक्रुश्चरितं शुभम् । तत्त्वं कथय विप्रेन्द्र सर्वज्ञोऽसि मतो हि नः ॥१

सूत उवाच

गृहमागत्य ते सर्वे परितो भूपतेः सभाम् । गत्वा वार्ता तथा चकुर्यथा जातो महारणः ॥२
 श्रुत्वा परिमलो भूपो वाजिवृन्दं क्षयं गतम् । आहूय स च कृष्णांशं वचनं प्राह नम्रधीः ॥३
 सिन्धुदेशे च गन्तव्यं त्वया च बलशालिना । पञ्चलक्षान्हयान्कृत्वा पुनरागच्छ वै गृहम् ॥४
 इति श्रुत्वा तु कृष्णांशो देवसिंहेन संयुतः । स्वर्णभारसहस्रोष्ट्रान्गृहीत्वा तरसा ययौ ॥५
 शूरैश्च दशसाहस्रैस्सार्द्धं तत्र समागतः । मयूरनगरी यत्र चतुर्वर्णसमन्विता ॥६
 प्रातःकाले तु सम्प्राप्ते मालाकारस्य वै सुता । पुष्पानाम समासन्ना चारम्भे कुसुमार्थिनी ॥७
 कृष्णांशस्तु तदा पूजां कृत्वा देवमयो मुदा । जगाम विपिनं रम्यं वसन्ते पुष्पनालिके ॥८
 बह्वाश्रययुतं पुष्पं मत्तभ्रमरनादितम् । दृष्ट्वा मुमोह कृष्णांशस्तदर्थे स्वयमुद्यतः ॥९
 एतस्मिन्नन्तरे पुष्पा पुष्पार्थे समुपागता । ददर्श देवसदृशं षोडशाब्दमयं नरम् ॥

अध्याय २१

कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन

प्रसन्नवदनं शान्तमिन्द्रनीलमणिद्युतिम् ॥१०
 कृष्णांशस्तु शुभां नारीं दृष्ट्वाश्रयमुपागतः । पप्रच्छ वचसा तां वै कस्येयं परमुन्दरी ॥
 स्वर्गलोकादिहायाता यदि वा पन्नगी स्वयम् ॥११
 इति श्रुत्वा च सा प्राह मालाकारस्य वै सुता । अहं शूद्री महाबाहो पुष्पार्थे समुपागता ॥१२
 पुष्पेणानेन भूपाल तुलिता भूपतेः सुता । नाम्ना पुष्पवती देवी राधेव सगुणावली ॥१३
 देवैश्च प्रार्थिता बाला रूपयौवनशालिनी । मकरन्दभयाद्देवास्तस्या योग्या न वै बलात् ॥१४
 शृणु तत्कारणं भूप मकरन्दो यथा भवेत् । मयूरध्वजभूपेन सम्प्राप्तो गुहतो वरः ॥१५
 अजेयोऽन्यैश्च कृष्णांशादृते त्वं जगतीतले । तन्मित्रं पृथिवीराजो राजराजः शिवप्रियः ॥१६
 स राज्यं कारयामास धर्ममेधं हरिप्रियम् । तदा प्रसन्नो भगवान्यज्ञेशो यज्ञमूर्तिमान् ॥१७
 मिथुनं जनयामास पावकात्मुन्दराननम् । मकरन्दः सुतो ज्ञेयः कन्या पुष्पवती मता ॥१८
 पञ्चमाब्दवया भूत्वा मकरन्दो महाबलः । तुष्टाव तपसा धर्मं वेदधर्मपरायणः ॥१९
 द्वादशाब्दवयः प्राप्ते मकरन्दे नृपप्रिये । प्रसन्नो भगवान्धर्मो ददौ तस्मै महाहयम् ॥२०
 शिलामयं महावेगं शत्रुसेनाक्षयङ्करम् । तमश्वं स्वयमारुह्य सर्वपूज्यो ह्यभूत्सुखी ॥२१
 तस्येदं मुन्दरं दिव्यं विपिनं सुरपूजितम् । भवानर्हति वै श्रेष्ठः पुष्पवत्याः कलेवरम् ॥२२

सम्पन्न, प्रसन्नमुख, शान्त और इन्द्रनील मणि की भाँति इसके देह की आभा है । उदयसिंह ने भी उस कल्याणमुखी को देखकर विस्मित हो उठे । उन्होंने उससे पूँछा कि—सुर मुन्दरी की भाँति यह स्त्री किसकी प्रिया है, जो स्वर्गलोक से यहाँ आई है, अथवा स्वयं पन्नगी ही है ? इसे सुनकर उस माली की कन्या ने कहा—महाबाहो ! मैं शूद्र कुल में उत्पन्न हूँ, यहाँ पुष्प संचय करने आई हूँ । नृप ! इसी पुष्प द्वारा वह राजकुमारी तुलित (तौली) की जायगी, जिसका नाम पुष्पावती देवी है, और जो गुण समूहों से

इति श्रुत्वा तु वचनं कृष्णांशः स्मरपीडितः । ददौ बहुधनं तस्यै मालिन्या गेहमागतः ॥२३
 देवसिंहस्तु कालज्ञो ज्ञात्वा मोहत्वमागतम् । कृष्णांशं बोधयामास पद्यैः साङ्ख्यसमुद्भवैः ॥२४
 कृष्णांशस्तु ततस्सार्द्धं देवसिंहेन तन्मयः । सिन्धुदेशं समागत्य क्रीत्वा सर्वहयांस्तदा ॥२५
 मासान्ते गृहमागत्य राज्ञे सर्वान्न्यवेदयत् । पुष्पवत्याः शुभं रूपं ध्यात्वा पुष्पेरितं बली ॥
 कृष्णांशो मोहमागत्य तुष्टाव जगदम्बिकाम् ॥२६

कृष्णांश उवाच

देवमाये महामाये नित्यशुद्धस्वरूपिणि । पाहि मां कामदेवार्तं पुष्पवत्यै प्रबोधय ॥२७
 मधुकैटभसम्मोहे महिषासुरघातिनि । पाहि मां कामदेवार्तं पुष्पवत्यै प्रबोधय ॥२८
 धूम्रलोचनसन्दाहे चण्डमुण्डविनाशिनि । पाहि मां कामदेवार्तं पुष्पवत्यै प्रबोधय ॥२९
 रक्तबीजासृक्कपीते सर्वदैत्यभयङ्करे । पाहि मां कामदेवार्तं पुष्पवत्यै प्रबोधय ॥३०
 निशुम्भदैत्यसंहारे शुम्भदैत्यविनाशिनि । पाहि मां कामदेवार्तं पुष्पवत्यै प्रबोधय ॥३१
 इति स्तुत्वा च सुष्वाप स वीरः परमासने । तदा तु शारदा देवी तस्याः स्वप्नप्रदर्शनम् ॥
 चकार प्रत्यहं देवी वरदाभयकारिणी ॥३२
 एवं गते चतुर्मासे जलवृष्टिकरे मुने । त्रिविंशान्द्वयश्रासीत्कृष्णांशस्य यशस्करम् ॥३३
 कार्तिके कृष्णपक्षे तु गतोऽसौ देवसंयुतः । मयूरनगरे रम्ये मकरन्देन रक्षिते ॥३४
 पुष्पागृहमुपागम्य तत्र वासमचीकरत् ॥३५

कामपीडित हुए, अनन्तर उसे बहुत-सा धन देकर उसके घर आये । कालदर्शी देवसिंह ने उदयसिंह को उस कुमारी के प्रति मोहित जानकर सांख्यमत के उपदेश द्वारा उन्हें ज्ञान प्रदान किया । तदुपरान्त देवसिंह के साथ उदयसिंह ने सिन्धु देश में पहुँचकर घोड़ों का क्रय करके मास की समाप्ति तक घर पहुँच-

एकदा सुन्दरं हारं कृष्णांशेनैव गुण्ठितम् । मणिमुक्तायुतं रम्यं नानापुष्पसमन्वितम् ॥
 गृहीत्वा प्रययौ पुष्पा पुष्पवत्याश्रमन्दिरे ॥३६
 सा तु प्रैवेयकं दृष्ट्वा त्वष्ट्रेव रचितं प्रियम् । हृदि कृत्वा मुमोहाशु कामिनी रतिरूपिणी ॥३७
 अये सखि महामाये सत्यं कथय मेऽग्रतः । प्रैवेयकमिदं रम्यं कुतः प्राप्तं मम प्रियम् ॥३८
 इति श्रुत्वा वचस्तस्या मकरन्दभयातुरा । पुष्पा पुष्पाञ्जलिं कृत्वा वचनं प्राह तां प्रति ॥३९
 जीवदानं च मे देहि तर्हि ते कथयाम्यहम् । तथेत्युक्तवतीं कन्यां साह मे भगिनी शुभे ॥४०
 कृष्णा नाम महारम्या सर्वलोकविमोहिनी । महावत्यां गृहं तस्या मद्गृहे सा समागता ॥
 तया विरचितं सुभ्रूप्रैवियकमनुत्तमम् ॥४१
 इति श्रुत्वा तु वचनं देवी पुष्पवती स्वयम् । उवाच मालिनीं वाक्यं शीघ्रं दर्शय तां मम ॥४२
 मकरन्दभयाद्देवास्तथान्ये पुरुषा भुवि । मत्समीपे गतिर्नास्ति तेषां सत्यं ब्रवीम्यहम् ॥४३
 इति श्रुत्वा वचो घोरं पुष्पा तु भयकातरा । नोवाच वचनं किञ्चित्पृच्छ्यमाना पुनः पुनः ॥४४
 तदा पुष्पवती प्राह किं ते भयमुपागतम् । साह मे भगिनी रम्या यदि त्वद्गेहमागता ॥४५
 मोहितः पुरुषः कश्चिद्बलात्तां हि भजिष्यति । तर्हि मे मरणं ज्ञेयं कुलधर्मपरायणे ॥४६

में रहने लगे । एक बार उदयसिंह द्वारा गूथे गये एक सुन्दर हार को लेकर जिसमें पुष्पों के बीच-बीच में मोतियों और मणियों को लगाकर उसे अत्यन्त मनमोहक बनाया गया था, पुष्पा ने पुष्पवती के भवन में जाकर उसे प्रदान किया । उस अनुमप हार को देखकर, जो त्वाष्ट्रा की भाँति रचित एवं अत्यन्त प्रिय था, रति के समान सुन्दरी उस कामिनी ने मोहित होकर उसे हृदय में धारण कर लिया (पहन लिया) । पश्चात् उसमें कहा—अये सखि ! महामाये । मेरे समक्ष सत्य कहना, मेरे मन को हरण करने वाले इस

इति श्रुत्वा पुष्पवती पुनः प्रोवाच धर्मिणी । मयूरध्वज एवापि मत्पिता नीतितत्परः ॥
 अयोग्यं ये करिष्यन्ति ते यास्यन्ति यमालयम् ॥४७
 अतस्त्वं शीघ्रमादाय तद्दोलां च मन्दतिके । दर्शयित्वा च तां रम्यां पुनर्गच्छ गृहं स्वकम् ॥४८
 तथेति मत्वा सा शूद्री गृहमागत्य भामिनी । कृष्णांशं वर्णयामास यथा प्रोक्तं तया मुने ॥४९
 इति श्रुत्वा वचो रम्यं कृष्णांशो बलवत्तरः । नासा वेधं स्वयं कृत्वा पुनर्नारीमयं वपुः ॥
 जगाम पुष्पया सार्द्धं दोलामारूढ्या वीर्यवान् ॥५०
 तदा पुष्पवती देवी दृष्ट्वा कृष्णां मनोरमाम् । उवाच वचनं पुष्पां शृणु मे वचनं सखि ॥५१
 यादृशीयं शुभा नारी तादृशः पुरुषो मया । स्वप्नान्ते प्रत्यहं दृष्टो रममाणो मया सह ॥५२
 कृष्णांशश्च स तामाह देशराजमुतो वरः । उदयो नाम विख्यातस्तस्याहं ललिता सखी ॥५३
 प्रत्यहं रचितं हारमथ पूजनहेतवे । स वीरस्तु गृहीत्वा तं देवीं पूज्यं न्यवेदयत् ॥५४
 एकदा प्रस्थितं वीरं पुष्पमध्ये शनैःशनैः । उदासीनं च तं दृष्ट्वा प्रोवाचाहं समागता ॥५५
 मोहोऽयं ते कुतः प्राप्तः स त्वं कथय मा चिरम् । इत्युक्तः स तु मामाह स्वप्रांते प्रत्यहं सखि ॥५६
 मया दृष्टा शुभा नारी रूपयौवनशालिनी । तद्वियोगेन दुःखार्तं मुखं म्लानत्वमागतम् ॥५७
 इति श्रुत्वा पुष्पवती तामाह रुचिराननाम् । विवाहो मे यदा तेन सार्द्धं रम्यो भविष्यति ॥५८
 तदा त्वां तर्पयिष्यामि बहुद्रव्यैः शुभानने । अतस्त्वं गच्छ तत्पार्श्वं शीघ्रं तस्मै निवेदय ॥५९

कहा—तुम भली भाँति जानती हो कि मेरे पिता मयूरध्वज अत्यन्त नीतिज्ञ पुरुष हैं इस प्रकार का अयोग्य कार्य जो पुरुष करेगा, उसे यमराज के यहाँ प्रस्थान करना पड़ेगा । इसलिए तू उसके डोले को शीघ्र मेरे पास लाकर उस सुन्दरी को मुझे दिखाने के पश्चात् पुनः अपने घर चली जाना । उसे स्वीकार कर उस शूद्र जाति की स्त्री ने घर आकर उदयसिंह से उन सभी बातों को बताया । मुने ! इस सुन्दर वाणी को

इति श्रुत्वा तु तद्वाचं पुष्पा प्रेमसमन्विता । दोलामारोप्य तां कृष्णां स्वगेहं गन्तुमुद्यता ॥६०
 दुर्गद्वारे तु प्राप्तायां तद्दोलायां च भार्गव । मकरन्दो महावीर्यो द्वादशाब्दवया बली ॥६१
 दोलासमीपमागत्य ददर्श रुचिराननाम् । कृष्णामिन्दीवरश्यामां चारुनेत्रां मनोहराम् ॥६२
 मुमोह बलवान्वीरो गोवर्धन कलांशकः । प्रेम्णोवाच स चार्वाङ्गिः शृणु मे वचनं प्रिये ॥६३
 मद्गृहं शीघ्रमागच्छ पत्नी मम भवाधुना । इति श्रुत्वा तु सा कृष्णा विहस्योवाच भूपतिम् ॥६४
 कुलीनस्त्वं महावीर वह्निकुण्डात्समुद्भवः । षोडशाब्दवयास्तूणी शनिभल्लसमन्वितः ॥६५
 त्वद्योग्या भूपतेः कन्या चन्द्रसूर्यान्वयस्य वै । अहं शूद्री हीनतमा कथं योग्या तवेह वै ॥६६
 कन्याहं शूद्रजातेश्च ब्रह्मचर्य्यव्रते स्थिता । इति श्रुत्वा तु वचनं मकरन्दो नृपात्मजः ॥६७
 बलाद्गृहीत्वा तां नारीं पस्पर्श हृदये स्वयम् । कृष्णांशस्तु तदा तस्मै दत्त्वा हृदयवेदनाम् ॥
 मोहयित्वा नृपसुतं सदेवः स्वगृहं ययौ ॥६८
 मकरन्दस्तु सम्बुद्धो मदनाग्निप्रपीडितः । गेहमागत्य पुष्पायाः सर्वं तस्यै न्यवेदयत् ॥६९
 तत्तन्हेकातरं भूपं मकरन्दं महाबलम् । पुष्पाह श्लक्ष्णया वाचा शृणु पार्थिवसत्तम ॥७०
 महावती पुरी रम्या तत्र कृष्णागृहं शुभम् । त्वद्द्रयाच्च गता गेहं कृष्णांशस्य च सा सखी ॥७१
 रोदनं कुर्वती गाढं तव निन्दनतत्परा ॥७२

सुनकर प्रेम गद्गद होकर पुष्पा कृष्णा को डोला में बैठाकर अपने घर चल दी । भार्गव ! दुर्ग के दरवाजे पर उस डोला के आने पर महापराक्रमी मकरन्द ने, जिसकी आयु उस समय बारह वर्ष की थी, उस डोले के समीप आकर उस सुन्दरमुखी कृष्णा को देखा, जो नील कमल की भाँति श्यामल वर्ण, विशाल सुन्दर नेत्र एवं मन को हरण करने वाली थी । गोवर्द्धन की कला से उत्पन्न वह वीर उसी समय मुग्ध हो गया । प्रेम से गद्गद होकर उसने कहा—‘प्रिये ! मेरी एक बात स्वीकार करो ! मैं चाहता हूँ कि इसी समय मेरे भवन में चलकर मेरी पत्नी होना शीघ्र स्वीकार करो । इसे सुनकर कृष्णा ने मन्द मुसुकान करते हुए राजकाण्ड से कन्या गदावती । अगले कालीन एवं शक्तिमान् से राजकाण्ड का मैं श्यामली सेनापति की

आगमिष्यति वै वीरो बलैस्सार्धं महाबलः । अतस्त्वं सर्वसैन्यानि सज्जीभूतानि वै कुरु ॥७३
 जितो येन महावीरः पितृव्यो लहरस्तव । विवाहं कारयामास तद्वन्धोः सुतया सह ॥७४
 इति श्रुत्वा वचो घोरं मकरन्दो महीपतिः । शतघ्नीः स्थापयामास दुर्गकूटेषु दारुणाः ॥७५
 स्वसैन्यं च समाहूय त्रिलक्षं खड्गसंयुतम् । तत्रैव स्थापयामास राष्ट्ररक्षार्थमुद्यतः ॥७६
 कृष्णांशस्तु गृहं प्राप्य बलखानिमुवाच तत् । श्रुत्वा स च महावीरो भ्रातृमित्रसमन्वितः ॥
 पञ्चलक्षबलैस्सार्द्धं मयूरनगरं ययौ ॥७७
 शतघ्न्यः पञ्चसाहस्रा गजा दशसहस्रकाः । एकलक्षं हयाः सर्वे शेषा ज्ञेयाः पदातयः ॥
 उषित्वा पक्षमात्रं तु मार्गं पाञ्चालके तदा ॥७८
 मकरन्दस्तु तच्छ्रुत्वा शनिभल्लकरः स्थितः । सेनामाज्ञापयामास जहि शत्रून्महाबलान् ॥७९
 श्रुत्वा पदातयो लक्षं शतघ्नीवह्निमाददन् । ते तु वै सप्तसाहस्राश्चक्रुः शत्रुबलक्षयम् ॥८०
 ग्रामस्य दक्षिणद्वारे हयारूढास्तदा ययुः । भुशुण्डीक्षेपणीशक्तिखड्गयुद्धविशारदाः ॥८१
 एकलक्षं हयास्सर्वे मकरन्दस्य भूपतेः । तयोश्चासीन्महद्युद्धं तुमुलं हयसेनयोः ॥८२
 तदा तु पश्चिमद्वारे गजा विंशत्सहस्रकाः^१ । तथा दशसहस्रैश्च शत्रुभिः सह संययुः ॥८३
 उष्ट्ररक्षा महावीराश्चत्वारिंशत्सहस्रकाः । बलखान्यादिभिः सार्द्धं युयुधुर्दिशि चोत्तरे^२ ॥८४

रही थी । जिस महाबली ने आपके पितृव्य (चाचा) लहर को पराजित कर उनकी पुत्री का विवाह अपने भाई के साथ कर लिया, वे वीर उदयसिंह अवश्य आयेगे अतः आप भी अपनी सेना को सुसज्जित करें । इस भीषण बात को सुनकर राजा मकरन्द ने अपने दुर्ग के दरवाजों पर तोपों को रखाकर खड्गधारी अपने तीन लाख सैनिकों को भी राष्ट्र के रक्षार्थ उसी स्थान में नियुक्त किया । ६६-७६। उदयसिंह ने अपने गृह पहुँचने पर बलखानि (मलखान) से सभी वतान्त कहा । उस बलशाली ने उसे

अहोरात्रमभूद्युद्धं तुमुलं लोमहर्षणम् । ततः पराजितास्सर्वे बलखानेर्महाबलाः ॥८५
 त्यक्त्वा युद्धं तु ते सर्वे दुद्रुवुश्च दिशो दश । कृष्णांशो बिन्दुलारूढो बलखानिः कपोतगः ॥८६
 मनोरथस्थितो देवश्चाह्लादस्तु गजस्थितः । पूर्वादिक्रमतो द्वारि गतास्ते रणदुर्मदाः ॥८७
 सत्सरं खड्गमुत्सृज्य चक्रुः शत्रुमहावधम् । पराजिताश्च ते शूरा मकरन्दमुपाययुः ॥८८
 वह्निपुत्रस्तुबलवान्वाजिनं च शिलामयम् । शनिभल्लकरग्राही तमारूह्य रणं ययौ ॥८९
 कृष्णांशाद्याश्च ते शूरा हरुधुस्सर्वतोदिशम् । तं च कण्ठे ददौ खड्गं बलखानिर्महाबलः ॥९०
 स्वभल्लं देवसिंहश्च तमङ्के च समाहनत् । आह्लादो वक्षसि शरं कृष्णांशः खड्गमुत्तमम् ॥९१
 शिलावाजिप्रभावेण कश्मलं न जगाम ह । स दृष्ट्वा निष्फलान्वीराञ्जगर्ज भैरवं ध्वनिम् ॥९२
 शनिभल्लेन ते सर्वे बभूवुर्मूर्च्छिता रणे । तेऽथाः शिलाश्ववेगेन मूर्च्छिताश्चाभवन्क्षणात् ॥९३
 मकरन्दस्तु बलवान्बद्ध्वा तान्युद्धदुर्मदान् । प्रसन्नात्मा ययौ गेहं स्वपित्रे तान्यवेदयत् ॥९४
 दृष्ट्वा पराजितान्वीरान् रूपणो भयकातरः । महावतीं पुरीं प्राप्य भूपतिं समवर्णयत् ॥९५
 ब्रह्मानन्दस्तु तच्छ्रुत्वा लक्षसैन्यसमन्वितः । इन्दुलेन सहायेन मयूरनगरं ययौ ॥९६
 लिखित्वा निर्ममं पत्रं तद्राज्ञे त्वरितो ददौ । भूमिराजमुताकान्तं विद्धि मां मनुजर्षभ ॥९७
 कृष्णांशाय सुतां देहि नाम्ना पुष्पवतीं शुभाम् । नो चेन्मत्कठिनैर्बाणैः क्षयं यास्यन्ति सैनिकाः ॥९८

कर रही थी । यह रोमाञ्चकारी युद्ध अविरल गति से दिन-रात चल रहा था । पश्चात् बलखानि (मलखान) के सैनिक पराजित होकर रणस्थल छोड़कर चारों ओर भागने लगे । उस समय बिन्दुल (बेन्दुल) पर बैठकर उदयसिंह, कपोत (कवूतर) पर बलखानि (मलखान), मनोरथ (मनोहर) पर देवसिंह (डेबा) और गज पर आह्लाद (आल्हा) सवार होकर क्रमशः पूर्व आदि दरवाजों पर पहुँचकर अपने तीक्ष्ण खड्ग द्वारा शत्रुओं का वध करने लगे । उनके अस्त्रों के आघात को सहन न कर सकने के

निशम्येति नृपश्रेष्ठो मयूरध्वज एव सः । मकरन्देन सहितो द्विलक्षबलसंयुतः ॥
 अहोरात्रं कृतं^१ युद्धं तेन सार्द्धं भयप्रदम् ॥१९९
 ब्रह्मानन्दस्तु बलवान्बाणयुद्धमचीकरत् । मकरन्दस्य भल्लेन मूर्च्छितः सोऽपतद्भुवि ॥१००
 तदा स्वर्णवतीपुत्रो जयन्तः शक्रसम्भवः । स्वविद्यां दर्शयामास मकरन्दाय धीमते ॥१०१
 वैष्णवास्त्रप्रभावेन शिलाश्वो भस्म चाभवत् । ब्रह्मास्त्रेण भृगुश्रेष्ठ शनिभल्लोऽपतद्भुवि ॥१०२
 नागपाशेन तं बद्ध्वा मकरन्दं महाबलम् । विवाहं कारयामास कृष्णांशस्य महात्मनः ॥१०३
 सेनामुज्जीवयामास स्वकीयाभिन्दुलो बली । मङ्गलं कारयामास मकरन्दो गृहे गृहे ॥
 ददौ कन्यां विधानेन बहुद्रव्यसमन्विताम् ॥१०४
 मयूरध्वजभूपालो महास्नेहमचीकरत् । नृपाज्ञां ते पुरस्कृत्य ययुः सार्द्धं महावतीम् ॥१०५

इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्थ्युगखण्डापरपर्याये

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नामैकविंशोऽध्यायः ॥२१

नष्ट हो जायगी । नृपश्रेष्ठ राजा मयूरध्वज ने उसे सुनकर मकरन्द को साथ लेकर दो लाख सैनिकों समेत रणस्थल में पहुँचकर शत्रुओं से दिन-रात का भीषण युद्ध आरम्भ कर दिया । बलवान् ब्रह्मानन्द बाण युद्ध कर रहे थे । उसी समय मकरन्द के भाले से मूर्च्छित होकर पृथिवी पर गिर गये । स्वर्णवती (सोना) के पुत्र शक्रसम्भव जयन्त ने शीघ्र वहाँ पहुँचकर बुद्धिमान् मकरन्द को अपनी विद्या की चमत्कृति दिखाई—अपने वैष्णवास्त्र द्वारा उसके शिला अश्व को भस्म करके ब्रह्मास्त्र द्वारा शनि-भाला

अथ द्वाविंशोऽध्यायः कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

महावत्यां तु सम्प्राप्ते कृष्णांशे बलवत्तरे । मङ्गलं कृतवान् राजा तदा परिमलो बली ॥१
पुष्पवत्या तया सार्द्धं गीतनृत्यविशारदः । कृष्णांशः प्रत्यहं गेहे मुमोह सखिभिः सह ॥२
हेमन्तशिशिरे वीरो रहः क्रीडां करोति वै । यथा शक्रोऽप्सरोभिश्च तथैव ह्युदयो बली ॥३
ग्राम्यधर्मं न कृतवान् सर्वस्पर्शविशारदः । एकदा नृत्यक्रीडायां देवी पुष्पवती स्वयम् ॥४
कृष्णांशं वचनं प्राह पूर्वजन्मनि को भवान् । इति श्रुत्वोदयो वीरो विहस्योवाच वै वचः ॥५
नृपोऽहं चन्द्रदासश्च पूर्वजन्मनि हे प्रिये । बाल्यात्प्रभृति मे दुःखं प्राप्तं दैवविनिर्मितम् ॥६
शालग्रामशिलापूजा प्रत्यहं वै मया कृता । तेन पुण्यप्रभावेन सार्वभौमो बभूव ह ॥७
मृतेऽहनि तु सम्प्राप्ते शालग्रामे मनो दधौ । सायुज्यं मे हरेश्चासीत्स्वयं ब्रह्मप्रसादतः ॥८
कलिना प्रार्थितो विष्णुः कालात्मा परमेश्वरः । स्वदेहान्मां तु निष्काष्य भूमौ जनिमचीकरत् ॥९
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति वै प्रिये । युगधर्मस्य मर्यादास्थापनाय भवाम्यहम् ॥१०
सत्ये तु मानसी पूजा देवानां तृप्तिहेतवे । त्रेतायां बह्विपूजा च यज्ञदानादिका क्रिया ॥११

अध्याय २२

कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन

द्वापरे मूर्तिपूजा च देवानां वै प्रियङ्करी । कलौ तु दारुणे प्राप्ते ब्रह्मपूजनमुत्तमम् ॥१२
 अहं हंसः सत्ययुगे त्रेतायां यज्ञपुरुषः । हिरण्यगर्भश्च प्रिये द्वापरेऽहं सुखप्रदः ॥
 शालग्रामः कलौ प्राप्ते देवानां तृप्तये ह्यहम् ॥१३
 मुनयो देवतास्सर्वास्तथा पितृगणाः प्रिये । सर्वे ते तृप्तिमायान्ति शालग्रामस्य पूजनात् ॥१४
 द्विजातिभिस्त्रिवर्णैश्च पूजनं चन्दनादिकैः । शूद्रैश्च स्नानमात्रेण भक्तिभावेन पूजनम् ॥१५
 म्लेच्छैश्च दर्शनं पुण्यं विनयाद्भक्तिभावतः । शालग्रामः स्वयं ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः ॥
 तस्य दर्शनमात्रेण क्षयं यास्यन्ति वै मलाः ॥१६
 इति ते कथितं देवि युगमर्यादमुत्तमम्^१ । पुरा त्वं कस्य तनया सत्यं कथय मेऽचिरम् ॥१७

पुष्पवत्युवाच

पूर्वजन्मनि वेश्याहं चन्द्रकान्तिरिति श्रुता । गाननृत्यादिकं वाद्यं देवस्याग्रे मया कृतम् ॥१८
 तेन पुण्यप्रभावेण स्वर्गलोकमुपागता । देवैश्च प्रार्थिता तत्र रूपयौवनशालिनी ॥१९
 ब्रह्मचर्यं न तत्याज स्वर्गलोकेऽपि वै ह्यहम् । तेन पुण्यप्रभावेण चोषा बाणसुताऽभवम् ॥
 अनिरुद्धः स्वयं ब्रह्म मम पाणिं गृहीतवान् ॥२०
 कलिना प्रार्थितो देवो मम स्वामी स्वहेतवे । अर्चावतारमासाद्य मार्कण्डेयस्थलं गतः ॥२१

प्रियार्थं मूर्तिपूजा और भीषण कलियुग के समय ब्रह्मपूजन उत्तम बताया गया है । प्रिये ! सत्ययुग में हंस, त्रेता में यज्ञपुरुष और द्वापर में हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ, तथा कलियुग में देवों की तृप्ति के लिए सुखदायक शालिग्राम मैं ही होता हूँ । प्रिये ! शालिग्राम के पूजन करने से महर्षि, देवता और पितृगण ये सभी प्रसन्न होते हैं । द्विजाति (उपनयनधारी) तीनों वर्णों को चन्दनादि द्वारा शालिग्राम की सप्रेम पूजा करनी चाहिए । शूद्रों को केवल स्नानमात्र करके भक्ति-भाव द्वारा ही उनका पूजन करना बताया गया है, और

स्वप्रसादस्य महिमा दर्शितस्तेन तत्र वै । अत्रैव स्थितिमर्यादो दारुरूपस्य मे ^१पतेः ॥२२
 अहं तस्याज्ञया स्वामिञ्जम्बूकस्य सुताऽभवम् । दिव्यरूपसमायुक्ता नाम्नाहं विजयैषिणी ॥२३
 कृतं ममैव मरणं त्वद्भ्रात्रा बलखानिना । मकरन्दस्य भगिनी भूत्वा त्वां पतिमागता ॥२४
 तेन दोषेण त्वद्भ्राता यातनां तीव्रमागतः^३ । राज्ञ इन्नगठस्यैव गेहे गजपतेः स्वयम् ॥
 इत्युक्त्वा मौनमास्थाय रेमे पत्या समं मुदा ॥२५
 होलिकासमये प्राप्ते मलना स्नेहदुःखिता । सुतां चन्द्रावलीं रम्यां स्वप्नान्ते सा ददर्श ह ॥
 ररोद निशि दुःखेन स्वसुतास्नेहकातरा ॥२६
 तदोदयो महावीरो ज्ञात्वा रोदनकारणम् । शूरैश्च दशसाहस्रैस्सार्द्धं बहुधनैर्युतः ॥
 एकाकी प्रययौ वीरो यत्र चन्द्रावलीगृहम् ॥२७
 महीपतिस्तु तच्छत्रुज्ञात्वा कारणमुत्तमम् । पश्चाज्जगाम कार्यार्थी स तु दुर्योधनांशकः ॥
 बलीटाठमिति ख्यातं ग्रामं यादवपालितम् ॥२८
 वीरसेनो नृपस्तत्र त्रिलक्षबलसंयुतः । अष्टौ सुताश्च तस्यासन्नरूपयौवनशालिनः ॥२९
 कामसेनः प्रसेनश्च महासेनस्तथैव च । सुखसेनो रूपसेनो विष्वक्सेनो मधुव्रतः ॥
 मधुपश्च क्रमाज्जाता यादवांशाश्च यादवाः ॥३०

उन्होंने अपने प्रसाद की महिमा उन्हें दिखाई । काष्ठरूप मेरे पति की वह मर्यादा आज यहाँ भी स्थित है । स्वामिन् ! मैं उन्हीं की आज्ञा शिरोधार्य कर पुनः राजा जम्बूक के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी । उस समय मुझे दिव्य रूप की प्राप्ति थी, और मेरा नाम विजयैषिणी (विजया) था । वहाँ तुम्हारे भाई बलखानि (मलखान) द्वारा मेरा निधन हुआ था । (इस समय आप जानते ही हैं कि) मकरन्द की भगिनी होकर मैंने आपको पति रूप में प्राप्त किया है और उसी दोष से आपके भाई ने राजा

तत्र गत्वा च कृष्णांशस्सभायां नरकेसरी । दण्डवत्प्रणतो भूत्वा वीरसेनं महीपतिम् ॥३१
 मलनालिखितं पत्रं दत्त्वा राज्ञे महामनाः । दशभारं सुवर्णस्य पुनर्वासमचीकरत् ॥३२
 व्यञ्जनानि विचित्राणि भुक्त्वा यादवसंयुतः । चन्द्रावलीं समागत्य कुशलं च न्यवेदयत् ॥३३
 प्रेमोत्सुका च भगिनी कृष्णांशं प्राह दुःखिता । भवान्द्वयव्याध्या वीर तदाहं च विवाहिता ॥३४
 विंशदब्दस्ततो जातो विस्मृता पितृमातृभिः । समर्थेन त्वया वीरं संस्मृता भगिनी स्वयम् ॥३५
 अद्य मे सफलं जन्म जीवितं सफलं च मे । बन्धुदर्शनमात्रेण सर्वं च सफलं मम ॥३६
 प्रसन्नात्मोदयस्तत्र भगिनीं प्राह नम्रधीः । जम्बुकेन गृहं सर्वं लुण्ठितं बलशालिना ॥३७
 तस्य दुःखेन भूपालो भयभीतो दिने दिने । महाकष्टेन विजयो जम्बुकाच्चाभयोऽभवत् ॥३८
 महीराजस्तु बलवानरुरोध नगरीं मम । मया विवाहितो भ्राता ब्रह्मा तत्सुतया सह ॥३९
 पुनश्च सिंहलद्वीपे जयन्तार्थं वयं गताः । एवं विधानि दुःखानि बहूनि ह्यभवन्पितुः ॥४०
 अतस्त्वां प्रति सुप्रीता वयं भगिनिकिङ्कराः । मृदुवाक्यमिति श्रुत्वा तदा चन्द्रावली मुदा ॥४१
 गेहं निवासयामास स्वकीयं प्रेमविह्वला । एतस्मिन्नन्तरे धूर्तो महीपतिरुपाययौ ॥४२
 सभायां वीरसेनस्य राज्ञा तेनैव सत्कृतः । वार्तान्तरं समासाद्य तमुवाच महीपतिः ॥४३
 निष्कासिताश्च ते सर्वे राज्ञाह्लादादयः खलाः । चोरितो नृपतेः कोशो हीनजात्यैर्महाबलैः ॥४४

उदयसिंह ने राजा वीरसेन को दण्डवत्प्रणाम करने के उपरान्त उन्हें दश भार सुवर्ण समेत मलना का लिखा पत्र प्रदान किया । पश्चात् उन यादवों के साथ उत्तम विचित्र भाँति के व्यंजनों का आस्वादन करके चन्द्रावली के महल में जाकर उनसे सब कुशल क्षेम सुनाया । प्रेम से अधीर होकर उसने अपना दुःख प्रकट किया—वीर ! जिस समय मेरा विवाह हुआ था, आप दो वर्ष के थे । आज बीस वर्ष का दिन पूरा हो रहा है । पिता-माता ने कभी मेरा स्मरण ही नहीं किया । मुझे एकदम भूल गये । वीर ! तुम्हीं इस

तदा तु कुण्ठिताः सर्वे शिरीषाख्यपुरेऽवसन् । छिद्रदर्शी तु कृष्णांशो गेहं तव समागतः ॥४५
चन्द्रावल्याश्च वै दोलां गृहीत्वा स गमिष्यति । सत्यं ब्रवीमि भूपाल नान्यथा वचनं मम ॥४६
इति श्रुत्वा वीरसेनो ज्ञात्वा तत्सत्यकारणम् । कामसेनं समाहूय चन्द्रावल्याः पतिं सुतम् ॥४७
वचनं प्राह भोः पुत्र बन्धनं कुरु तस्य वै । इति श्रुत्वा कामसेनो विषमादाय दारुणम् ॥४८
भोजनाय ददौ तस्यै ज्ञात्वा चन्द्रावली तदा । भ्रातुरन्तिकमासाद्य पात्रमादाय सा ययौ ॥४९
कामसेनश्च कुपितो गृहीत्वा दण्डवेतसम् । स्वप्रियां ताडयामास स दृष्ट्वा तं तदाकुपत् ॥५०
गृहीत्वा भुजयोस्तं वै बन्धनाय समुद्यतः । बन्धनत्वं गते पुत्रे वीरसेनो महाबलः ॥५१
पुत्रानाज्ञापयामास तस्य बन्धनहेतवे । एतस्मिन्नन्तरे वीरो दोलामादाय सत्वरम् ॥५२
सेनामध्ये समागम्य महद्युद्धमचीकरत् । एकतो दशसाहस्रास्त्रिलक्षास्तु तथैकतः ॥
अहोरात्रमभूद्युद्धं दारुणं रोमहर्षणम् ॥५३
हता लक्षं महाशूरा उदयेन महाबलाः । शेषाः प्रदुद्रुवुस्सर्वे यादवा भयकातराः ॥५४
दृष्ट्वा पराजितं सैन्यं सप्तपुत्रा महाबलाः । स्वान्नाजांश्च समारुह्य कृष्णांशं रुहू रूषा ॥५५
स वीरो बिन्दुलारुढो भूमौ कृत्वा गजासनान् । तेषामस्त्राणि संच्छिद्य बध्नाति बलदर्पितः ॥५६
इति श्रुत्वा वीरसेनः सूर्यभक्तिपरायणः । सौरमस्त्रं समादाय तस्य सैन्यमदाहयत् ॥
तेनास्त्रेणैव कृष्णांशः सहयो मूर्च्छितो भुवि ॥५७

इन नीचों ने उनके कोष (खजाने) में चोरी की थी । उसी समय से ये लोग शिरीष (मिरसा) नामक गाँव में रह रहे हैं । अवसरवादी उदयसिंह इस समय आपके घर आया हुआ है, वह चन्द्रावली का डोला लेकर चला जायगा । भूप ! मैं यह सब सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात अन्यथा नहीं होती है । इसे सुनकर राजा वीरसेन ने इसे सत्य समझकर अपने पुत्र कामसेन को जो चन्द्रावली का पति था, उसके साथ

वीरसेनस्तु तं बद्ध्वा मोचयित्वा सुतान्वधूम् । स्वगेहमागतस्तूर्णं नानावाद्यान्यवादयत् ॥५८
हतशेषास्तदा वीराः कृष्णांशस्य ययुर्दिशः । हेतुं परिमलस्याग्रे सर्वमूचुस्तदादितः ॥५९
महीपतिं महाधूर्तं मत्वा राजाब्रवीद्विदम् । गच्छ त्वं मलनापुत्र लक्षसैन्यसमन्वितः ॥६०
बद्ध्वा स्वभगिनीकान्तं स्वबन्धुं मोचयाशु वै । इति श्रुत्वा च स सुतो लक्षसेनासमन्वितः ॥६१
शीघ्रं गत्वा च नगरीं हरोध बलावान्रुषा । युद्धी भूते बले तस्मिन्वीरसेनो नृपोत्तमः ॥
सौरमस्त्रमुपादाय दाहनार्थं समुद्यतः ॥६२
सज्जीभूते तदस्त्रे तु ब्रह्मानन्दो महाबलः । ब्रह्मास्त्रेणैव स शरं वारयामास वै र्षा ॥६३
दृष्ट्वा भयान्वितो भूपस्तमेव शरणं ययौ । ब्रह्मानन्दस्तु तं भूपं वचनं प्राह निर्भयः ॥६४
धूर्तवाक्येन हे भूपमद्वन्धुर्वाधितस्त्वया । अवध्या च सदा नारी त्वत्सुतस्तामताडयत् ॥
अतस्त्वं भगिनीयुक्तं स्वसुतं देहि मे नृप ॥६५
इति श्रुत्वा च नृपतिर्वचनं प्राह नम्रधीः । मत्सुता च गृहे नास्ति कामसेनं गृहाण भोः ॥६६
इत्युक्त्वा वीरसेनश्च सुतं चन्द्रावलीं तथा । दत्त्वा तस्मै प्रसन्नात्मा तत्प्रस्थानमकारयत् ॥६७
ब्रह्मानन्दोऽपि बलवान्कृष्णांशेन समन्वितः । सेनयाशीतिसाहस्र्या ययौ सार्द्धं महावतीम् ॥६८
मलना स्वसुतं दृष्ट्वा प्रेमविह्वलकम्पिता । स्नापयित्वाश्रुधाराभिर्द्विजातिभ्यो ददौ धनम् ॥६९

उस समय वीरसेन ने उन्हें बाँधकर अपने पुत्रों समेत वधू (बहू) को भी मुक्त कराकर अपने घर में अनेक भोंति के वाद्यों द्वारा महोत्सव मनाया । उदयसिंह के शेष वीर सामन्त इधर-उधर भाग गये । उनमें से कुछ लोगों ने परिमल के पास पहुँचकर आदि से अन्त तक सभी वृत्तान्त कहा—महीपति (पृथिवीराज) को महाधूर्त जानकर राजा ने ब्रह्मानन्द से कहा—एक लाख सेना समेत तुम शीघ्र वहाँ जाओ । अपनी

इति ते कथितं विप्र कृष्णांशचरितं शुभम् । शृण्वतां कलिपापघ्नं कथयिष्यामि वै पुनः ॥७०
इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्युगखण्डापरपर्याये
कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२

अथ त्रयोविंशोऽध्यायः

कलियुगीयेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

चतुर्विंशाब्दकं प्राप्ते कृष्णांशे बलशालिनि । इषशुक्लदशम्यां च कृतो राज्ञा महोत्सवः ॥१
भोजयित्वा द्विजश्रेष्ठान्दत्त्वा तेभ्यो हि दक्षिणाः । स्वभृत्येभ्यस्तथा वित्तं यथायोग्यं क्रमाद्ददौ ॥२
कार्तिक्यां शुभयुक्तायां कृष्णांशो बलसंयुतः । इन्दुलेन च संयुक्तो देवसिंहेन संयुतः ॥३
अयुतैः स्वर्णद्रव्यैश्च शूरैर्दशसहस्रकैः । ययौ बर्हिष्मतीस्थाने नानाभूपसमन्विते ॥४
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चित्ररेखा समागता । वृता सप्तालिभिर्देवी चित्रगुप्तप्रपूजिनी ॥५
गङ्गामध्ये महारम्यं यानं मायामयं तथा । कृतं कौतूहलयुतं बहुसम्पत्समन्वितम् ॥६
आगतास्तत्र राजानो नाना तद्दर्शनोत्सुकाः । तदोदयो देवयुतो जयन्तेन समन्वितः ॥
शतशूरैश्च सहितो दर्शनार्थमुपाययौ ॥७

ब्राह्मणों को धन वितरण किया । विप्र ! इस प्रकार तुम्हें कृष्णांश (उदयसिंह) का शुभचरित सुना दिया गया, और मैं उस पापहारी चरित को पुनः कह रहा हूँ, सुनो ! ६९-७०

श्रीभविष्यमहापुराण के प्रतिसर्गपर्व में कलियुगीय इतिहाससमुच्चय
वर्णन नामक बाइसवाँ अध्याय समाप्त ॥२२॥

चित्ररेखा महारम्या बाल्लीकनृपतेः सुता । ददर्श सुन्दरं कान्तमिन्दुलं शशिवन्मुखम् ॥
येन स्वप्नान्तरे रम्यं सार्द्धं भुक्तं तया सुखम् ॥८
तमाह्लादसुतं ज्ञात्वा साभिनन्दनदेहजा । कृत्वा मोहमयं जालं शुकभूतं तदेन्दुलम् ॥९
हृत्वा स्वयम्बरे रम्ये परमानन्दमाययौ । पुनराहृत्य तां मायां स्वगेहाय ययौ मुदा ॥१०
कृष्णांशस्तु तदा बुद्ध्वा न ददर्श स्वकं शिशुम् । देवसिंहं बोधयित्वा पप्रच्छ क्व गतः शिशुः ॥११
कालज्ञो देवसिंहोऽपि मोहितश्चित्रमायया । न ज्ञातस्तेन वै बालः क्व गतः केन वा हृतः ॥१२
विस्मितं देवसिंहं च दृष्ट्वा कृष्णांशको बली । हरोदोच्चैस्तदा गाढं चित्रमायाविमोहितः ॥१३
श्रुत्वा तु रोदनं तस्य खलस्तत्र महीपतिः । ययौ शीघ्रं प्रसन्नात्मा यात्राह्लादः स्वयं स्थितः ॥
रुदित्वा तत्र वै गाढं वचनं प्राह नम्रधीः ॥१४
उदयो नाम ते भ्राता मोहयित्वा मदेन^१ तौ । देवमिन्दुलमेवासौ हत्वा धारास्वरोपयत् ॥१५
प्रत्यक्षं च मया दृष्टं तेन वीरेण वै कृतम् । शतं स्वर्णं च मे दत्त्वा विनयेनावरोधितः ॥१६
देवसिंहस्ततो^२ बुद्ध्या न ज्ञातं तेन यत्कृतम् । इति श्रुत्वा तु वचनं निश्चयं नाधिगच्छति ॥१७
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तौ तौ वीरौ रोदने रतौ । तद्वियोगेन कृष्णांशः स्वदेहं त्यक्तुमुद्यतः ॥१८
आह्लादौ निश्चयं ज्ञात्वा भाषितं च महीपतेः । कृष्णांशं ताडयामास वैतसैश्वर्मकर्तनैः ॥१९

नामक पुत्री ने उस अत्यन्त सुन्दर इन्दुल को देखा, जिसके मुख की कान्ति चन्द्रमा की भाँति निर्मल एवं सुखप्रद दिखाई देती थी तथा स्वप्न में जिसने उसके साथ रमण का सुख प्रदान किया था । अभिनन्दन की पुत्री ने उन्हें आल्हाद (आल्हा) का पुत्र जानकर उन्हें शुक (तोता) बनाकर एक माया जाल (माया द्वारा रचित पीजड़े) में रख लिया । उस स्वयम्बर में उनका अपहरण करने से उसे परमानन्द की प्राप्ति हुई । पश्चात् अपने माया दृश्य को समाप्तकर वह प्रसन्नता पूर्ण होती हुई अपने घर चली गई । जागने पर उदयसिंह ने अपने बच्चे को न देखकर देवसिंह को जगाकर पूछा—तुम्हारा कौन सा नाम था ?—

तस्य माता तथा पत्नी भगिनी प्रेमदुःखिताः । आह्लादं बोधयामामुर्धूतमायाविमोहितम् ॥
न बोधितस्तदा वीरश्चित्रमायाविमोहितः ॥२०
तदा पुष्पवती देवी स्वर्पति भ्रातृपीडितम् । दृष्ट्वा तत्र गता शीघ्रं पतिदुःखेन दुःखिता ॥२१
विनापराधं कृष्णांशो महानिन्दामवाप्तवान् । तदा वेदविदो विप्रा आह्लादं प्राहुरूर्जितम् ॥२२
वधस्त्यागः समो ज्ञेयो योग्यं बुद्ध्या विचारय । इत्युक्तः स तुरीयात्मा पुत्रशोकेन दुःखितः ॥२३
चाण्डालांश्च समाहूय बद्ध्वा तं पुत्रघातिनम् । दत्त्वा तेभ्यः सपत्नीकं वधं कुरुत मा चिरम् ॥२४
अस्य नेत्रे समुत्पाद्य मां दर्शयत संयुताः । इति श्रुत्वा गतास्ते वै गहनं व्याघ्रसेवितम् ॥२५
देर्वासिहस्ततो गत्वा दत्त्वा तेभ्यो महद्बधनम् । सम्प्राप्य दम्पती वीरश्चाण्डालेभ्यो वनं ययौ ॥२६
बलखानेस्तु या पत्नी गजमुक्ता पतिव्रता । दम्पति पालयामास गुह्यगहे भुदा युता ॥२७
चाण्डालास्ते तु सङ्गत्य मृगनेत्रे च तं^१ ददुः । देर्वासिहस्तदागत्य क्रोधात्मा च तमब्रवीत् ॥
धिक्त्वां पापं दुराचारं त्वया मे हिंसितः सखा ॥२८
जीवितस्त्वत्सुतो भूमौ तदन्वेषणहेतवे । यास्यामि विविधान्राष्ट्रान्सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम् ॥

गये । भ्रातृपुत्र (भतीजे) के वियोग से उदयसिंह उस समय अपनी शरीर का त्याग करने को तत्पर हो गये । उनकी उस अवस्था को देखकर आह्लाद (आल्हा) को महीपति (माहिल) की बातों का विश्वास हो गया । क्रुद्ध होकर उन्होंने वेत के दंडे से, जिसमें चर्म लगा रहता है, उदयसिंह को अत्यन्त पीटना आरम्भ किया । उनकी माता, पत्नी, एवं भगिनी ये सभी लोग प्रेम के कारण अत्यन्त दुःखी होकर उस धूर्त की माया से मुग्ध हुए आह्लाद (आल्हा) को समझाने लगे, किन्तु चित्ररेखा की माया से मोहित होने के नाते कुछ भी ज्ञान न हो सका । उस समय पुष्पवती देवी अपने पति को भाई द्वारा पीडित देखकर वहाँ शीघ्र पहुँचकर पति के दुःख से दुःखी होने लगी । बिना अपराध के उदयसिंह की बड़ी निन्दा हुई । उसी

इत्युक्त्वा प्रययौ वीरः शिरीषाख्यपुरं शुभम् ॥२९
 गजमुक्तामनुज्ञाप्य दम्पती प्राप्य निर्भयः । मयूरनगरं रम्यं निशि घोरं समाययौ ॥३०
 मकरन्दस्तु बलवाञ्छात्वा तत्सर्वकारणम् । स्वसुः पतिं च भगिनीं स्वान्ते प्रेम्णा न्यवासयत् ॥३१
 धर्ममाराधयामास यज्ञैर्नानाविधैः स्तवैः । प्रसन्नो धर्मराजश्च मकरन्दमुवाच ह ॥३२
 अभिनन्दनभूपस्य मुता चित्रप्रपूजिनी । नाट्यात्मजा केसरिणी तत्सखी दम्भकोविदा ॥३३
 केसरिण्या गुरुर्ज्ञेयः कुतुको योगरूपधृक् । तेन प्रसारिता माया शतयोजनमन्तरा ॥३४
 शत्रुभिर्दुर्गमा भूमिः शत्रुपाषाणकारिणी । चित्रगुप्तप्रभावेण निर्भयो भूपतिः स्वयम् ॥३५
 चित्ररेखा भूपमुता जयन्तस्तु तथा हृतः । नररूपधरो रात्रौ शुकुरूपधरो दिने ॥
 इन्दुलश्च स्थितो दुःखी चित्रमायाविमोहितः ॥३६
 कृष्णांशश्च भवान्देवः सहितः सूर्यवर्मणा । मया दत्तानि यन्त्राणि गृहीत्वा ते मुदा युताः ॥
 चित्ररेखां समागत्य नृत्यादींस्तैः समं कुरु ॥३७
 मोहयित्वा च तां देवीं पठित्वा तन्मतं शुभम् । पुनरागच्छ वै शीघ्रं सैन्ययोगं पुनः कुरु ॥३८
 इत्युक्त्वान्तर्दधे देवस्स राजा विस्मयान्वितः । कृष्णांशं वर्णयामास यथा धर्मेण भाषितम् ॥३९
 फाल्गुने मासि संप्राप्ते त्रयस्ते योगिरूपिणः । ययुरिन्नगरं रम्यं नृत्यगीतविशारदाः ॥४०
 मृदङ्गाङ्कुस्तदा देवो मकरन्दो विपञ्चिमान् । नृत्यगानकरो वीरः कृष्णांशः सर्वमोहनः ॥४१

यहाँ जा रहा हूँ । इतना कहकर उस वीर ने शिरीष (सिरसा) नगरी के लिए प्रस्थान किया । गजमुक्ता (गजमोतिना) से आज्ञा प्राप्तकर उन (स्त्री-पुरुष) को साथ लेकर उसे अंधेरी रात के आधीरात के समय मयूर नगर पहुँच गये । वहाँ बलवान् मकरन्द ने समस्त कारणों को भली भाँति समझकर अपनी भगिनी तथा उदयसिंह को सप्रेम अन्तःपुर में निवास कराया । पश्चात् मकरन्द ने नाना भाँति के यज्ञ

मोहयित्वा च नगरं तथा गजपतिं नृपम् । सकुलं च ससैन्यं च तुष्टो राजाब्रवीद्विदम् ॥४२
वाञ्छितं ब्रूहि मे योगिन्स श्रुत्वा प्राह नम्रधीः । देहि मे सूर्यवर्मणं स्वसुतं कार्यहेतवे ॥४३
कृत्वा कार्यमहं शीघ्रं पुनर्दास्यामि ते सुतम् । विधिना निर्मितो धर्मो राजभिर्विश्वरक्षणम् ॥४४
इति श्रुत्वा गजपतिर्दत्त्वा तेभ्यः स्वकं सुतम् । स्वराज्ञीमाययौ राजा गतास्ते कार्यतत्पराः ॥४५
पक्षमात्रेण बाल्लीकं नगरं प्रययुर्मुदा । धर्मदत्तानि यन्त्राणि गृहीत्वा शत्रुमन्दिरम् ॥४६
आययुर्लास्यतत्त्वज्ञा नृपमोहनतत्पराः । सर्वे च नागराः प्राप्तास्तत्र क्षत्रगणा मुदा ॥४७
मोहितास्तैश्च ते सर्वे गीतनृत्यविशारदैः । महद्वनं ददौ तेभ्यस्तोमरान्वयसम्भवाः ॥४८
तानादाय पुनर्नृपः स्वगेहमभिनन्दनः । आययौ गेहनृत्यार्थी कारयामास वै पुनः ॥४९
मकरन्दस्तदा वीणां मृदङ्गं भीष्मजो बली । मञ्जीरं सूर्यवर्मा च कृष्णांशो गाननृत्यकम् ॥५०
गृहीत्वा मोदयामासुर्नारीवृन्दा महोत्तमम् । चित्ररेखा स्वयं दृष्ट्वा तेषां मोहनहेतवे ॥५१
मायां निर्वापयामास निष्फला साऽभवत्क्षणात् । मोहितातैश्च सा देवी तानुवाच मुदान्विता ॥५२
वाञ्छितं ब्रूहि मे वीर कृष्णांशश्चाह तां बधूम् । शुक्रं देहि च मे देहि नो चेच्छापं ददाम्यहम् ॥५३
इति श्रुत्वा चित्ररेखा शोकव्याकुलचेतना । कृष्णांशं योगिनं प्राह सत्यं कथय को भवान् ॥५४

सर्वमोहक नृत्य-गान करने लगे । अपनी कला कुशलता से उन लोगों ने वहाँ के नागरिकों एवं राजा को एकदम मोहित कर दिया । अपने कुल कुटुम्ब एवं सेना समेत प्रसन्न होकर राजा से कहा—योगिन् ! आप मनइच्छित वस्तु बताइये, क्या चाहते हैं । इसे सुनकर उन लोगों ने नम्रता पूर्वक कहा—आप अपने पुत्र सूर्यवर्मा को (कुछ दिन के लिए) मुझे दे दीजिये, मुझे कुछ विशेष कार्य करना है । ३६-४३। कार्य हो जाने पर मैं आपके पुत्र को शीघ्र लौटा दूँगा । क्योंकि ब्रह्मा ने विश्व की रक्षा के लिए ही राजाओं का धर्म

इन्द्राद्या देवतास्सर्वे मया निर्मितया यया । मोहितः क्षणमात्रेण न भवान्मोहितो मया ॥५५
 देवो नारायणो वापि धर्मो वापि शिवः स्वयम् । इत्युक्तस्स तु कृष्णांशो वचनं प्राह निर्भयः ॥५६
 उदयो नाम मे राज्ञि देवसिंहोऽयमुत्तमः । मच्छचालो मकरन्दोऽयं सूर्यवर्मा तथाविधः ॥५७
 इन्दुलस्य वियोगेन वयं योगित्वमागताः । मद्गुरुश्च तथोन्मादी सङ्कुलस्तद्वियोगतः ॥५८
 शुक्रं देहि महामाये इन्दुलं देहि वा यदि । इत्युक्त्वाशु रुरोदोच्चैर्हा इन्दुल महाबल ॥५९
 दर्शनं देहि मे शीघ्रं नो चेत्प्राणांस्त्यजाम्यहम् । इत्येवं वादिनं वीरं चित्ररेखा महोत्तमा ॥६०
 कृत्वा लज्जां पुनः प्राह मां च पुत्रं गृहाण भोः । कृत्वा नरमयं रूपं स्वकान्तं सर्वसुन्दरम् ॥६१
 पतित्वा तच्चरणयो रुरोदोच्चैश्च दम्पती । तथाविधौ च तौ दृष्ट्वा कृष्णांशो हर्षसंयुतः ॥६२
 इन्दुलेनैव लिखितं गृहीत्वा पत्रमुत्तमम् । धर्मयन्त्रप्रभावेण मयूरनगरं ययौ ॥६३
 सूर्यवर्मा गतो गेहं मकरन्देन मानितः । देवसिंहस्तु बलवान्गृहीत्वा पत्रमुत्तमम् ॥६४
 ययौ मनोरथारूढो यत्राल्लादः शुचान्वितः । को भवानिति तं प्राह महोन्मादीव दृश्यते ॥६५
 देवसिंहं च मां विद्धि त्वपुत्रान्वेषणे रतम् । पत्रं गृहाण भो वीर लिखितं त्वत्सुतेन वै ॥६६
 इति श्रुत्वा स आल्लादश्चाल्लादं परमाप्तवान् । ज्ञात्वा तत्कारणं सर्वं यथाविधि सुतो हृतः ॥६७
 महीपतिं समाहूय वचनं प्राह नम्रधीः । सत्यं कथय मे भूप कृष्णांशेन हतस्सुतः ॥६८

हैं । ४४-५४। क्योंकि मेरी जिस माया द्वारा इन्द्रादि देवगण क्षणमात्र में मुग्ध हो जाते हैं, वह आप में निष्फल हो गई, आप मोहित न हो सके, अतः आप नारायण देव, धर्मराज, अथवा स्वयं शिव देव हैं । उसके इतना कहने पर उदयसिंह ने कहा । देवि ! मेरा नाम उदयसिंह है, मेरे साथ में देवसिंह, मेरा साला मकरन्द और सूर्यवर्मा हैं । इन्दुल के वियोग में हम लोगों ने योगी का वेष धारण किया था । मेरे बड़े भाई आह्लाद (आल्हा) को उसके वियोग में उन्माद हो गया है, अतः देवि ! शुक्र (तोते) अथवा

सहोवाच श्रुतं वीर कृष्णांशेन यथा हतः । इत्युक्त्वा तु विहस्याशु कार्यसिद्धिमुपागतः ॥६९
 आह्लादः क्रोधताम्राक्षः केशानाकृष्य तं मुदा । वेतसैस्ताडयामास स्वहस्तेन पुनः पुनः ॥७०
 श्रुत्वा परिमलो राजा सपत्नीकस्समागतः । बहुधा मोदयामास रामांशं बहुरूपिणम् ॥७१
 अरे धूर्त महापापिन्मद्बन्धुर्घातितस्त्वया । गतो यत्र मम प्राणस्सकुलं त्वां नयाम्यहम् ॥७२
 तदा महीपतिर्दुःखी निःश्वासो मौनमास्थितः । तदघं हृदि संस्थाप्य महापीडामवाप्तवान् ॥७३
 एतस्मिन्नन्तरे वीरो बलखानिः समागतः । विमुच्य मातुलं धूर्तं ज्येष्ठबन्धुमसान्त्वयत् ॥७४
 स चकार विवाहार्थमुद्योगं भ्रातृजस्य वै । नेत्रसिंहो नृपः प्राप्तो लक्षसैन्यसमन्वितः ॥७५
 तारकश्च तमायातस्सार्द्धं शूरसहस्रकैः । वीरसेनः स्वयं प्राप्तः शूरैः सार्द्धं नवाऽयुतैः ॥७६
 तालनश्च ततः प्राप्तो लक्षसैन्यसमन्वितः । सूर्यवर्मा तथा प्राप्तो लक्षसैन्यसमन्वितः ॥७७
 ब्रह्मानन्दः स्वयं प्राप्तस्त्रिलक्षबलसंयुतः । आह्लादश्च शुचाविष्टो लक्षसैन्यसमन्वितः ॥७८
 हा बन्धो क्व गतस्त्वं वै मां त्यक्त्वा पुरुषाधमम् । इत्युक्त्वा प्रययौ वीरः शोकव्याकुलचेतनः ॥७९
 बलखानिस्तु बलवाल्लक्षसैन्यसमन्वितः । देवसिंहेन सहितो बाल्हीकं प्रति सोऽगमत् ॥८०
 अहोरात्रप्रमाणेन मासैकः पथि वै गतः । ज्येष्ठकृष्णस्य पञ्चम्यां बाल्हीकग्राममाप्तवान् ॥
 व्यूहः स्वकीयसैन्यानां रचितो बलखानिना ॥८१

राजन् ! जिस प्रकार उदयसिंह द्वारा मेरे पुत्र का अपहरण हुआ है, आप सत्य बताने की कृपा करें । उन्होंने कहा—वीर ! उदयसिंह ने जिस प्रकार उसका वध किया मैंने सुना था और आप को बताया भी था । इतना कहकर उन्होंने हँसते हुए कहा—'मेरा कार्य तो सिद्ध हो गया ।' इतना सुनते ही आह्लाद (आल्हा) के दोनों नेत्र क्रुद्ध होने के नाते ताँबे की भाँति रक्त वर्ण के हो गये । उन्होंने बेत की छड़ी लेकर स्वयं अपने हाथ से उन पर आघात करना आरम्भ किया । उसे मनुकर पत्नी समेत राजा परिमल ने त्वां

एको रथः स्थितो युद्धे तत्पश्चात्संस्थिता गजाः । पञ्चाश्च क्रमात्तेषां बाजिनश्च शतंशतम् ॥८२॥
 तेषां पश्चात्क्रमाज्जेयाः पत्तयो दश संस्थिताः । एका सेना च सा ज्ञेया तत्प्रमाणं ब्रवीम्यहम् ॥८३॥
 एको रथो गजास्सर्वे शताद्धं तु ह्यास्तु ये । सेनायां पञ्चसाहस्राः शतघ्न्यस्तु तथा स्मृताः ॥८४॥
 पञ्चायुतानि सेनायां सर्वे पदचराः स्मृताः । एवंविधाश्च ताः सेना बलखानेश्च षोडश ॥८५॥
 गजास्तु दशसाहस्रा मदमत्ताः पृथग्ययुः । युद्धेऽस्मिन्गणितं ह्येवं शूराः शत्रुप्रहारिणः ॥८६॥
 अभिनन्दनभूपस्य म्लेच्छाः पैशाचधर्मिणः । त्रिलक्षाश्च ह्यारूढा एकलक्षाः शतघ्निपाः ॥८७॥
 एकलक्षः पदचरा भुशुण्डीपरिघायुधाः । तोमरान्वयसंयुक्ताः क्षत्रियाः प्रयुतानि वै ॥
 गजस्थास्तत्र सम्प्राप्ता यत्राल्लादमहाचमूः ॥८८॥
 तयोश्चासीन्महद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् । मदमत्ताश्च ते सर्वे निर्भया रणमाययुः ॥८९॥
 सप्ताहोरात्रमभवद्युद्धं समरशालिनाम् । बाल्हीकस्यार्द्धसेना च क्षयं नीता च तैनृपैः ॥९०॥
 एकलक्षं हताः सर्वे बलखानेश्च सैन्यपैः । हाहाभूते शत्रुसैन्ये भयभीते दिशो गते ॥
 हर्षिता बलखान्याद्या जय दुर्गे वचोऽब्रुवन् ॥९१॥
 दृष्ट्वा सैन्यविनाशं च राज्ञः सप्तकुमार । कौरवांशाश्च ते मुर्यत्र जातो महारणः ॥९२॥
 महानन्दश्च नन्दश्च परानन्दोपनन्दकौ । सुनन्दश्च मुरानन्दः प्रनन्दः क्रमतो भवाः ॥९३॥
 गजस्थास्ते महावीरास्तोमरान्वयसम्भवाः । सेनां जघ्नुः शरैस्तीक्ष्णैर्बलखानेर्महात्मनः ॥९४॥

बलखानि (मलखान) ने व्यूह रचना आरम्भ किया । पहले रथ के सैनिक, गज, पचास घोड़े पश्चात् उनके पीछे दश-दश पदाति (पैदल) की सेना स्थित की गई । उस एक सेना का प्रमाण मैं बता रहा हूँ जिसमें रथ, गज, और पचास-पचास घोड़े थे—सेना में पाँच सहस्र तोपें, और पचास सहस्र पदाति (पैदल) सैनिक थे । इस प्रकार बलखानि (मलखान) की सोलह सेना थी, जिसमें दश सहस्र मदोन्मत्त

भयभीताश्च ते सर्वे बलखानिमुपाययुः । दृष्ट्वा सैन्यं पराभूतं बलखानिस्तदा र्षा ॥९५
 अम्यधावत^१ वेगेन कपोतस्थो महाबलः । नन्दं प्रति तथा देवः परानन्दं च तालनः ॥९६
 उपनन्दं सूर्यवर्मा सुनन्दं प्रति तारकः । नेत्रसिंहः सुरानन्दं प्रनन्दं प्रति यादवः ॥९७
 युध्यमानास्तु ते सर्वे परस्परवधैषिणः । दिनाद्धमभवद्युद्धं बहुवीरप्रणाशनम् ॥९८
 पराजितास्तु ते पुत्रा बाल्लीकस्य महाबलाः । त्यक्त्वा युद्धं ययुर्गेहं भीरुका बलखानिना ॥९९
 दृष्ट्वा तेषां बलं घोरमभिनन्दनभूमिपः । कुतुकं च समाहूय नाट्यां केसरिणीं तथा ॥
 कथितं कारणं राज्ञा यथा जातः पराजयः ॥१००
 इति श्रुत्वा तु कुतुकस्तमाश्रास्य महीपतिम् । स ध्यात्वा शाम्बरीं मायां महादेवेन निर्मिताम् ॥
 तत्सैन्यं मोहयामास शिलाभूतमचेतनम् ॥१०१
 तदा केसरिणी नाट्या अष्टौ बद्ध्वा महाबलान् । राज्ञः पार्श्वमुपागम्य दत्त्वा तान्गेहमाययौ ॥१०२
 बाल्लीकश्च प्रसन्नात्मा बद्ध्वा तान्निगडैर्दृढैः । लुण्ठित्वा द्रविणं तेषां कोशमध्ये समाक्षिपत् ॥१०३
 देव्याश्च वरदानेन देवसिंहो भयातुरः । महावतीं समागम्य स्वर्णवत्यै न्यवेदयत् ॥१०४
 ज्ञात्वा स्वर्णवती देवी सर्वविद्याविशारदा । श्येनीं मूर्तिं समास्थाय ययौ पुष्पवतीं प्रति ॥१०५
 दृष्ट्वा तु दम्पती तत्र मकरन्दं गृहे स्थितौ । हृदित्वा कथयामास यथा प्राप्तः पराजयः ॥१०६

सैनिकों को धराशायी करने लगे । पश्चात् भयभीत होकर वे सैनिक बलखानि (मलखान) की शरण में पहुँच गये । अपनी सेना को पराजित होते देखकर बलखानि (मलखान) ने क्रुद्ध होकर कपोत (कबूतर) नामक घोड़े पर बैठकर उस रण क्षेत्र को प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर नन्द के साथ देवसिंह, परानन्द के साथ तालन, उपनन्द से सूर्यवर्मा, सुनन्द से तारक (ताहर), सुरानन्द के साथ नेत्रसिंह, एवं प्रनन्द के साथ यादव (मकरन्द) का भीषण युद्ध आरम्भ हुआ । उन वीरों ने परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा करते

कृष्णांशस्तु तदा दुःखी मकरन्दं वचोऽब्रवीत् । गच्छ वीर मया सार्द्धं मद्गुरुर्बन्धनं गतः ॥१०७
 कुलक्षये महत्पापं सुप्रोक्तं पूर्वसूरिभिः । निमग्नान्दुःखजलधौ समुद्धर मम प्रिय ॥१०८
 इति श्रुत्वा तु तच्छयालः शूरायुतसमन्वितः । संन्यस्तवेषमास्थाय खड्गचर्मसमन्वितः ॥
 कृष्णांशेन ह्यारूढो बाल्लीके त्वरितो ययौ ॥१०९
 तदा स्वर्णवती देवी पुष्पवत्या समन्विता । श्येनीरूपमुपास्थाय ययौ यत्र महारणः ॥११०
 स छित्त्वा शाम्बरीं मायां बोधयित्वा स्वसैनिकान् । रुरोध नगरीं तस्य बाल्लीकस्य महात्मनः ॥१११
 दृष्ट्वा ताञ्छत्रसंयुक्तान्कुतुकस्तु तथा सह । पुनश्च शाम्बरीं मायां प्रेषयामास तान्प्रति ॥११२
 छित्त्वा सा सकलां मायां बद्ध्वा तौ दैत्यसन्निभौ । नगरं दाहयामास तस्य भूपस्य मायया ॥११३
 न दाहो दाहमापन्नो न भस्मी भस्मवान्खलु । स्वर्णवत्या कृतं चित्रं स्वयं देव्या च मायया ॥११४
 तदा पुष्पवती देवी हत्वा केसरिणीं रूषा । तन्मांसैस्तर्पयामास गृध्रगोमायुवायसान् ॥११५
 कुतुकं च तथाभूतं हत्वा स्वर्णवती स्वयम् । कारागारे लोहमये स्थितान्वीरानमोचयत् ॥११६
 पुनरागम्य सा देवी तथा सार्द्धं शुभानना । मकरन्दः स्थितो यत्र कृष्णांशेन समन्वितः ॥११७
 ते सर्वे विस्मिताश्चासञ्जात्वा देव्या विमोहिताः । क्रोधवन्तो महावीरा युद्धाय समुपाययुः ॥११८
 पुनश्चासीत्तयोर्युद्धं सेनयोरुभयोर्युद्धे । बलखानिं महानन्दो नन्दश्चाल्लादमाययौ ॥११९

दुःखी होकर उदयसिंह ने मकरन्द से कहा—मेरे साथ चलने के लिए शीघ्र तैयारी करो, क्योंकि मेरे गुरु (आल्लाद) भी बंधन में फँस गये हैं। पूर्व के विद्वानों ने बताया है कि—कुलक्षय होने पर महापातक की प्राप्ति होती है। अतः मेरे प्रिय ! दुःख सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करो। इतना सुनकर उनके साले ने दश सहस्र सैनिकों समेत संन्यासी का वेष धारणकर हाथ में खड्ग और चर्म (ढाल) लिए बाल्लीक नगर को प्रस्थान किया। घोड़े पर बैठे हुए उदयसिंह उस सैन्य का संचालन शीघ्रता से कर रहे थे। उस

परानन्दस्तथा देवं तारकं चोपनन्दनः । सुनन्दो नेत्रसिंहं च सुरानन्दश्च तालनम् ॥१२०
 प्रनन्दो वीरसेनं च ब्रह्मानन्दं स भूपतिः । गजस्थिताश्च ते सर्वे धनुर्युद्धपरायणाः ॥
 अहोरात्रमभूद्युद्धं तेषां च तुमुलं क्रमात् ॥१२१
 एतस्मिन्नन्तरे रात्रौ चित्ररेखा समागता । स्वकीयान्व्याकुलीभूतांस्तादृशांश्च विलोक्य वै ॥१२२
 चित्रगुप्तं तदा ध्यात्वा चित्रमायामचीकरत् । तदा तद्वान्धवाश्चासन्बहुधा चाभिनन्दनाः ॥१२३
 तान् दृष्ट्वा विस्मिताः सर्वे भयभीताश्च दुद्रुवुः । त्यक्त्वा युद्धमयीं भूमिं शोकव्याकुलचेतनाः ॥१२४
 पञ्चयोजनमागत्य ततो वासमकारयन् । सन्ध्याकाले तमोभूते निस्तसाहा महाबलाः ॥१२५
 हा कृष्णांश महाबाहो शरणागतवत्सल । इन्दुलस्ते कुमारोऽयं संहृतश्चित्ररेखया ॥१२६
 तथा विमोहिता वीरा वयं ते शरणं गताः । इत्युक्त्वा रोदनं चक्रुः क्व गतोऽसि महामते ॥१२७
 तदा कोलाहलश्चासीद्ब्रुवतां बलशालिनाम् । आह्लादं गर्हयित्वा ते मूर्च्छिता भुवि विह्वलाः ॥१२८
 आह्लादस्तु तथा श्रुत्वा वज्रपाताहतः स्वयम् । उन्मादिवत्तदा भूत्वा ताडयामास वक्षसि ॥१२९
 एतस्मिन्नन्तरे योगी कृष्णांशो भगवत्कला । चन्द्रोदये स्वयं प्राप्तश्चाष्टम्यां भृगुवासरे ॥१३०
 शूरश्च दशसाहस्रैर्मकरन्देन संयुतः । तत्सेनां बोधयामास पालितां बलखानिना ॥१३१
 जित्वा तान्सर्वभूपालान्गृहीत्वा विपुलं धनम् । पञ्चशब्दस्थितं बन्धुं प्रत्यागत्य जगर्ज वै ॥१३२

देवसिंह से परानन्द, तारक से उपनन्द, नेत्रसिंह से सुनन्द और तालन से सुरानन्द, वीरसेन से प्रनन्द, और ब्रह्मा से स्वयं राजा युद्ध कर रहे थे । राजकुमार गण गजराज पर स्थित होकर धनुर्युद्ध अविराम गति से कर रहे थे । वह युद्ध दिन-रात चलता रहा पश्चात् उसी बीच रात्रि में चित्ररेखा ने वहाँ रणस्थल में आकर अपने पक्ष के सैनिकों को व्याकुल देखकर चित्रगुप्त के ध्यान पूर्वक चित्रमाया का निर्माण किया ।

तस्य शब्देन शेषांशो बोधितो बलशालिना । शकुनं शुभमालोक्य भुजावुत्थाप्य वीर्यवान् ॥
 स्वांके निवेशयामास कृष्णांशं योगिरूपिणम् ॥१३३
 स्नापयित्वाश्रुधाराभिः कृष्णांशं प्रेमविह्वलः । दत्त्वा द्विजातिमुख्येभ्यो वर्णयामास कारणम् ॥१३४
 कृष्णांशोऽपि प्रसन्नात्मा स्वकीयां सकलां कथाम् । वर्णयित्वा यथाभूतां पुनर्बाल्लीकमाययौ ॥१३५
 चित्रविद्यां स्वयं कृत्वा पाठितां चित्ररेखया । बद्ध्वाभिनन्दनं भूपं ससुतं च समन्त्रिणम् ॥
 विवाहं कारयामास जयन्तस्य तया सह ॥१३६
 बाल्लीकस्तु प्रसन्नात्मा दत्त्वा च विपुलं धनम् । स्वसुतां चित्ररेखां च जयन्ताय मुदा ददौ ॥१३७
 शतं गजान्हायांस्तत्र सहस्राणि धनैर्युतान् । शतं दासांस्तथा दासीर्जयन्ताय स्वयं ददौ ॥१३८
 प्रस्थानं कारयामास बलखानेर्महात्मनः । श्रावणे मासि सम्प्राप्तास्ते सर्वे च महावतीम् ॥१३९
 स्वं स्वं गेहं ययुस्सर्वे भूपाश्चाल्लादमानिताः । इति ते कथितं विप्र चरित्रं कलिनाशनम् ॥
 भृष्वतां सर्वपापघ्नं कथयिष्यामि वै पुनः ॥१४०

इति श्रीभविष्ये महापुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चतुर्गुणखण्डापरपर्याये
 कलियुगीयेतिहाससमुच्चयो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥२३

भाई के सामने आकर सिंहनाद किया । उनके शब्द को सुनकर बलशाली (मलखान) ने उन्हें पहचान लिया । उस समय उस पराक्रमी को शुभ शकुन भी हो रहा था, अतः उसने अटल भाव से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर योगी वेपधारी उदयसिंह को अपने अंक (गोद) में बैठा लिया, पश्चात् उनके प्रेम में अधीर होकर आँसुओं की धारा से उन्हें स्नान कराया, और ब्राह्मणों को दान द्वारा तृप्त करते हुए सभी कारणों का आद्योपान्त वर्णन किया । प्रसन्न होकर उदयसिंह ने भी अपनी सकल कथा सुनाई । अनन्तर

अथ चतुर्विंशोऽध्यायः कलियुगेतिहाससमुच्चयवर्णनम्

सूत उवाच

कृष्णांशे च गृहं प्राप्ते चेन्दुले च विवाहिते । महीपतिस्सदा दुःखी देहलीं प्रति चागमत् ॥१
 वृत्तान्तं च नृपस्याग्रे कथयित्वा स तारकः । परं विस्मयमापन्नः कृष्णांशचरितं प्रति ॥२
 एतस्मिन्नन्तरे मन्त्री चन्द्रभट्ट उदारधीः । भूमिराजं वचः प्राह शृणु पार्थिवसत्तम ॥३
 मया चाराधिता देवी वैष्णवी विश्वकारिणी । त्रिवर्षान्ते च तुष्टाभूद्वरदा भयहारिणी ॥४
 तया दत्तं शुभं ज्ञानं कुमतिध्वंसकारकम् । ततोऽहं ज्ञानवान्भूत्वा कृष्णांशं प्रति भूपते ॥
 चरित्रं वर्णयामास तस्य कल्मषनाशनम् ॥५
 इत्युक्त्वा स च शुद्धात्मा ग्रन्थं भाषामयं शुभम् । माहात्म्यं देविभक्तानां श्रावयामास वै सभाम् ॥६
 तच्छ्रुत्वा भूमिराजस्तु विस्मितश्चाभवत्क्षणात् । महीपतिस्तदा प्राह दिव्याश्वबलदर्पितः ॥
 उदयो नाम बलवान्यस्यैवं वर्णिता कथा ॥७
 चत्वारो वाजिनो दिव्या जलस्थलखगाश्च ते । शीघ्रं तांश्च समाहृत्य स्वयं भूप बली भव ॥८
 इति श्रुत्वा स नृपतिः श्रुतवाक्यविशारदम् । आहूय कुन्दनमलं प्रेषयामास सत्वरम् ॥९

अध्याय २४

कलियुगीय इतिहाससमुच्चय का वर्णन

महावतीं समागत्य स दूतो भूपतिं प्रति । उवाच वचनं प्रेम्णा महीराजस्य भूपतेः ॥१०
 वाजिनस्ते हि चत्वारो दिव्यरूपाः शुभप्रभाः । दर्शनार्थं तव बधूर्वेला नाम ममात्मजा ॥११
 तयाहूतान्ह्यान्भूप देहि मे विस्मयं त्यज । नो चेद्वेलाग्निना सर्वं क्षयं यास्यन्ति सैन्यपाः ॥१२
 इति श्रुत्वा वचो घोरं स भूपो भयकातरः । आह्लादादीन्समाहूय वचनं प्राह नम्रधीः ॥
 ह्यान्स्वान्स्वान्मुदा देहि मदीयं वचनं कुरु ॥१३
 इति श्रुत्वा स आह्लादो ध्यात्वा सर्वमयीं शिवाम् । उवाच मधुरं वाक्यं शृणु भूप शिवप्रिय ॥१४
 यत्र नः संस्थिताः प्राणास्तत्र ते वाजिनः स्थिताः । न दास्यामो वयं राजन्सत्यं सत्यं न चान्यथा ॥१५
 इति श्रुत्वा वचस्तस्य राजा परिमलो बली ॥१६
 शपथं कृतवान्घोरं शृण्वतां बलशालिनाम् । भोजनं ब्रह्ममांसस्य पानीयं गोऽसृजोपमम् ॥१७
 शय्या स्वमातृसदृशी ब्रह्महृत्योपमा सभा । मम राष्ट्रे च युष्माभिर्वासः पापमयो महान् ॥१८
 इति श्रुत्वा तु शपथं देवकी शोकतत्परा । चकार रोदनं गाढं सगेहजनविग्रहा ॥१९
 पञ्चविंशब्दके प्राप्ते कृष्णांशे योगतत्परे । भाद्रशुक्लचतुर्दश्यां तद्गेहाद्धर्मतत्पराः ॥२०
 निर्ययुः कान्यकुब्जं ते जयचन्द्रेण पालितम् । स्वर्णवत्या पुष्पवत्या सहिताश्चित्ररेखया ॥२१
 इन्दुलः प्रययौ शीघ्रमयुताश्वबलैस्सह । करालं हयमारुह्य पञ्चशब्दं च तत्पिता ॥

और उसे सभी बातें बताकर शीघ्र भेज दिया । वह दूत महावती (महोबा) राजधानी में पहुँचकर नम्रता पूर्वक पृथ्वीराज के सन्देश को कहने लगा—राजन् ! दिव्य एवं शुभ शरीरधारी चार घोड़े आप के हैं, उन्हें देखने के लिए मेरी पुत्री वेला, जो आप की पुत्रवधू है, अपनी इच्छा प्रकट कर रही है । अतः भूप ! उसकी इच्छा के अनुसार आप आश्चर्य का परित्याग करते हुए घोड़ों को शीघ्र भेजने की व्यवस्था करे, अन्यथा (नहीं तो) इस भीषण सन्देश को सुनकर अत्यन्त भयभीत होते हुए राजा परिमल ने आह्लाद (महोबा) शीघ्र भेज दिया ।

कृष्णांशो बिन्दुलारूढो देवकीमनुसंययौ ॥२२
 त्यक्त्वा ते भूपतेर्ग्रामं सर्वसम्पत्समन्वितम् । पथि त्र्यहमुषित्वा ते जयचन्द्रमुपाययुः ॥२३
 नत्वा तं भूर्पतिं प्रेम्णा गदित्वा सर्वकारणम् । उषित्वा शीतलास्थाने पूजयामासुरम्बिकाम् ॥२४
 जयचन्द्रस्तु भूपालो देवसिंहेन वर्णितः । तेभ्यश्च न ददौ वृत्तिं भूमा परिमलाज्ञया ॥२५
 कुण्ठितो देवसिंहस्तु गत्वा कृष्णांशमुत्तमम् । उदित्वा कारणं सर्वं स श्रुत्वा रोषमादधौ ॥२६
 त्वरितं बिन्दुलारूढो ह्यपञ्चशतावृतः । लुण्ठयामास नगरं पालितं लक्षणेन तत् ॥२७
 दृष्ट्वा तं लक्षणो वीरो हस्तिनः पृष्ठमास्थितः । शरेण ताडयामास कृष्णां शहृदयं दृढम् ॥२८
 निष्फलत्वं गतो बाणो विष्णुमन्त्रेण प्रेरितः । विस्मितः स तु भूपालो वाहनाद्भूमिमागतः ॥२९
 नत्वा तच्चरणौ दिव्यौ कुलिशादिभिरन्वितौ । तुष्टाव दण्डवद्भूत्वा लक्षणो गद्गदं^१ गिरा ॥३०

लक्षण उवाच

वैष्णवं विद्धि मां स्वामिन्विष्णुपूजनतत्परम् । जानेऽहं त्वां महाबाहो कृष्णशक्त्यवतारकम् ॥३१
 त्वदृते को हि मे बाणं निष्फलं कुस्ते भुवि । क्षास्त्र मम दौरात्म्यं नाथ ते मायया कृतम् ॥३२
 इत्युक्त्वा तेन सहितो जयचन्द्रं महीपतिम् । गत्वा तं कथयामास यथा प्राप्तः पराजयम् ॥३३

बिन्दुल (बेंदल) पर बैठकर उदयसिंह देवकी देवी के अनुगामी होकर चल रहे थे । १९-२२। उन वीरों ने राजा के उस सुसम्पन्न गाँव के परित्याग पूर्वक तीन दिन की यात्रा करके जयचन्द्र की राजधानी को देखा । वहाँ पहुँचकर नमस्कार पूर्वक राजा से समस्त वृत्तान्त बताकर शीतला स्थान में रहकर चण्डिका देवी की पूजा की । अपने निष्कासन के सभी कारणों का देवसिंह द्वारा वर्णन करने पर राजा जयचन्द्र ने उन्हें कोई वृत्ति देने से इसलिए अस्वीकार किया कि परिमल की सम्मति नहीं थी पश्चात् देवसिंह ने तिराण होकर उदयसिंह के पास जाकर उनसे उस वृत्तान्त का पूर्ण विनाश करने का अनुरोध किया ।

नृपस्तयोः परीक्षार्थं यौ तु छायाबिमोहितौ । गजौ कुवलयपीडौ त्यक्तवाञ्छीतलास्थले ॥३४
 तदाह्लादोदयौ वीरौ गृहीत्वा तौ स्वलीलया । चकृषतुर्बलात्पुच्छे क्रोशमात्रं पुनः पुनः ॥३५
 मृतौ कुवलयपीडौ दृष्ट्वा राजा भयातुरः । ददौ राजगृहं ग्रामं तयोरर्थे प्रसन्नधीः ॥३६
 इषशुक्ले तु सम्प्राप्ते लक्षणो नाम वै बली । नृपाज्ञया ययौ शीघ्रं तैश्च^१ दिग्विजयं प्रति ॥३७
 सप्तलक्षबलैस्साढं तालनाद्यैश्च संयुतः । वाराणसीं पुरीं प्राप्यं हरोध नगरीं तदा ॥३८
 रुद्रवर्मा च भूपालो गौडवंशयशस्करः । पञ्चायुतैः स्वसैन्यैश्च साढं युद्धार्थमाप्तवान् ॥३९
 याममात्रेण तं जित्वा षोडशाब्दस्य वै करम् । कोटिमुद्रामयं प्राप्य जयचन्द्राय चार्पयत् ॥४०
 मागधेशं पुनर्जित्वा नाम्ना विजयकारिणम् । विंशत्यब्दकरं प्राप्य स्वभूपाय समर्पयत् ॥४१
 पञ्चकोटीश्च वै मुद्रा राजतस्य पुनर्ययौ । अङ्गदेशपतिं भूपं मायावर्माणमुत्तमम् ॥४२
 सैन्यायुतयुतं जित्वा विंशत्यब्दस्य वै करम् । कोटिमुद्राश्च सम्प्राप्य स्वभूपाय समर्पयत् ॥४३
 वङ्गदेशपतिं वीरो लक्षणो वै युतश्च तैः । लक्षसैन्ययुतं भूपं कालीवर्माणमुत्तमम् ॥
 अहोरात्रेण तं जित्वा महायुद्धेन लक्षणः ॥४४
 विंशत्यब्दकरं प्राप्य कोटिं स्वर्णमयं तदा । प्रेषयामास भूपाय जयचन्द्राय वै मुद्रा ॥४५

यथोचित वर्णन किये । तदुपरान्त राजा ने उनके परीक्षार्थं कुवलयपीड नामक हाथियों को जो छाया से मोहित किये थे, शीतला-स्थान के विशाल प्राङ्गण में भेजा । उस समय आह्लाद (आल्हा) और उदयसिंह ने लीलापूर्वक उसे पूँछ की ओर पकड़कर एक कोश तक खींचा-खींची की, जिससे उस कुवलयपीड नामक गजराज की मृत्यु हो गई । उसका निधन देखकर भयभीत होते हुए राजा ने उन्हें राजग्रह नामक गाँव सौंप दिया । पश्चात् आश्विन शुक्ल के आरम्भ होने पर बलवान् लक्षण (लाखन) ने